

भारत का राजपत्र
The Gazette of India
साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15] नई दिल्ली, शनिवार, अप्रैल 14—अप्रैल 20, 2018 (चैत्र 24, 1940)

No. 15] NEW DELHI, SATURDAY, APRIL 14—APRIL 20, 2018 (CHAITRA 24, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1

[PART III—SECTION 1]

[उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के
संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं]

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public
Service Commission, the Indian Railways and by Attached and Subordinate Offices of the
Government of India]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2018

फा. सं. पी-2562/प्रशा. II.—माननीय अध्यक्ष, संघ लोक सेवा आयोग के नियमित संपदा प्रबंधक एवं बैठक अधिकारी श्री सुधीर कुमार गौड की, संघ लोक सेवा आयोग कार्यालय में सहायक निदेशक (गोपनीय) [सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह-क राजपत्रित, अननुसचिवीय] के पद पर, वेतन मेट्रिक्स के वेतन स्तर-10 (ग्रेड वेतन 5400/-रु. सहित) में प्रतिनियुक्ति की अवधि का, आगामी एक वर्ष की अवधि अर्थात् प्रतिनियुक्ति के छठे वर्ष के लिए दिनांक 21-02-2018 से 20-02-2019 तक अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, आगे बढ़ाते हैं।

2. सहायक निदेशक (गोपनीय) के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति की अवधि के दौरान श्री सुधीर कुमार गौड का वेतन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 17 जून, 2010 के का. जा. सं. 6/8/2009-स्था. (वेतन- II) में शामिल प्रावधानों के अनुसार नियंत्रित होगा।

एस. पद्मनाभा

अवर सचिव (स्था.)

गृह मंत्रालय
(महानिदेशालय)
(केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल)

नई दिल्ली, 9 मार्च, 2018

सं. ई-33013(1)/तकनीकी त्यागपत्र-3/एफजे/2018/कर्मिक. 1/218.—सिविल सर्विस परीक्षा-2016 के आधार पर श्री फैजल जावेद, सहायक कमांडेंट/कार्य (के. स. पू. ब-2012) के औसुब इकाई ऑयल दूलियाजान का भारतीय आयुध निर्माणी सेवा (रक्षा मंत्रालय) में सहायक कर्मशाला प्रबंधक (परिविक्षा) समूह-क राजपत्रित पद पर नियुक्ति होने पर, राष्ट्रपति, उनका के.औ.सु. बल की सेवा से तकनीकी त्याग-पत्र दिनांक 25.02.2018 (अपराहन) से सहर्ष स्वीकार करते हैं।

वी. के. चौरसिया

सहायक महानिरीक्षक/कर्मिक

महालेखाकार (सामान्य एवं सामाजिक क्षेत्र लेखापरीक्षा) का कार्यालय

भुवनेश्वर, 20 मार्च, 2018

स्थापना आदेश संख्या : 38.—ज्ञापन सं. प्रशासन (सा.सा.क्षे.लेप)/3-1 (सलेपअ)/भाग-X/2559 दिनांक 08.03.2018 द्वारा सूचित कार्यालय आदेश 'ग' 1616 दिनांक 08.03.2018 के अनुपालन में निम्नलिखित कर्मचारियों की पदोन्नति होने पर उनके नाम के समक्ष दर्शाए गए तिथि से वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल-8 पर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी (सिविल) के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

क्र. संख्या	अधिकारी का नाम (श्री/सर्वश्री)	सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	अर्जुन स्वाई	09.03.2018 पूर्वान्ह
2.	शेखर कुमार	08.03.2018 अपरान्ह
3.	अर्पिता रॉय	09.03.2018 पूर्वान्ह
4.	सूर्यतापा चक्रवर्ती	08.03.2018 अपरान्ह
5.	सुजीत कुमार	08.03.2018 अपरान्ह
6.	चन्द्र सेखर बेहेरा	08.03.2018 अपरान्ह
7.	सुरेश चन्द्र नायक	09.03.2018 पूर्वान्ह
8.	प्रशान्त कुमार मोहन्ती	08.03.2018 अपरान्ह
9.	प्रताप कुमार बिधानी	08.03.2018 अपरान्ह
10.	प्रवात रंजन साहू	08.03.2018 अपरान्ह
11.	प्रदीप कुमार साहू	09.03.2018 पूर्वान्ह
12.	मनोज कुमार	12.03.2018 पूर्वान्ह
13.	श्याम कुमार	08.03.2018 अपरान्ह
14.	आदित्य प्रसाद नायक	08.03.2018 अपरान्ह

स्निग्धा महान्ति

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/प्रशासन

रक्षा लेखा विभाग

(कार्यालय, रक्षा लेखा महानियंत्रक)

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 2018

सं. प्रशा.-I/1175/सीजीडीए/2017-18.—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा की अधिकारी श्रीमती मधुलिका पी. सुकुल को दिनांक 01 फरवरी, 2018 (पूर्वाहन) से आगामी आदेश पर्यन्त रक्षा लेखा महानियंत्रक के पद पर रुपये 80,000/- (नियत)(छठा केन्द्रीय वेतन आयोग)/ वेतन मैट्रिक्स का स्तर 17 (7वां केन्द्रीय वेतन आयोग) के वेतनमान में नियुक्त सहर्ष नियुक्त करते हैं।

मुश्ताक अहमद

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (प्रशा.)

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2018

सं० प्रशा०-I/1173/एनएफएसजी/2018.—राष्ट्रपति, भारतीय रक्षा लेखा सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाए गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त उक्त सेवा के कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अकृत्यिक चयन श्रेणी में [(रुपये 37,400-67,000) (छठा केन्द्रीय वेतन आयोग)/ वेतन मैट्रिक्स का स्तर 13 (रुपये 1,23,100-2,15,900) (7वां केन्द्रीय वेतन आयोग)] में उनके नाम के समक्ष दर्शाए गई तारीख से आगामी आदेश पर्यन्त सहर्ष नियुक्त करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम सर्वश्री	कनिष्ठ प्रशासनिक ग्रेड के अकृत्यिक चयन श्रेणी में नियुक्ति की तारीख
1.	धनन्जय सिंह	01/01/2018
2.	(श्रीमती) मोइना बेनजीर	01/01/2018
3.	अमित गुप्ता	01/01/2018
4.	अम्बरीश बर्मन	01/01/2018
5.	एस. मुरलीकृष्णन	01/01/2018
6.	संदीप ठाकुर	01/01/2018
7.	संजय कुमार	01/01/2018
8.	टी. कबिलान	01/01/2018

मुश्ताक अहमद

रक्षा लेखा उप महानियंत्रक (.प्रशा.)

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

(श्रम ब्यूरो)

शिमला, 28 मार्च, 2018

सं. 5/1/2018-सी.पी. आई.—फरवरी, 2018 में औद्योगिक श्रमिकों का अखिल भारत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार वर्ष 2001=100) 1 अंक घटकर 287 (दो सौ सत्तासी) अंकों के स्तर पर रहा।

अमृत लाल जांगिड़
उप निदेशक

S.No.	CIN	कम्पनी का नाम
1	AAD-0253	जेनिथ हेयर ट्रान्सप्लान्ट एन्ड कॉस्मेटिक सजरी एलएलपी
2	AAG-2633	स्पेयर डिजिटल वेब हेयर एलएलपी
3	AAH-3324	फ्री जोन रियल एस्टेट एलएलपी
4	AAH-8431	ओसिआ पैकेजिंग एलएलपी
5	AAF-4155	माँ अष्टभुजा मिनरल्स एलएलपी
6	AAE-3019	रेड मेपिल वैली फूड्स इंडिया एलएलपी
7	AAD-3957	मेक्जिम इन्फ्रा सर्विसेज इंडिया एलएलपी
8	AAD-8698	शोपेहोलिक कार्ट इकॉमर्स एलएलपी
9	AAH-1392	वरीटैक कन्सट्रक्शन इक्युप्मेंट एलएलपी
10	AAB-5381	एंथम एविएशन सर्विसेज एलएलपी
11	AAF-1974	मिराकल ब्रुअर क्लाथिंग एन्ड लाईफस्टायल एलएलपी
12	AAB-2102	अजयगढ़ फार्म्स एन्ड एस्टेट एलएलपी
13	AAC-5153	समय मल्टीट्रेड इंडिया एलएलपी
14	AAB-9400	व्यास माईन्स एन्ड मिनरल्स एलएलपी
15	AAC-3911	श्रृष्टि नेचुरल रिसोर्सेज एन्ड माईनिंग एलएलपी
16	AAC-5606	मालवधाकड फूड प्रोडक्ट्स एलएलपी
17	AAF-5236	यूनिफोल्ड रिटेल एलएलपी
18	AAF-7839	आपका ट्रैक लॉजिस्टिक एलएलपी
19	AAD-1380	व्यापार मित्र इन्क्यूबेशन एलएलपी
20	AAE-4939	फोरसेज रियल एस्टेट डेवलपर्स इंडिया एलएलपी
21	AAC-8646	फ्रेंड्स यूनिटी स्केनिंग सेन्टर एलएलपी

खान मंत्रालय
(भारतीय खान ब्यूरो)
नागपुर, 27 फरवरी, 2018

संख्या ए: 19011/670/2016—स्था.ए.—राष्ट्रपति, संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर श्री विनूद एस, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर में दिनांक 29.01.2018 (पूर्वाह्न) से सहायक अयस्क प्रसाधन अधिकारी के पद पर नियुक्ती की जाती है।

संजय कुमार सिंह
प्रशासनिक अधिकारी
कृते महानियंत्रक भारतीय खान ब्यूरो

नागपुर, 22 मार्च, 2018

सं. टी-43010/सी.जी.बी.एम./2017.—खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2017 के नियम 3(1) (ग) के अंतर्गत मुझे प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मैं एतद्-द्वारा, भारतीय खान ब्यूरो के मुख्य खनन भूवैज्ञानिक को खनिज संरक्षण और विकास नियमावली, 2017 के नियम 35(2) के संबंध में कार्य करने और कार्रवाई करने के लिए "प्राधिकृत अधिकारी" के रूप में प्राधिकृत करता हूँ। यह प्राधिकरण 31 मई, 2017 को भारत के राजपत्र, भाग III खंड 1 में प्रकाशित अधिसूचना संख्या टी 43010/सीजीबीएम/2014 दिनांक 11 मई, 2017 के अतिरिक्त है।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

रंजन सहाय
महानियंत्रक महोदय भारतीय खान ब्यूरो

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
(कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग)
(विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय)
फरीदाबाद, 16 मार्च, 2018

संख्या ए-19024/2/2011—प्रशासन—I.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर श्री आर.सी. मांजी, मुख्य रसायनज्ञ, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, क्षेत्रीय एगमार्क प्रयोगशाला, मुम्बई दिनांक 28 फरवरी, 2018 (अपराहन) से सरकारी सेवा से रिटायर हो गए हैं।

उरवशी कुमार
अवर सचिव

कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय
(कार्यालय कंपनी रजिस्ट्रार गोवा, दमन एवं दीव)
प्रारूप संख्या एसटीके-7
नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. मगनलाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U 13209 GA 1970 PTC 000099 के मामले में।

गोवा, 8 जनवरी, 2018

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006024/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी46955332 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. मगनलाल मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. रिजॉर्ट मरीना डोउराडा प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U55204 GA2013 PTC 007214 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006038/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी 46959128 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. रिजॉर्ट मरीना डोउराडा प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. प्रिमो बॉम हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U 55101 GA 2013 PTC 007254 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006037/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी 46959383 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. प्रिमो बॉम हॉलिडेज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. वेडर्स एयरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U74210GA2012PTC007007 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006047/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी56789001 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. वेडर्स एयरो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. तारा टूरिजम एण्ड होटल्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U55101GA2005PTC003977 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006035/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी40779456 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. तारा टूरिजम एण्ड होटल्स (गोवा) प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. रॉयल रानी हॉस्पिटेलिटी एण्ड रिजार्टस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U55101GA2010PTC006272 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006036/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी40781072 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. रॉयल रानी हॉस्पिटेलिटी एण्ड रिजार्टस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. राणा मैडिटेशन एण्ड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U93000GA2012PTC006969 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006054/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी40825341 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. राणा मैडिटेशन एण्ड हॉलिडेज प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. पौरगोवा कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटेलिटी एण्ड टूरिज़म प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U45309GA2016PTC012891 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006034/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी41194580 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. पौरगोवा कंस्ट्रक्शन हॉस्पिटेलिटी एण्ड टूरिज़म प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. आईआईवीएस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U93090GA2016PTC012958 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006056/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी41194580 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. आईआईवीएस लाइफस्टाइल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. शेड नेट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U25202DD2015PTC004766 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006026/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी41074428 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. शेड नेट इंडस्ट्रीज़ प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. ब्रैंटफील्ड टैवल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U63040GA2004PTC003748 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006042/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी57205833 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. ब्रेंटफील्ड ट्रेवल्स कंपनी प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U92412GA2009PTC006168 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006053/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी41654146 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. लाइफस्टाइल स्पोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. पैटश्के एण्ड शारफेनबर्गर प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U74300GA2013PTC007281 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006048/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी43610203 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. पैटश्के एण्ड शारफेनबर्गर प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. इंदिराबाई सदाशिव काउंटो मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U85110GA2008PTC005700 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006052/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी41900879 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. इंदिराबाई सदाशिव काउंटो मेमोरियल हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. कोसुल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U63040GA2003PTC003233 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006041/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी42100156 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. कोसुल ट्रैवल्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर
कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. फिल्लीप रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U55209GA2008PTC005894 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006039/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी42177626 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. फिल्लीप रेस्टोरेंट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. कॉन्कोर्ड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U74999GA1997PTC002427 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006049/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी47518006 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. कॉन्कोर्ड प्रमोशंस प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. सैफ नौटिका प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U28910GA2015PTC007626 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006028/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी54600945 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. सैफ नौटिका प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. प्रिंसिपल एनर्जीस् प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U40100GA2015PTC007771 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006032/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी44914299 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. प्रिंसिपल एनर्जीस् प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. वॉशोमैट फैब्रिक क्लीनर्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U93000GA2013PTC007335 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006055/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी 44803948 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. वॉशोमैट फैब्रिक क्लीनर्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. गुप सिक्स हाइड्रोफास्ट प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U29120GA1994PTC001637 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006029/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी59503524 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. गुप सिक्स हाइड्रोफास्ट प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. कॉसमस ग्रेनाइट एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U26931DD1993PTC001315 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/006027/2017 दिनांक 07/11/2017 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 07/11/2017 एसआरएन जी45271020 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. कॉसमस ग्रेनाइट एण्ड एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन जनवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कंपनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के दूसरे परन्तुक के अनुसरण में]

सार्वजनिक सूचना सं. आरओसी/पैट/एसटीके-2/एस-248/1.-

पटना, 9 फरवरी, 2018

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के अधीन नीचे दिए गए ब्यौरों के अनुसार कंपनियों के नाम काटने या हटाने के संदर्भ में:

क्र. सं.	कम्पनी का नाम	CIN	SRN
1	राम देव रतन कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2011PTC017095	G53487393
2	कुणाल क्लिनिंग एण्ड सिक्यूरिटी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2013PTC020515	G57028953
3	संस्कार कलश इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2013PTC020843	G57608416
4	पेट्रोफस्ट इनर्जी टेक्नोलॉजी प्राईवेट लिमिटेड	U40109BR2013PTC019932	G57468027
5	ग्रीन एग्रोनोमिक फार्म (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	U01403BR2012PTC019143	G58972951
6	अर्थ एसएन्स एग्रो फार्म प्राईवेट लिमिटेड	U01120BR2011PTC016954	G55508998
7	पाटलिपुत्रा बिल्डकौन प्राईवेट लिमिटेड	U45400BR2011PTC016452	G50436724
8	अयूर्वा अर्जित मल्टीसर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U63040BR2009PTC014507	G52834447
9	शॉल्वेसी सौलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2014PTC022992	G52883261
10	बेसन्दर इनर्जी प्राईवेट लिमिटेड	U29253BR2012PTC018533	G52952306
11	स्कन्द एग्री पावर प्राईवेट लिमिटेड	U40108BR2010PTC015939	G52994365
12	इको ग्रीन इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	U26960BR2013PTC020020	G53041893
13	विजय मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51109BR1988PTC003235	G53062865
14	कौम्बीट सौफ्टवेयर प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2014PTC022994	G56686199
15	परम वेबीक प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2014PTC022054	G57119687
16	माँ अम्बिका आवास प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2008PTC013646	G60242336
17	आर्की एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2011PTC017068	G60361433
18	न्यूवेल मल्टीट्रेड प्राईवेट लिमिटेड	U52590BR2009PTC014585	G60085909
19	मेरीटोस एड्सर्व प्राईवेट लिमिटेड	U80903BR2012PTC019320	G61306064
20	मैक्सोकेम लाइफ साइंस प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2013PTC021739	G61669610
21	चाणक्या इंजिनयरिंग क्लासेज प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2015PTC023742	G48019624
22	कर्तव्य इन्फार्मेन्टल सौलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U37200BR2015PTC024586	G61362687
23	माँ सावित्री हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2014PTC023018	G63183719
24	आशियाना बिजनेस एसोशियेट प्राईवेट लिमिटेड	U00367BR1999PTC008959	G61971248
25	मैग-पी लोब्रोटीरज प्राईवेट लिमिटेड	U24230BR2004PTC010608	G61598942
26	रितु राज ड्रीम होम्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2012PTC018424	G69265734
27	नारायणी कुरियर एण्ड कारगो सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U93000BR2013PTC020131	G68669084
28	अकेम सेल्स एण्ड सर्विसेज (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2010PTC015860	G49349509
29	सनमैक्स निधी लिमिटेड	U65920BR2015PLC024445	G49218027
30	मगध वेयरहाउसिंग एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2012PTC019702	G49182843
31	शिक्षा इन्फो कैरियर सौलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U80221BR2012PTC018227	G48947212
32	निर्वाणा डाइन प्राईवेट लिमिटेड	U55101BR2011PTC017889	G48855449
33	सिम्पल शॉपिंग फुड्स प्रोसेसिंग प्राईवेट लिमिटेड	U15122BR2014PTC022619	G48638977
34	सिम्पल शॉपिंग प्राईवेट लिमिटेड	U52390BR2013PTC021253	G48638332
35	आईसा बायो फ्यूल्स प्राईवेट लिमिटेड	U37100BR2014PTC022812	G48594501
36	ऊर्मई स्टील क्राफ्ट प्राईवेट लिमिटेड	U28939BR2013PTC020510	G48141261
37	एनसोल इन्फोटेक प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2013PTC021123	G48002281
38	यूगांक स्टील्स प्राईवेट लिमिटेड	U27101BR2004PTC010747	G47704531
39	सर्वसवेरा निर्माण प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2014PTC021973	G47329636
40	श्रीजन ग्लोबल एग्रो प्राईवेट लिमिटेड	U15311BR2014PTC023165	G47145396
41	बाबा बासुकी नाथ इन्फ्रा बिल्डर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2010PTC015345	G47092853
42	कोलोमोरे टेक्नोलॉजीज प्राईवेट लिमिटेड	U72900BR2013PTC021169	G46884821
43	बेटर प्रीवेंट हेल्थ सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U85100BR2015PTC024400	G46844205
44	मां जगदम्बे इंजीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2010PTC016027	G46689154
45	इन्डस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स एण्ड मैनेजमेन्ट कंसल्टेंसी प्राईवेट लिमिटेड	U93000BR2012PTC018594	G46580189
46	मां विन्ध्यवासनी कोलोनाइजर प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2016PTC026043	G46575494
47	कुमार केयर एण्ड हेल्थ सेन्टर प्राईवेट लिमिटेड	U93000BR2014PTC021896	G46553962

48	काड सौफ्टरनज टेक्नोलौजी प्राईवेट लिमिटेड	U72900BR2013PTC020446	G46537767
49	राग कृष्णा ट्रेड्स प्राईवेट लिमिटेड	U51909BR2009PTC014279	G45937232
50	समृद्धी इन्टरप्राइजेज प्राईवेट लिमिटेड	U00357BR1992PTC004978	G45865755
51	लक्ष्मी फूड्स एण्ड एग्री प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2012PTC019121	G45703261
52	स्वास्तिक सप्लायर्स एण्ड मार्केटर्स प्राईवेट लिमिटेड	U60200BR2008PTC013760	G45671542
53	पी.पी.एम. रिलोकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2016PTC032300	G45484961
54	मैनोरिटी इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2014PTC022734	G45409604
55	सिमांचल डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2010PTC016137	G45291168
56	औडक्स फर्मासिटुक्लस प्राईवेट लिमिटेड	U24230BR2003PTC010139	G45271228
57	जिवीका विनियोग (इण्डिया) लिमिटेड	U00800BR1997PLC008014	G45258969
58	सूई जेनरिज मिडिया प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2010PTC016237	G45226263
59	रवीन्द्रा सैलजा एजुकेशन प्राईवेट लिमिटेड	U80904BR2014PTC022626	G44926640
60	श्री इगुरुकुल टूटोरियल प्राईवेट लिमिटेड	U80903BR2007PTC012795	G44910321
61	साइन सूट कंसल्टेन्ट प्राईवेट लिमिटेड	U80301BR2011PTC016497	G44902567
62	लक्ष्मी नर्सिंग होम प्राईवेट लिमिटेड	U85110BR1986PTC002488	G44788305
63	यूनिटेक एग्रीवेट प्राईवेट लिमिटेड	U15137BR2013PTC020471	G44743466
64	पाडीया मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड	U14200BR2011PTC017885	G44644482
65	एलिमेन्ट गेस्टलाइन रिसोर्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U55101BR2010PTC016110	G44594406
66	प्राइड ग्रेन एग्री मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2011PTC017015	G44312510
67	मां ताराचंडी ओवरसिज प्राईवेट लिमिटेड	U15400BR2013PTC021631	G44262095
68	टेकरिवाल पेन्ट्स एण्ड केमिकल्स प्राईवेट लिमिटेड	U24297BR2009PTC014688	G44209328
69	ऊद्यम विहार इन्डस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर कारपोरेशन लिमिटेड	U70102BR2012PLC018893	G44096196
70	जयश्री विश्वकर्मा इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2011PTC017153	G44043834
71	इमरजिंग डायनैमिक मेन्टेनन्स एण्ड इन्फ्रा सौलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2014PTC022630	G44043479
72	ऋद्धि डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2010PTC015193	G44040111
73	फ्यूचर फोरएवर मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U51909BR2013PTC019935	G43989722
74	रायल फ्रेन्ड्स कन्सल्टेशन एण्ड सप्लायर प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2010PTC015681	G43894591
75	इडिना इक्लुसिव सौलूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2011PTC017765	G43872357
76	वेलकम कन्सल्टेशन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2009PTC014530	G43855394
77	फेडीलि इन्फ्रा एसोसिएट प्राईवेट लिमिटेड	U70102BR2012PTC019604	G43664440
78	शिवराम जिओशापी सॉल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2015PTC023808	G43452929
79	नवजीवन क्लासेस् प्राईवेट लिमिटेड	U80903BR2016PTC026017	G43337393
80	लोटस ड्रीम कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2011PTC017290	G43280502
81	श्रृष्टि औनलाइन ग्रोथ मार्केटिंग प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2008PTC014122	G43162254
82	गंगाफ्रेश फूडटेक प्राईवेट लिमिटेड	U55209BR2016PTC032137	G43148576
83	जायसवाल हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U51397BR2007PTC012833	G43049881
84	कविराज रियलटी प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2011PTC017939	G42972562
85	एमबिएस इन्फोरमेटिक प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2009PTC014837	G42692285
86	एमबिसन पब्लिकेशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U22210BR2006PTC011895	G42494112
87	उपेन्द्र राय इन्टेलिजेन्स सिस्टीम सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U93000BR2014PTC022329	G42383497
88	चाली हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U24230BR2003PTC010086	G42303685
89	बुद्धा डेवलपर्स एण्ड कन्सल्टेशन प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2011PTC017252	G42186163
90	मेडनी सौफ्टेक प्राईवेट लिमिटेड	U80904BR2014PTC022971	G42169037
91	अर्थसिद्धी इन्फो कौम प्राईवेट लिमिटेड	U80904BR2014PTC021862	G42141275
92	श्री हरी रेसिडेन्स प्राईवेट लिमिटेड	U70102BR2012PTC019674	G42090621
93	मौर्या कम्प्यूटर एण्ड मोबाइल ट्रेनिंग इन्स्टीच्यूट प्राईवेट लिमिटेड	U93000BR2014PTC022472	G41835885
94	अस्तीर सौफ्टवेयर टेक्नोलौजी प्राईवेट लिमिटेड	U74140BR2010PTC015328	G41809427
95	इपैक्स कौम्पटसौफ्ट (इण्डिया) प्राईवेट लिमिटेड	U72100BR1991PTC004464	G41792110

96	टंडन इन्वेस्टमेन्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U65922BR1994PTC005725	G41598681
97	शिवा टेक्नोक्रेट प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2006PTC012359	G41293176
98	सपना कन्सट्रक्शन्स प्राईवेट लिमिटेड	U00500BR1998PTC008401	G41254244
99	बेलिज़ मौल एण्ड मल्टीप्लेक्स प्राईवेट लिमिटेड	U45209BR2006PTC012659	G41248204
100	आईटीकोर सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2007PTC012899	G41189101
101	विष्णुप्रिया एग्रोफुड्स प्राईवेट लिमिटेड	U15549BR2013PTC020856	G41035379
102	खतरवाल पौलीप्लास्ट प्राईवेट लिमिटेड	U25200BR2013PTC019923	G40896763
103	सूर्यविजन सेल्स प्राईवेट लिमिटेड	U74900BR2012PTC019628	G40826828
104	सोना एण्ड बसंत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2007PTC013166	G40793374
105	आवा सौफ्ट्वेयर प्राईवेट लिमिटेड	U72900BR2013PTC020895	G40746356
106	विंच इन्फ्राटेक एण्ड फार्मिंग प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2014PTC021975	G40731069
107	एएनआरलाइफ बिजनेस सौल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2015PTC023835	G50040658
108	देवकृपा रियलकौन एण्ड हौस्पिटलिटी प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2013PTC020069	G56089246
109	वास्तु विहार फाइनल टच प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2014PTC022116	G50463140
110	सुदामा औयल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U15141BR1984PTC001992	G50662915
111	उन्नति रियल मार्केटिंग बिजनेस प्राईवेट लिमिटेड	U52590BR2012PTC018787	G50836451
112	कुमार डेवलपर एण्ड कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U70109BR2013PTC020440	G51071421
113	कमलिया एग्रो इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड	U01403BR2014PTC023408	G51535946
114	एवन सिटी कन्सट्रक्शन एण्ड डेवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2015PTC025548	G51933992
115	स्काडा एग्रो बिजनेस एण्ड इन्डस्ट्रीज कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	U01111BR1993SGC005649	G52602356
116	स्काडा एग्रो फौरेस्ट्री कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड	U01110BR1994SGC005668	G52602729
117	स्ट्रेलिंग आईटी सौल्यूशन्स प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2014PTC021816	G71864524
118	श्रीम मेडीलाइफ प्राईवेट लिमिटेड	U52310BR2012PTC018023	G70999347
119	वायोमीक प्रोजेक्ट्स प्राईवेट लिमिटेड	U72900BR2012PTC019614	G70820451
120	आर्या प्रोफटीज प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR1998PTC008597	G70347125
121	ओमिग्लोबल हाईटेक सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2016PTC031757	G70104997
122	शोभा होम्स प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2013PTC020185	G69936409
123	एपीएस रिकवरी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U65921BR2013PTC021118	G69806545
124	कौटील्या भूमि निर्माण प्राईवेट लिमिटेड	U45200BR2014PTC022527	G64240583
125	राज एपेक्स कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45201BR2007PTC013016	G68104793
126	खेमका इन्फ्राटेक प्राईवेट लिमिटेड	U70200BR2013PTC019804	G69645125
127	माया इको इनोवेशन प्राईवेट लिमिटेड	U31100BR2016PTC025735	G72423585
128	थ्रिल फनाइन्स एण्ड इन्वेस्टमेन्ट लिमिटेड	U00800BR1996PLC007516	G70568498
129	मां विन्ध्यावासिनी हेल्थकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U24110BR2012PTC018910	G72471394
130	ड्रीमनेट ब्राडबैंड इण्डिया प्राईवेट लिमिटेड	U72300BR2015PTC025029	G72493240
131	अस्तर क्राफ्ट टेक प्राईवेट लिमिटेड	U52390BR2013PTC021443	G73045262
132	अपना घर कन्सट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड	U45201BR2013PTC020861	G73294449
133	नौकजया लाइफकेयर प्राईवेट लिमिटेड	U51397BR2011PTC017579	G73068744
134	रामगति पौलिमर्स प्राईवेट लिमिटेड	U25190BR2014PTC022657	G73255580
135	खुदेश्वर महादेव कोल्ड स्टोरेज प्राईवेट लिमिटेड	U01400BR2016PTC026029	G74087297
136	बुगली कन्सल्टेन्सी सर्विसेज प्राईवेट लिमिटेड	U74999BR2016PTC026071	G74505595

यह सूचना दी जाती है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार के पास उक्त कंपनियों से जो आवेदन प्राप्त हुए उनके नाम कंपनी रजिस्टर से हटाने/काटने के लिए यह विश्वास करने के लिए कोई युक्तियुक्त कारण है कि उन कंपनियों ने निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है या ठीक पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों की अवधि के लिए कोई कारोबार या प्रचालन नहीं कर रही हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कम्पनी की प्राप्ति प्राप्त करने के लिए ऐसी अवधि के भीतर कोई आवेदन नहीं किया है/ना ही कम्पनी की स्थिति निष्क्रिय होने की सूचना है। कम्पनी कारोबार करने की इच्छुक नहीं हैं और इसके लिए कंपनी ने रजिस्टर से नाम हटाने/काटने के लिए विनती की है।

(2) कंपनी रजिस्ट्रार ने उर्पयुक्त कम्पनियों का नाम कंपनी रजिस्टर से नाम काटने/हटाने के लिए प्रस्ताव दिया है।

- (3) कोई व्यक्ति नाम काटने/हटाने के प्रस्ताव का विरोध करता है तो इस सूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर उपरोक्त पते पर अपने विरोध को आवेदन के माध्यम से भेज सकता है।

हिमांशु शेखर
कम्पनी रजिस्ट्रार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. टस्वेल सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी), सीआईएन U17122 GA2008 OPC005776 के मामले में।

गोवा, 27 फरवरी, 2018

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/010217/2017 दिनांक 17/01/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 17/01/2018 एसआरएन जी71392013 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. टस्वेल सिल्क्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी) का नाम आज के दिन फरवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कम्पनी रजिस्ट्रार, बिहार

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 तथा मै. हार्दिका इलैक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड, सीआईएन U31904 GA2015PTCC 007703 के मामले में।

यह इस कार्यालय के नोटिस क्रमांक आरओसीगोवा/248(2)/010193/2017 दिनांक 17/01/2018 आवेदन (फार्म एसटीके 2) दिनांक 17/01/2018 एसआरएन जी69528354 तथा दिनांक निरंक को एसटीके 5 में जारी किए गए नोटिस के संबंध में है। एतद्वारा यह नोटिस प्रकाशित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में मै. हार्दिका इलैक्ट्रोमेक प्राइवेट लिमिटेड का नाम आज के दिन फरवरी में कंपनियों के रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कंपनी विघटित हो गई है।

वी.पी. काटकर

कम्पनी रजिस्ट्रार

कार्यालय ज्ञापन

लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम 2008 तथा निम्नलिखित एल.एल.पी. के मामले में

कोलकाता, 12 मार्च, 2018

संख्या क.र./प.व./एल.एल.पी.-75/2014.—उपरोक्त विषय पर भारत के राजपत्र में अधिसूचित हेतु एल.एल.पी. नियम, 2009 37(3) के साथ पठित लिमिटेड लाईबिलिटी पार्टनरशिप अधिनियम, 2008 की धारा 75 के अन्तर्गत निम्नलिखित 10 एल.एल.पी. के नाम आज के दिन से रजिस्टर से काट दिए गए हैं तथा वे एल.एल.पी. विघटित कर दी गई हैं।

क्र.सं.	एलएलपीआईएन	एलएलपी का नाम
1	AAC-3054	दोआर्स अर्थमूर्म्स एलएलपी
2	AAE-4348	हील अर्थ हेल्थ एलएलपी
3	AAF-6660	कैसर केमिकल एंड मिनरल्स एलएलपी
4	AAC-8786	प्रोइनगैगर सोल्युशन एलएलपी
5	AAH-7395	सीमांचल ट्रेडर्स एलएलपी
6	AAD-1819	सिद्धिमत ट्रेडिंग एलएलपी
7	AAE-0176	स्पैन चार्टलाइन एलएलपी
8	AAC-7528	तीनलोक अपार्टमेंट्स एलएलपी
9	AAE-9180	टूबिल्ड रीयलटर्स एलएलपी
10	AAF-6883	टरमिल टेक्नोलॉजीस एलएलपी

सौरभ गौतम, सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार

पश्चिम बंगाल

फार्म संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

[कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उप-धारा (2) और उप-धारा (4) और कम्पनी (कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

क्रमांक-आर.ओ.सी./जेपीआर/एसटीके-6/551.-

संदर्भ

कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 248(2) के तहत सारणी "क" में दी गयी कम्पनियों की सूची के नाम हटाने के मामले में।

जयपुर, 21 मार्च, 2018

- (1) इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को सारणी "क" में दी गयी कम्पनियों के नाम कम्पनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त हुआ है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारोबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।
- (2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से सारणी "क" में दी गयी कम्पनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।
- (3) यदि किस व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आक्षेप भेज सकता है।

यू.एस. पाटोले

कम्पनी रजिस्ट्रार-सह-शासकीय सभापक

सारणी-क

कंपनियों को धारा 248 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार से उनके नाम का मारा करने के लिए अनुरोध किया है की सूची (2) कंपनी अधिनियम की, 2013।

Sl.no	CIN	कंपनी का नाम
1	U27107RJ1979PTC001906	आरती स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
2	U72200RJ2009PTC028571	अभीसोफ्ट टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
3	U52190RJ2010PTC032051	अदा रिटेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
4	U45201RJ2012PTC041048	अडोरमेन्ट इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	U72200RJ2011PTC036404	एडवांस रिलायवल बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
6	U74140RJ2013PTC042017	एडविक कन्सलटेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
7	U74140RJ2012PTC039428	एजिस रिस्क सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
8	U72900RJ2013PTC042211	अरीजोन आईटी सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
9	U45201RJ2013PLC041494	एफोरडेवल डेवलपर्स (इंडिया) लिमिटेड
10	U74999RJ2016PTC056644	अहीक बिजनेस सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
11	U72900RJ2008PTC027759	ऐश्वर्य इन्फोसोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
12	U26943RJ2012PTC038776	अक्षय कन्ट्री सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
13	U14107RJ2011PTC035588	अक्षय एक्सपोलेटान प्राइवेट लिमिटेड
14	U85110RJ2011PTC036455	अक्षय लाईफ हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
15	U26943RJ2012PTC038777	अलाईन्स सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
16	U41000RJ2013PTC043458	अमरनाथ आरओ सिस्टम एण्ड एपलाईसेज प्राइवेट लिमिटेड
17	U85110RJ2009PTC028949	एमफोरा लाइफसाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
18	U72200RJ2015PTC047848	एननलीटिकल मेडीकल इनसाइट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
19	U17119RJ2011PTC034715	अनय टेक्सटाईल प्राइवेट लिमिटेड
20	U60230RJ2013PTC041351	अंकित कार्गो प्राइवेट लिमिटेड
21	U72900RJ2015PTC047082	अंश इन्फोनेट प्राइवेट लिमिटेड
22	U72900RJ2014PTC046773	अनूविंग इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
23	U52190RJ2003PTC018499	एपीएच एक्पो प्राइवेट लिमिटेड
24	U24241RJ1974PTC001558	अरूण साबुन उद्योग प्राइवेट लिमिटेड
25	U21023RJ2013PTC043479	आस्क प्राईम पैकिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
26	U52609RJ2016PTC056230	अस्पायरटेक इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड
27	U72900RJ2013PTC042284	असर्ट सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
28	U25209RJ2007PTC024415	अस्ट्रोन पोलीटेक (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
29	U74999RJ2016PTC056059	अवनीश विनायक मोर्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
30	U01122RJ2010PTC030953	बाजोरिया फार्म प्राइवेट लिमिटेड
31	U72900RJ2013PTC043906	बीग्लाईट इन्फोमिडिया प्राइवेट लिमिटेड
32	U50103RJ2006PTC022709	भंडारी दिग्गज एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
33	U50400RJ2005PTC020117	भंडारी पेट्रोलियम प्राइवेट लिमिटेड
34	U45201RJ2015PTC047607	भावरिया इन्फ्राकॉन प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
35	U72900RJ2014PTC045868	बीकेएस एसएपी कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
36	U52100RJ2013PTC042098	बीएलएनआर इंडिया रिटेल प्राइवेट लिमिटेड
37	U74900RJ2013PTC042994	ब्ल्यू स्टार कोर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
38	U51101RJ1982PTC002592	बाम्बे एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
39	U72900RJ2016PTC049274	केबिगो टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
40	U70101RJ2013PTC043417	केस्टल इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
41	U52190RJ2015PTC047493	केयरटीटयूट टेक रिटेल प्राइवेट लिमिटेड

42	U72900RJ2015PTC048276	चाक थात सॉल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
43	U72900RJ2013PTC042036	चारभुजा आउटसोर्सिंग और सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
44	U55101RJ2007PTC023857	चिलगाडी होटल और रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
45	U74999RJ2017PTC058324	चौथ माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड
46	U51397RJ2014PTC045550	क्रोकसले ओवरसीज प्रा0 लिमिटेड
47	U72900RJ2014PTC045788	कुबेसन कन्सल्टिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
48	U45201RJ2011PTC035887	क्यूब इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
49	U70101RJ2015PTC048367	कस्टमर फोरच्यून रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
50	U72200RJ2000PLC016247	डाटानेट सॉफ्टवेयर लिमिटेड
51	U72200RJ2014PTC045762	एवर्थ सॉल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
52	U24100RJ2014PTC044996	धनोरिया प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
53	U72900RJ2012PTC037821	डिजिटल सॉफ्ट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड
54	U45201RJ2014PTC045065	डाउन टाउन बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
55	U45201RJ2015PTC047892	डीएसआरसी कन्सल्टन्स प्राइवेट लिमिटेड
56	U51101RJ1981PTC002187	छुआर एन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
57	U45201RJ2013PTC041275	द्वारिका बिल्डहोम प्राइवेट लिमिटेड
58	U80302RJ2013PTC043587	एज्यूकेटर इन्सीट्यूट प्राइवेट लिमिटेड
59	U74999RJ2016PTC056348	इलेमेन्टीक्स कूपन प्राइवेट लिमिटेड
60	U85110RJ2012PTC040158	इलाइटोओबजेक्ट हेल्थकेयर टेक्नोलॉजिज प्राइवेट लिमिटेड
61	U52190RJ2014PTC045889	एलोकेट अप कॉमर्स प्राइवेट लिमिटेड
62	U45201RJ2013PTC043027	एमरलड कोलोनाईजर्स डबलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
63	U40107RJ2015PLC047553	एनेकौन सोलर पावर लिमिटेड
64	U41000RJ2011PTC037032	एनके वाटर एण्ड ऐनर्जी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
65	U72900RJ2014PTC045339	एक्प्रटर्स ब्रेन ईफो सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
66	U55101RJ2014PTC045566	फलोरेट प्राईम ईन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
67	U93000RJ2016PTC055026	फूड धमाका प्राइवेट लिमिटेड
68	U55101RJ2005PTC020893	फोर्थ एवेन्यू हॉटलस प्राइवेट लिमिटेड
69	U74920RJ2015PTC048951	गारबल पलेस्मेन्ट एण्ड ट्रेनिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
70	U70101RJ2013PTC043774	गीगराज कंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
71	U40104RJ2016PTC049309	गिरीराज लक्ष्मी इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
72	U72900RJ2015PTC048501	ग्लोबलदार्प माईडस प्राइवेट लिमिटेड
73	U18101RJ2013PTC041666	ग्लोबलटेक्स एपिरियल्स प्राइवेट लिमिटेड
74	U15139RJ2013PTC043801	गोकूलवालास फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
75	U55101RJ2012PTC038060	गोल्डन व्यू रिसॉर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
76	U45201RJ2013PTC041262	गोविंद कृपा बिल्डस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
77	U45201RJ2014PTC045869	ग्रेण्ड मारवाड़ टेक्सटाईल प्राइवेट लिमिटेड
78	U24232RJ2010PTC030946	ग्रीन ऐरो मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
79	U72200RJ2003PTC018824	ग्रीनवीच इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
80	U74930RJ2011PTC035255	हरबिन्दर फेसिलिटी मेनेजमेन्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
81	U52190RJ2006PTC023524	हरेकृष्णा इम्पेक्स प्राइवेट लिमिटेड
82	U51109RJ2010PTC031532	हरियाली मर्केटाइल प्राइवेट लिमिटेड
83	U55101RJ2011PTC036457	हेरिटेज अर्थ होटल एण्ड रिसॉर्ट प्राइवेट लिमिटेड
84	U72300RJ1997PTC013648	हिरन इन्फोरमेडान टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड
85	U18101RJ2013PTC041442	एच एन बी एशिया एपिरियल्स प्राइवेट लिमिटेड

86	U55101RJ2012PTC038884	होटल एण्ड होम्स प्राइवेट लिमिटेड
87	U67120RJ2013PTC041651	एचएसटी कन्सलटेन्सी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
88	U74300RJ2012PTC040276	आईडियल इन्फोरमेडान प्राइवेट लिमिटेड
89	U55101RJ2005PTC020134	आईडेक्स (कल्चरल ट्रेवल्स) प्राइवेट लिमिटेड
90	U80302RJ2014PTC044950	आईलव रोबो टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
91	U74140RJ2011PTC036746	इन्डूज इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स सर्टिफिकेट्स एजेन्सी प्राइवेट लिमिटेड
92	U45201RJ2004PTC019646	इनोवेटिव बिल्डकोन प्राइवेट लिमिटेड
93	U74900RJ2015PTC048199	इन्टेरियो स्ट्रीट प्राइवेट लिमिटेड
94	U72900RJ2014PTC045250	इन्वर्ट एक्सपर्ट टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
95	U74140RJ2013PTC043035	इन्वेस्टोग्रेट्स ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड
96	U72200RJ2016PTC055498	इयोटीफाई टेक्नोलोजि प्राइवेट लिमिटेड
97	U14200RJ2013PTC042816	इश्कृपा क्वालिटी प्राइवेट लिमिटेड
98	U51101RJ1991PTC005841	जयपुर सेल्स प्राइवेट लिमिटेड
99	U70101RJ2014PTC045337	जालान सेल्स (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
100	U01122RJ2012PTC038110	जमना एग्रोचेम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
101	U70101RJ2013PTC044167	कैशा लेण्डबेस प्राइवेट लिमिटेड
102	U45201RJ2010PTC032817	करनी महिमा प्रोपर्टी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
103	U52190RJ2006PTC023029	केशव एक्जिम प्राइवेट लिमिटेड
104	U74999RJ2016PTC055006	किचू डिजाइन हाउस प्राइवेट लिमिटेड
105	U70101RJ2011PTC034072	किरण कृपा रियलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
106	U14107RJ2011PTC035678	किरण नेचुरल रिसोर्टसेस प्राइवेट लिमिटेड
107	U01100RJ2016PTC056473	किसान 2 किसान प्राइवेट लिमिटेड
108	U29248RJ2011PTC036027	कृष्णा कटिंग मशीनरी टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
109	U74900RJ2014PTC046080	कुमुदनी ग्लोबल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
110	U74999RJ2016PTC055378	लाईफकेयर रिटेल एण्ड हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड
111	U70101RJ2013PTC042961	लाईफ लाईन इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
112	U91110RJ2002PLC017729	एलएनजे भीलवाड़ा टेक्सटाईल अनुसन्धान विकास केन्द्र लिमिटेड
113	U72200RJ2013PTC041239	एल.पी. सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
114	U45201RJ2007PTC024153	मादुर्गा बिल्डमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
115	U36111RJ1997PTC014109	माधो बिहारी ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड
116	U55101RJ2013PTC043632	मधुवन स्काईलेण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
117	U74140RJ2016OPC049040	महाभारत एडवाइजरी एण्ड रिसर्च प्राइवेट लिमिटेड (ओपीटी)
118	U15400RJ2010PTC032198	महागणपति फ्लोर मिल्स प्राइवेट लिमिटेड
119	U67120RJ2011PTC034397	महालक्ष्मी वेल्थ कन्सलटेन्स प्राइवेट लिमिटेड
120	U14107RJ2011PTC035599	मेन अर्थ मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
121	U74900RJ2016PTC049083	मैन फाईडे सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
122	U72900RJ2014PTC044843	मेनेजमेटीक्स कन्सलटिंग प्राइवेट लिमिटेड
123	U70101RJ2013PTC041665	मातेश्वरी अनुकम्पा कॉलोनाईजर्स प्राइवेट लिमिटेड
124	U85110RJ2011PTC035840	मैक्स संजीवनी हॉस्पिटल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
125	U01122RJ2011PTC035081	मैक्सजेन बायोसाइन्स प्राइवेट लिमिटेड
126	U72900RJ2015PTC048437	मेडियक्सर प्रौद्योगिकियों प्राइवेट लिमिटेड
127	U45201RJ2004PTC018973	मेडकट फ्यूचरिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड
128	U24304RJ1993PTC007616	मिचल सिंथेटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
129	U64202RJ2009PTC030456	मोबिटेल् टेलीलिंग प्राइवेट लिमिटेड

130	U14101RJ2007PTC025194	मुन्दरा ग्रेनीमारमो प्राइवेट लिमिटेड
131	U74994RJ2005PTC021484	नमन इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
132	U26940RJ2011PLC036931	नवलगाढ़ सीमेंट कंपनी लिमिटेड
133	U63040RJ2015PTC047462	नीमच माता रोपवे प्राइवेट लिमिटेड
134	U36100RJ2013PTC044254	नीमराना इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
135	U51909RJ2012PTC038621	नेफरटरी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
136	U72900RJ2012PTC040516	नियोरेक्स टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
137	U72900RJ2013PTC042242	न्यूएज ई सॉल्यूसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
138	U15139RJ2012PTC040495	न्यू सुप्रीम क्वालिटी फुल प्रोडक्स प्राइवेट लिमिटेड
139	U70101RJ2012PTC039927	एनएच इन्फ्रा प्रोपर्टी सोल्यूसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
140	U72900RJ2016PTC049084	नीम्बल स्ट्रेटेजीज प्राइवेट लिमिटेड
141	U14200RJ2014PTC045688	नूतन माईन्स एण्ड मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड
142	U74900RJ2013PTC043642	ओम हरि हर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
143	U45201RJ2014PTC045216	ओम केडी बिल्डमेट प्राइवेट लिमिटेड
144	U72900RJ2013PTC041470	ओमनीजेन्ट सोल्यूसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
145	U70100RJ2011PLC036032	ओमसाईकृपा इन्फ्राबिजन लिमिटेड
146	U51219RJ2011PTC036080	ओप्टीमस सोसियस एक्विजिज प्राइवेट लिमिटेड
147	U72900RJ2014PTC046204	ओडनाडोर कम्प्यूनिक्शन प्राइवेट लिमिटेड
148	U22219RJ2008PTC026611	आउटडोर नेशनल एडवर्टाईजिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
149	U74999RJ2016PTC055728	आउटकार्ट टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
150	U67200RJ2008PTC025889	पनासिया असाइनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
151	U45201RJ2012PTC040863	पन्ना ड्रिम्स बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
152	U45201RJ2013PTC042548	प्लेनस बिजनेस ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड
153	U31103RJ2015PTC047209	पावर बाजार ऑनलाइन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
154	U31909RJ2015PTC047282	प्रभु धारा एप्लाइसेज प्राइवेट लिमिटेड
155	U29220RJ2012PTC041144	प्रेरणाश्री एन्जीटूल्स प्राइवेट लिमिटेड
156	U01122RJ2011PTC037009	प्राईम फ्लोवर एनफर्नर्स प्राइवेट लिमिटेड
157	U17290RJ2014PTC046443	प्राईम सितारा एजेंसियों प्राइवेट लिमिटेड
158	U36911RJ2010PTC032264	प्राइमस ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड
159	U25209RJ2013PTC041862	पुण्य पोलिप्लास्ट प्राइवेट लिमिटेड
160	U74300RJ2011PTC036212	क्वालवेव सॉल्यूसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
161	U27101RJ1990PTC005597	आर फाउंड्री वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
162	U14102RJ2013PTC043651	राधे कृपा ग्रेनाइट प्राइवेट लिमिटेड
163	U92190RJ2012PTC039102	राजपुताना 3डी डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
164	U27109RJ2008PTC026754	राजश्री फोर्जिंग प्राइवेट लिमिटेड
165	U52190RJ2006PTC022509	राजसूर्या मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
166	U45201RJ2013PTC041281	राम कृपा बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
167	U40101RJ2012PTC038587	रिगल जेन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
168	U63040RJ2009PTC028623	रिलेक्स होलीडेज प्राइवेट लिमिटेड
169	U72900RJ2012PTC038571	रिचमीडिया वेब सोल्यूसेन्स प्राइवेट लिमिटेड
170	U45201RJ2014PTC046629	ऋद्धि सिद्धि कृपा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
171	U15209RJ2012PTC041165	रिषभ मिल्ल्स प्रोड्यूसर्स कंपनी लिमिटेड
172	U70101RJ2011PTC034063	ऋषि कृपा रियलमार्ट प्राइवेट लिमिटेड
173	U14200RJ2013PTC042428	राईजिंग मिनचेम्स प्राइवेट लिमिटेड

174	U45201RJ1999PTC015504	रितु मेघ बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
175	U74999RJ2016PTC055583	आरजेवी एण्ड एसोसिएट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
176	U36911RJ2012PTC040336	रॉक कट डाई टूल्स प्राइवेट लिमिटेड
177	U70101RJ2013PTC041604	रूप रजत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
178	U01400RJ1994PTC008267	रोजवे डेयरी रेला प्राइवेट लिमिटेड
179	U55101RJ2012PTC041101	रोज विला रिसोर्ट एण्ड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
180	U26943RJ2012PTC038798	रॉयल वन सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
181	U55100RJ2012PTC038785	रोयल पाम ग्रीन रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
182	U45201RJ2010PTC032270	रुद्राक्ष रियलहोम प्राइवेट लिमिटेड
183	U14299RJ2016PTC056024	एसण्बीण मार्निंग केमेस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड
184	U26940RJ2011PTC035167	सफारी सीमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
185	U52190RJ2013PTC043548	साईबाबा ट्रेडविजन प्राइवेट लिमिटेड
186	U55101RJ2015PTC047051	सालासर नेचर एण्ड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
187	U32204RJ2015PTC047007	सालासर टेलीकम्यूनिकेडान प्राइवेट लिमिटेड
188	U01122RJ2011PTC036175	समभाव ग्रीन एग्रो पार्क प्राइवेट लिमिटेड
189	U45209RJ2011PLC036534	समभाव मेगा इण्डस्ट्रीयल पार्क लिमिटेड
190	U55101RJ2012PTC038787	समभाव रॉयल सूट प्राइवेट लिमिटेड
191	U70101RJ2011PTC036464	समभाव यूनिक रियलएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
192	U55101RJ2010PTC032470	संचेती पैलेस होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
193	U14200RJ2012PTC038412	संजोग मार्इन्स एण्ड स्टील प्राइवेट लिमिटेड
194	U45201RJ2012PTC037534	सर्गिफ बिल्डप्रो डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
195	U74999RJ2017PTC057424	सरचियो प्राइवेट लिमिटेड
196	U27107RJ2007PTC024744	सिक्कूर स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड
197	U01119RJ2016PLC055904	सियोरा एडवेंटेज लिमिटेड
198	U70101RJ1994PTC008297	शाही ब्रोडर्स प्राइवेट लिमिटेड
199	U45201RJ2014PTC045813	शांति एसोसिएट्स इन्फ्रा सोल्यूसन्स प्राइवेट लिमिटेड
200	U45201RJ2013PTC041997	शरण बिल्डएस्टेट प्राइवेट लिमिटेड
201	U14107RJ2011PTC035666	शार्दूल मार्निंग एण्ड एक्पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
202	U74900RJ2013PTC043679	शाइन प्रो.सेल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
203	U14107RJ2011PTC035689	शीतल नेचुरल रिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
204	U70101RJ2011PTC034382	श्री बालाजी एस्टेट्स मैनेजमेन्ट कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
205	U45201RJ2006PTC023137	श्री राम होम मेकर प्राइवेट लिमिटेड
206	U70101RJ2013PTC042978	श्री रिद्धी सिद्धी अस्काई बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
207	U25209RJ2012PTC038936	श्री श्याम कन्वर्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
208	U36111RJ1997PTC013987	श्रेयांस जेम्स प्राइवेट लिमिटेड
209	U17119RJ2008PTC027029	श्रेयांस टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड
210	U72200RJ2010PTC030981	सिदाना इन्फो सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
211	U72900RJ2015PTC048672	सिफटर लेब्स प्राइवेट लिमिटेड
212	U72900RJ2015PTC048321	सिलिरो साफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड
213	U45209RJ2011PTC034876	सिलोरा टेक्सटाईल क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड
214	U55101RJ2016PTC049119	समार्ट ब्रिक हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
215	U24117RJ1995PLC010150	स्नेहराज पेट्रो केम लिमिटेड
216	U25200RJ2009PTC028287	सोनागिरी पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
217	U67120RJ2013PTC044312	एसटी वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड

218	U50300RJ2006PTC022693	स्टार आटोलॉग प्राइवेट लिमिटेड
219	U45201RJ2016PTC054756	स्टीलर हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड
220	U72200RJ2003PTC018067	इस्टोनेक्स इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड
221	U92100RJ2013PTC044136	स्टूडिया7 इन्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
222	U27109RJ2011PTC034771	सुपर शक्ति स्टील प्राइवेट लिमिटेड
223	U85195RJ2010PTC032594	सूर्या नगरी लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड
224	U18101RJ2008PTC027863	सुसुर क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड
225	U14107RJ2011PTC035671	सुविधी स्टोन वर्क प्राइवेट लिमिटेड
226	U74140RJ2014OPC046543	स्वस्तिक जियो टेक (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
227	U52190RJ2009PTC029061	टास्क केयर इंडिया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
228	U40106RJ2015PTC048166	टेक्नाटोम पावर एण्ड हॉस्पीमेड एक्वारमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
229	U14107RJ2011PTC035604	तेजस अर्थ मिरल्स प्राइवेट लिमिटेड
230	U33110RJ2015PTC048822	तेजकरण मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
231	U14219RJ2007PTC023779	तेरानोवा मार्निंग प्राइवेट लिमिटेड
232	U17290RJ2011PTC036713	तेसुटो वेव प्राइवेट लिमिटेड
233	U80302RJ2013PTC042128	टी जेनेसिस टेक्नोसेवी प्राइवेट लिमिटेड
234	U36911RJ2013PTC042020	तिलक धरी ज्वेलर्स प्राइवेट लिमिटेड
235	U74900RJ2015PTC048022	ट्रिपल आई वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड
236	U80302RJ2010PTC032955	टूटोरपुण्डित एजुकेशन सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
237	U80302RJ2011PTC036456	उदयपुर लेक स्कूल प्राइवेट लिमिटेड
238	U70101RJ2015PTC047907	यूनीटेड सिटी डेवलपर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
239	U14106RJ2008PTC027361	यूनीजिप प्लास्टर बोर्ड प्रा0 लिमिटेड
240	U74900RJ2014PTC045728	उपसर्ज टेक्नोलोजिज प्राइवेट लिमिटेड
241	U52190RJ2013PTC042639	वन्दीया मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
242	U32309RJ2014PTC045949	विपिन मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड
243	U72900RJ2012PTC038680	वीटेक टेड प्राइवेट लिमिटेड
244	U72900RJ2011PTC037050	वेवस्ट्रोक टेक्नोलॉजीज (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
245	U70101RJ2015PTC048652	वेलकम टाउनशिप डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
246	U52190RJ2010PTC030729	विलविन्स मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
247	U45201RJ2012PTC040578	यद्गीका ग्रीन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड

प्रारूप संख्या एसटीके-7

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 9 के अनुसरण में]

पुणे, 22 मार्च, 2018

संदर्भ कंपनी अधिनियम, 2013 और निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 248 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि निम्नलिखित कंपनियों के नाम आज रजिस्टर से हटा दिये गये हैं और उक्त कंपनियों का विघटन हो गया है।

क्र.सं.	सीआयएन	कम्पनी का नाम	एसआरएन
1	U01122PN2013PTC149625	तपस्चर्या एग्रो फार्म्स क प्राइवेट लिमिटेड	G68648674
2	U15122PN2015PTC157230	सिल्वर आइस बेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड	G69010932

3	U2211PN1998PTCO13107	इंडकॉम एसोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड	G46544797
4	U24232MH1979PTC021515	अल्ट्रा पुरे इन्फोसिऑस प्राइवेट लिमिटेड	G70792445
5	U24236PN2010PTC135755	स्टेरिटेक बीऑस्किएन्केस प्राइवेट लिमिटेड	G68843416
6	U26939PN2013PTC146654	आर्य क्रिस्टल प्राइवेट लिमिटेड	G68074939
7	U29253PN2011PTC141474	प्रोलिनी मशीन्स प्राइवेट लिमिटेड	G69997831
8	U29299PN2011PTC139676	वैष्णो देवी इन्फ्रा इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G46832184
9	U29309PN2016PTC167259	आकर एलेक्ट्रोमेच डेविसेस प्राइवेट लिमिटेड	G68278308
10	U31401PN2007PTC169572	कूपर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G63742597
11	U31402PN2014PTC153078	सुपरनोवा बैटरीज प्राइवेट लिमिटेड	G60604204
12	U31909MH1984PTC033203	स्पिन इंस्ट्रुमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G60522638
13	U41000PN2008PTC132175	वेक्स ग्लोबल वाटर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड	G60108560
14	U45200PN2011PLC138848	मओरी प्रो-इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	G61257580
15	U45200PN2011PTC141733	मष्कार इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड	G52221280
16	U45200PN2013PLC146207	एसआरएम इन्फ्लैडमार्क्स प्राइवेट लिमिटेड	G63018998
17	U45200PN2013PLC147504	निश्चय कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	G60473873
18	U45209PN2005PTC021613	बिल्डमैन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G513713667
19	U45400PN2014PTC150005	राजविमल डेवेलपर्स प्राइवेट लिमिटेड	G60610862
20	U45400PN2014PTC150006	राजविश्वा कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड	G60612017
21	U45400PN2015FTC156494	पी एस काकडे कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड	G60781176
22	U51909PN2002PTC129517	माइंडट्री मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड	G61195533
23	U51909PN2014PTC152599	हराबाजार फूड्स प्राइवेट लिमिटेड	G60105483
24	U52599PN2011PTC141558	आरएमडब्ल्यू इंजिनीर्स प्राइवेट लिमिटेड	G44165975
25	U6010PN2016OPC165295	ट्रकटेक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेस (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	G60069093
26	U719PN2008PTC132139	रिद्धि फाइनेंसियल कंसल्टेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	G62644232
27	U70102PN2016PTC157926	अडवेंटस रियल्टी प्राइवेट लिमिटेड	G45988946
28	U70109PN2015PTC156231	डिवीने स्फीयर बिजनेस सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G59766949
29	U72200PN2008PTC131937	काया सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	G70270210
30	U72200PN2008PTC132291	सुमेरु इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड	G46783338
31	U72200PN2013PTC148996	सहयाद्रि ग्लोबल सर्विसेस सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	G61154308
32	U72200PN2016PTC166075	अप्प्रेसिअट आइटी एंड टेक्नोलॉजी एडुकेशन प्राइवेट लिमिटेड	G64078124
33	U72300PN2015PTC156817	मौन्टिनोवटे टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G65465346
34	U72900PN2010PTC137814	कुपरटेक सिस्टम्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G62416318
35	U72900PN2013PTC149754	विगौरसॉफ्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड	G59730887
36	U72900PN2015PTC156870	3 डायमेंशनल स्कैनिंग टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G61056032
37	U72900PN2015PTC157555	लेर्नेसूस् टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड	G56971583
38	U72900PN2016PTC158303	लिकने सॉफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड	G68750083
39	U72900PN2016PTC158551	वेबोनिसे पैसिफिक आईटी सोल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड	G59705111
40	U7421PN2006PTC128978	निफिन मॅच-टेक प्राइवेट लिमिटेड	G56773088
41	U74900PN2011PTC141735	मॅक्सकेअर मीडिया एण्ड एंटरनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G52223278
42	U74900PN2012PTC142845	मॅक्सकेअर ऑनार्मेंट्स प्राइवेट लिमिटेड	G52225869
43	U74900PN2013PTC148664	प्रथमेश क्वालिटी मशीनिंग प्राइवेट लिमिटेड	G60579042
44	U74900PN2013PTC149878	चैटऑन ट्रांसल प्राइवेट लिमिटेड	G68835875
45	U74900PN2014PTC150149	करेब्रो हैल्थकारे प्राइवेट लिमिटेड	G59522219
46	U74900PN2014PTC153527	तुसक्स फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड	G59788091
47	U74900PN2014PTC150149	सकयकनेक्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)	G60741378
48	U74900PN2015PTC155474	स्वयंभू लाइफकेयर प्राइवेट लिमिटेड	G70629449

49	U74900PN2015PTC155733	वेलवेट एंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड	G62103916
50	U74990PN2009FTC1535213	लॉयानगेट कैपिटल मैनेजमेंट (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड	G63283485
51	U749920PN2008PTC131337	श्री-वर्धन कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड	G54156476
52	U74997PN2016OPC166974	मिरुदन सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड	G62104237
53	U74999PN2008PTC132961	ग्लोबल बिजनेस ऑप्युनिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G68935386
54	U74999PN2013PTC149137	ट्रांजीशन एजुकेशन हब प्राइवेट लिमिटेड	G69045045
55	U74999PN2014PTC152564	नेसेज ग्राफिक्स प्राइवेट लिमिटेड	G63637029
56	U74999PN2016FTC165404	पफेनेक्स इंडिया डेवेलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G70199278
57	U74999PN2016PTC158081	बिगरीबोन टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G51869543
58	U74999PN2016PTC164300	विद्योतयाती इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	G67706556
59	U74999PN2016PTC164742	डिजिटिआली इनसाइट्स प्राइवेट लिमिटेड	G56973845
60	U74999PN2016PTC165101	आमीन एडवाइजरी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G61923066
61	U74999PN2016PTC165122	व्हिटेडेलोगिक टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड	G57383036
62	U74999PN2016PTC165746	इन्टेलियर्स प्राइवेट लिमिटेड	G51971505
63	U80301PN2012PTC144400	एडविस्टा लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड	G51720100
64	U85100PN2011PTC139802	चौधरी हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड	G65626731
65	U85100PN2014PTC152976	हर्ष एण्ड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड	G68969013
66	U92412PN2014PTC150628	विशनबीट्स एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड	G61133104
67	U93090PN2017PTC167820	अडभंगनाथ ग्लोबल मल्टी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड	G61212700
68	U99999PN1996PTC097938	संदीश सेल्स प्राइवेट लिमिटेड	G70246947

पी.एस. खाडे

सहायक कंपनी रजिस्ट्रार पूर्ण

सं0एलसी / 248(1) /

संदर्भ:

निम्न विवरण अनुसार कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(1) के अंतर्गत कम्पनी के नामों को हटा देने के मामले में।

कानपुर, 22 मार्च, 2018

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि कम्पनियों के रजिस्ट्रार को आवेदन प्राप्त हुआ है कि कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 248(2) के तहत वो कम्पनियां जिनके नाम की सूचीसंलग्न है उनकी कम्पनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर व्यापार शुरू करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कम्पनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारोबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कम्पनी ने निष्क्रिय कम्पनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कम्पनी के रूप में पंजीकरण को नहीं रखना चाहते और अतः कम्पनी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

तदनुसार कम्पनी रजिस्ट्रार, कम्पनी रजिस्टर से उपरोक्त उल्लिखित कम्पनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

यदि किसी व्यक्ति को कम्पनी रजिस्टर से कम्पनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से तीस दिन के भीतर उपरोक्त उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी अपत्ति भेज सकता है।

पुनीत कुमार दुग्गल
कम्पनी पंजीयक

क्रम सं०	सिन नं०	कंपनी नं०
1.	U24232UP2006PTC031452	एस आर के फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड

2.	U24231UP2001PTC026045	आड हबल्स प्राइवेट लिमिटेड
3.	U24121UP1981PTC005217	पीपुल्स केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड
4.	U24115UP1993PTC015441	अनल केम प्राइवेट लिमिटेड
5.	U24111UP2016PTC083820	यजत सिनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
6.	U23203UP2016PTC076269	माउण्ट आयल लुब्रीकैण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
7.	U23101UP2010PTC040239	यूएसजी पालीमिनेण्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
8.	U22222UP2016PTC076794	सुरुचि मीडिया रिसर्च एण्ड पब्लिसिटी प्राइवेट लिमिटेड
9.	U22222UP2015PTC073051	सोना चांदी प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
10.	U22222UP2013PTC058945	ग्लोबलोकन प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड
11.	U22219UP2016OPC087856	प्रबुद्ध मीडिया ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
12.	U22219UP1988PTC009782	नाग पाली पाउचर्स प्राइवेट लिमिटेड
13.	U21014UP1981PTC005188	टिकमनी पैकेजिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
14.	U21012UP1996PTC020559	कामायनी स्टेट्स प्राइवेट लिमिटेड
15.	U19115UP2014PTC065518	इनवेन्टेव फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
16.	U18204UP2014PTC065729	डकटेल्स मैनुफैक्चरर्स प्राइवेट लिमिटेड
17.	U17290UP2013PTC061401	ए एस एल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड
18.	U17210UP2007PTC033367	कामदगिरी फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड
19.	U17200UP2014PTC062114	बाराबंकी इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
20.	U15400UP2014PTC062647	एम्ब्रो स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
21.	U15319UP2016OPC084689	फूडफूड ई सर्विसेस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
22.	U15142UP1985PTC007529	प्रेमा आयल इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
23.	U15134UP1991PTC013663	फरुखाबाद कोल्ड स्टोरेज एण्ड एलाइड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
24.	U15133UP1990PTC011686	कमालगंज कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
25.	U15122UP2016PTC076014	स्फूर्ति एग्रो फूड्स एण्ड बीवरेज प्राइवेट लिमिटेड
26.	U15122UP2015PTC071269	ग्यान असइस एण्ड कोल्ड स्टोरेज प्राइवेट लिमिटेड
27.	U15122UP2015PTC070229	एप्लेक्स प्रोबायोटिक फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
28.	U15122UP2015PTC070096	महियास फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
29.	U15122UP2015PTC070085	यमतुम हास्विटेलिटी प्राइवेट लिमिटेड
30.	U15122UP2015PTC069794	एटप्योर स्पाइसेस प्राइवेट लिमिटेड
31.	U15122UP2015PTC069519	मधू मसाला प्राइवेट लिमिटेड
32.	U15122UP2014PTC067614	टू हैण्ड्स एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
33.	U15122UP2013PTC058966	आरोग्य फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
34.	U15122UP2013PTC057175	कशर्कान इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
35.	U15122UP2012PTC051146	फयूरिटीसीड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
36.	U13203UP2011PTC043557	मेगोकीम रिसोर्सेस प्राइवेट लिमिटेड
37.	U11100UP2015FTC070806	टुटकोवस्काई प्रोजेक्ट्स इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
38.	U01407UP2014PTC063629	हारर एग्रीफार्म प्राइवेट लिमिटेड
39.	U01403UP2013PLC056198	ओसिसअर्थ एगो एण्ड फूड इण्डिया लिमिटेड
40.	U01403UP2012PTC053454	अब्दुल एग्रीकल्चरिस्ट प्राइवेट लिमिटेड
41.	U45400UP2012PTC052087	पीएमजी कान्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
42.	U45400UP2012PTC051557	रोहित इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
43.	U45400UP2012PTC051526	निरमल रियलटेक प्राइवेट लिमिटेड
44.	U45400UP2012PTC051043	जै विद्या इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
45.	U45400UP2012PTC049657	ईडीआईएफआईसीई इन्फ्राडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
46.	U45400UP2012PLC053172	संगमधारा इन्फ्रास्टेट लिमिटेड
47.	U45400UP2012PLC048999	स्वर इण्डिया रीयल स्टेट्स लिमिटेड

48.	U45400UP2011PTC045835	एस. शान्ती इन्फ्राहोम्स प्राइवेट लिमिटेड
49.	U45400UP2011PTC043142	एस एफ एस इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
50.	U45400UP2008PTC035921	उर्जा रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
51.	U45309UP2017PTC091093	शिवाया स्ट्रक्चरल्स प्राइवेट लिमिटेड
52.	U45309UP2016PTC082937	टीपीजी होम्स प्राइवेट लिमिटेड
53.	U45309UP2016PTC082650	एम के लैण्डमार्क प्राइवेट लिमिटेड
54.	U45202UP2014PTC063340	एस आर एम डवैलिंग प्राइवेट लिमिटेड
55.	U45202UP1994PTC016595	जी जी बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
56.	U45201UP2014PTC062362	वामिका कान्सट्रक्शन्स प्राइवेट लिमिटेड
57.	U45201UP2005PTC029754	महेश निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
58.	U45200UP2007PTC032881	प्रेरना निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
59.	U45200UP2007PTC032846	एसएवी कान्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
60.	U33112UP1986PTC008126	लीलामणी मेमोरियल हास्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड
61.	U33110UP2014PTC062524	सेनसस मेडी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
62.	U32204UP2015PTC068281	एकान आरफिड प्राइवेट लिमिटेड
63.	U32109UP2011PTC044316	र्वे सेमीकन्डक्टर्स डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
64.	U31402UP2016FTC085505	फेन्गुईन एडवान्स बैटरी इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
65.	U31100UP2016PTC083213	इकोकेसट्रोनाक्स प्राइवेट लिमिटेड
66.	U30007UP1998PTC023463	अभिषेक इन्फोकाम प्राइवेट लिमिटेड
67.	U29302UP1987PTC009206	आई ए जी गैसेस प्राइवेट लिमिटेड
68.	U29253UP2015PTC070004	ए बी रोबोटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
69.	U29236UP1997PTC022404	श्री इण्डस्ट्रीज एण्ड इंजी. वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
70.	U27310UP2015PTC072141	एडोरेबिल मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
71.	U27310UP2015PTC072045	मेन्टर मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
72.	U27310UP2012PTC053990	न्यूजेन मेटल्स प्राइवेट लिमिटेड
73.	U27100UP2013PTC061229	माडरैनी पावर एण्ड पीटीसी पाइपिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
74.	U26956UP1985PTC006997	लखनउ सीमेन्ट काफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
75.	U25201UP1994PTC016527	हाइको प्लास्टवेयर्स प्राइवेट लिमिटेड
76.	U24304UP2016PTC084173	ए.एस. लाईफ साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
77.	U24297UP1998PTC023510	केसरवानी इन्टरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड
78.	U24249UP1987PTC009129	पारुल लाईवस्टाक एण्ड एग्री प्राइवेट लिमिटेड
79.	U24233UP2012PTC050993	जगराम इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
80.	U24233UP2011PTC047274	स्वास्तिक एग्रो-साइन्स प्राइवेट लिमिटेड
81.	U55209UP2017PTC089592	आप्टीमान फूड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
82.	U55204UP2016PTC076618	कैफे क्रिएसन्स प्राइवेट लिमिटेड
83.	U55204UP2013PTC059134	लक्ष्मीनारायन इन्न प्राइवेट लिमिटेड
84.	U55204UP2013PTC058030	मोरमुकुट लेजर प्राइवेट लिमिटेड
85.	U55101UP2014PTC062366	अगस्त्या हास्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
86.	U55101UP1998PTC023162	आरवक होटल्स प्राइवेट लिमिटेड
87.	U52609UP2017PTC090204	कानपुर थर्मोफार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड
88.	U52609UP2016PTC088362	कोरन्गा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
89.	U52500UP2016PTC084234	वीआईएसजीओपी शापर्स प्राइवेट लिमिटेड
90.	U52399UP2013PTC060399	कैप्रीकार्न केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
91.	U52100UP2015PTC071686	किंग्समैन ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
92.	U52100UP2015PTC070625	पुष्पा इन्टीग्रेटेड साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
93.	U52100UP2015PTC068415	श्रीजी रिटेल गुरु प्राइवेट लिमिटेड

94.	U52100UP2015PTC068179	ओसीन ब्लूम ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
95.	U52100UP2014PTC064718	एफएएजीजी आनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
96.	U52100UP2013PTC058821	ट्रेगजील कामर्स प्राइवेट लिमिटेड
97.	U52100UP2011PTC045420	श्रीनाथ जी गोल्ड ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
98.	U51909UP2017PTC090687	छाबरा इन्डीवर्स प्राइवेट लिमिटेड
99.	U51311UP2010PTC052046	हार्ट टच अपारेल प्राइवेट लिमिटेड
100.	U51311UP1996PTC021111	श्री नागा जी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
101.	U51101UP2016PTC076915	किस्नदेव एग्रीबायोटेक प्राइवेट लिमिटेड
102.	U51101UP2015PTC072975	वी कैन विन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड
103.	U51101UP2015PTC068484	ब्लू सीज ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड
104.	U51101UP2012PTC053680	इओन फार्मास्यूटिकल प्राइवेट लिमिटेड
105.	U51101UP2012PTC051519	वेज ईडीबल्स प्राइवेट लिमिटेड
106.	U51101UP2009PTC038812	ब्रिज ट्रेडिंग कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड
107.	U45500UP2016PTC086099	बजरंगशक्ती स्टेट इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
108.	U45400UP2016PTC077549	ओरियानगैलेक्सी इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
109.	U45400UP2016PTC077309	महेश चन्द कान्स्ट्रक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
110.	U45400UP2016PTC075773	श्री महेशवरम इन्फ्राप्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
111.	U45400UP2015PTC072918	लखनलाल गुप्ता इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
112.	U45400UP2015PTC069560	हरीदर्शन इन्फ्रासिटी प्राइवेट लिमिटेड
113.	U45400UP2015PTC069311	धेविक इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
114.	U45400UP2014PTC065373	श्री बजरंगबली इन्फ्राहाइट प्राइवेट लिमिटेड
115.	U45400UP2014PLC066458	फियूचरिस्टिक बिल्डकान इण्डिया लिमिटेड
116.	U45400UP2013PTC056476	सिंगल इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
117.	U45400UP2013PTC054813	फेडरल रियलिटी प्राइवेट लिमिटेड
118.	U45400UP2013PLC056566	एसआर टेक्नोप्रोजेक्ट्स लिमिटेड
119.	U45400UP2012PTC054332	एनएसआर इन्फ्रास्टेट प्राइवेट लिमिटेड
120.	U45400UP2012PTC052354	अहिंसा इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
121.	U70102UP2013PLC060424	दिव्य ज्ञान इन्फ्राटेक लिमिटेड
122.	U70102UP2013PLC058716	आइडियललाईफ कार्पोरेशन इण्डिया लिमिटेड
123.	U70102UP2013PLC058250	सरदार इन्फ्राडेवलपर्स इण्डिया लिमिटेड
124.	U70102UP2013PLC054887	आरवीएफ इण्डस्ट्रीज लिमिटेड
125.	U70102UP2012PTC054107	ऐसपिरैन्ट्स इन्फ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
126.	U70102UP2012PTC052827	मदरलैण्ड एशोसिएट्स प्राइवेट लिमिटेड
127.	U70102UP2012PTC050184	सिंह एण्ड को. प्रोमोटर्स एण्ड रियल्टर्स प्राइवेट लिमिटेड
128.	U70102UP2012PTC050176	विन्डसर डेवलपवेल प्राइवेट लिमिटेड
129.	U70102UP2012PTC050124	विहान बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
130.	U70102UP2011PTC047499	शक्ती इकोनामिक डेवलपमेन्ट सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
131.	U70102UP2010PTC042728	फ्रैन्ड्स इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
132.	U70102UP2010PTC040820	सूर्या इन्फ्रा कान्सट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
133.	U70101UP2006SGC032426	एस.आर. निर्माण प्राइवेट लिमिटेड
134.	U70100UP2014PTC065257	आरआरडी इन्फ्राप्रोमोटर्स प्राइवेट लिमिटेड
135.	U70100UP2014PTC064450	शेरे बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
136.	U70100UP2014PTC063788	एमएसजी रीयलटर्स प्राइवेट लिमिटेड
137.	U70100UP2014PTC063527	उजाला इन्फ्राकान प्राइवेट लिमिटेड
138.	U70100UP2014PTC063517	उजाला स्टेट मार्ट प्राइवेट लिमिटेड
139.	U70100UP2014PTC061794	राकलेन इन्फ्रास्ट्रक्चर्स प्राइवेट लिमिटेड

140.	U70100UP2014PLC062810	मां विन्ध्यावासिनी लेण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
141.	U70100UP2013PTC061539	देव क्रिपा प्लेनर्स एण्ड बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड
142.	U70100UP2013PTC061296	सिल्वर लीफ बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
143.	U70100UP2013PTC061190	रियन्त बिल्डवेल प्राइवेट लिमिटेड
144.	U70100UP2013PTC061004	मुकन्द माधव बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
145.	U67200UP2013PLC061651	होप बेनीफिट फण्ड लिमिटेड
146.	U65999UP2017PLC092163	इन्टेगरालाईफ निधि लिमिटेड
147.	U65999UP2016PLC085297	रीयल जीवन निधि लिमिटेड
148.	U65991UP2014PLC065479	रुद्रा म्युचुअल बेनीफिटर्स निधि लिमिटेड
149.	U65991UP2013PLC061454	ऐंजलइण्डिया म्युचुअल बेनीफिट लिमिटेड
150.	U65991UP1997PLC021808	सैल सुता म्युचुअल बेनीफिट लिमिटेड
151.	U65923UP2015PLC068666	हीवेनग्रीज म्युचुअल बेनीफिट इण्डिया निधि लिमिटेड
152.	U65923UP2015PLC068487	मा मन्सा म्युचुअल बेनीफिट निधि लिमिटेड
153.	U65923UP2014PLC067481	हेरीटेज इण्डिया निधि लिमिटेड
154.	U65923UP2014PLC064842	एमआरपी ग्रोथ म्युचुअल बेनीफिट निधि लिमिटेड
155.	U65923UP2011PTC046389	वेल्थवेगन कमोडिटीज प्राइवेट लिमिटेड
156.	U65923UP2011PTC044818	वेल्थवेगन फाइनेंसियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
157.	U64204UP2014PTC067623	केके इन्फो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
158.	U64203UP2013PTC060809	ड्रीमएक्ट्रीम साइन सार्विसेज इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
159.	U63090UP2011PTC044897	ट्रान्स कोरल सिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
160.	U60200UP2009PTC038295	विशाल मोटर्स एण्ड पैकर्स प्राइवेट लिमिटेड
161.	U72300UP2015PTC073680	लिमिटेडनेस मोबिलिटी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
162.	U72300UP2015PTC073568	रामासिस टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
163.	U72300UP2015PTC072833	एक्सीलेट्रियम आनलाइन सेल्युमशन प्राइवेट लिमिटेड
164.	U72300UP2015PTC068851	स्कैनबाक्स वेब टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
165.	U72300UP2015PTC068763	मिराकी टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
166.	U72300UP2015PTC068170	टेक्नीर सेल्युमशन एण्ड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
167.	U72300UP2014PTC067311	फिलास्फर सेल्युमशन प्राइवेट लिमिटेड
168.	U72300UP2013PTC058942	ई पिकासो टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
169.	U72300UP2012PTC053278	त्रिनेत्र असनलसइन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
170.	U72300UP2012PTC052702	बीएचयू आईटी सेल्युमशन प्राइवेट लिमिटेड
171.	U72300UP2011PTC048013	एम्बीशन इन्फोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड
172.	U72300UP2011PTC047506	वाग्वा टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
173.	U72300UP2011PTC045080	कोबाक टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
174.	U72300UP2010PTC043000	कोहिरेंट इन्फासेल्युमशन प्राइवेट लिमिटेड
175.	U72300UP2010PTC042421	जीएनके एडवाइर्जस प्राइवेट लिमिटेड
176.	U72200UP2014PTC064714	मनीमैक्स साफ्टवेयर प्राइवेट लिमिटेड
177.	U72200UP2007PTC033691	ओवासाफ्ट टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड
178.	U72200UP2006PTC032366	एम्बसटेक साफ्टवेयर सेल्युमशन प्राइवेट लिमिटेड
179.	U71101UP1982PTC005879	जी पी दलाल टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
180.	U70109UP2016PTC088407	एसएसपीएस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
181.	U70109UP2014PTC061867	ड्रीमफील्ड्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
182.	U70102UP2016PTC076428	मां कैला देवी इन्फ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
183.	U70102UP2015PTC074222	सतनाम इन्फाटेक प्राइवेट लिमिटेड
184.	U70102UP2015PTC073226	सिटीलाइफ कोलोनाइर्जस प्राइवेट लिमिटेड
185.	U70102UP2015PTC072690	श्रीकान्त इन्फ्राबुल्स प्राइवेट लिमिटेड

186.	U70102UP2015PTC071132	एण्ट इन्फाटेक एण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
187.	U70102UP2015PTC070021	एलएन प्राप कैफे इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
188.	U70102UP2015PTC069414	ग्लोइंगसिटी इन्फाप्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड
189.	U70102UP2015PLC070023	मैक्समैरी इन्फा कन्सल्टेन्सी लिमिटेड
190.	U70102UP2014PTC067016	गेपराक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
191.	U70102UP2014PTC066817	मां कैला देवी इन्फावेन्चर डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
192.	U70102UP2014PTC066799	मां कैला देवी इन्फालैण्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
193.	U70102UP2014PTC065307	एवेन्यू इन्फाडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
194.	U70102UP2014PLC065685	साई दीप बिल्डएक्सपर्ट प्राइवेट लिमिटेड
195.	U70102UP2013PTC058783	एसडीएस बिल्डकान प्राइवेट लिमिटेड
196.	U70102UP2013PTC058630	रेसीकाम इन्फा प्राइवेट लिमिटेड
197.	U70102UP2013PTC056188	अप राइट बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड
198.	U70102UP2013PTC055639	एनास इन्फाहाइट्स प्राइवेट लिमिटेड
199.	U70102UP2013PTC055029	आरआरएस इन्फाडेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
200.	U70102UP2013PTC054664	ईक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
201.	U74120UP2015OPC074154	उपेन्द्र पावर मल्टीट्रेड इण्डस्ट्रीस प्राइवेट लिमिटेड
202.	U74120UP2014PTC067620	एक्सेल टेक्नो सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
203.	U74120UP2014PTC067564	ओर्माव बिजनेस सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
204.	U74120UP2014PTC067410	दीपिक टेक्नोलाजिस प्राइवेट लिमिटेड
205.	U74120UP2014PTC066695	गरिमासिंह एजूकेशनल सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
206.	U74120UP2014PTC066506	स्टार्टा वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड
207.	U74120UP2014PTC065133	मेहित क्रियेशसन प्राइवेट लिमिटेड
208.	U74120UP2014PLC067265	विनयवीजन एग्रीटेक इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
209.	U74120UP2013PTC058990	आरएनवी इन्फोटेक सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
210.	U74120UP2013PTC058264	स्टाइल99 इण्टरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
211.	U74120UP2013PTC058078	पराशर फार्मिंग प्राइवेट लिमिटेड
212.	U74120UP2013PTC057137	प्रोजेन ब्रीडिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
213.	U74120UP2013PTC056974	उपकार मेडिकल एण्ड रिसर्च सेंटर प्राइवेट लिमिटेड
214.	U74120UP2013PTC056717	एलर्बज सेल्यूशन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
215.	U74120UP2013PTC056274	धनोसियन ज्वैल्स प्राइवेट लिमिटेड
216.	U74120UP2012PTC054157	आईपीसी पेस्ट कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड
217.	U74120UP2012PTC053402	अभीति मोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
218.	U74120UP2012PTC052919	एप्जर्पोट प्राइवेट लिमिटेड
219.	U74120UP2012PTC051066	ब्रिज मेडकेयर प्राइवेट लिमिटेड
220.	U74120UP2012PTC050668	एसआरएम ग्लोबल सिक्यूरिटीस प्राइवेट लिमिटेड
221.	U74120UP2012PTC049831	मिरोजो डाटालाजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड
222.	U74120UP2012PTC049057	एसवीएस एसेट रिकवरी एण्ड रिकान्सिलिए शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
223.	U74120UP2012PTC048584	बाम टेकसर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
224.	U74120UP2012PTC048324	लार्ड कृष्णा इन्फाप्रमोर्टस प्राइवेट लिमिटेड
225.	U74120UP2011PTC047618	एजीएल टार्यस प्राइवेट लिमिटेड
226.	U74120UP2011PTC047275	कोरल इन्जीनियरिंग एण्ड कन्स्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड
227.	U74120UP2011PTC047198	ईस्टर जाय स्टूडियो आर्ट्स एण्ड ट्रेनिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
228.	U74120UP2011PTC044446	नियोन लाइफ साइन्सेस प्राइवेट लिमिटेड
229.	U72900UP2016PTC075918	इम्पावीडस आनलाइन सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
230.	U72900UP2016OPC084793	इनेबसिस टेक्नोलाजिस ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड

231.	U72900UP2014PTC063458	जेकेएम इन्फोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड
232.	U72900UP2014PTC063114	एलेक्सिसआईटी कन्सल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड
233.	U72900UP2013PTC061512	टेक्टिप इनोवेटिव सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
234.	U72900UP2013PTC060552	ट्रिनुअल साफ्टवेयर सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
235.	U72900UP2003PTC028140	बियाण्ड साफटेक प्राइवेट लिमिटेड
236.	U72900UP2000PTC025681	लागिन आनलाइन प्राइवेट लिमिटेड
237.	U72300UP2016PTC076826	ऑटिस्ट्री डीम्स प्राइवेट लिमिटेड
238.	U72300UP2016PTC075597	किएटिव थिन्कोसिस वेब सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
239.	U72300UP2015PTC074752	ब्लूफलाएड टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
240.	U72300UP2015PTC074565	बिटनेक्ट टेक्नोलॉजिस प्राइवेट लिमिटेड
241.	U74999UP2016OPC087301	साइबर बलाग्स आनलाइन कन्टेंट्स ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
242.	U74999UP2016OPC084136	ईब्स बास्केट ट्रेडकाम ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड
243.	U74999UP2014PTC064959	श्रीहरीवासुदेवा डेयरी एण्ड एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
244.	U74999UP2003PTC027328	पास मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड
245.	U74992UP2014OPC065112	एआरसी इंस्टीट्यूट आफ कैपिटल मार्केट एण्ड इनवेस्टमेंट कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
246.	U74900UP2016PTC076579	नेक्सटमूव स्टडी एब्राड एण्ड इमीग्रेशन सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
247.	U74900UP2016PTC076435	फलाइंग कसइटसउ सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
248.	U74900UP2014PTC064631	राकलेन इन्वेस्टीगेशन एण्ड कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
249.	U74900UP2014PTC063918	सनबीम डिकोर एण्ड डिजाइन प्राइवेट लिमिटेड
250.	U74900UP2014PTC063604	रिक्रियेशन कंसल्टेंटसी सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
251.	U74900UP2013PTC061209	पैनलाइफ फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
252.	U74900UP2013PTC061185	नैड बिन्दु लिक्वोर एण्ड बिबेरेजेस प्राइवेट लिमिटेड
253.	U74900UP2013PTC060951	टेक्टिक्स डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड
254.	U74900UP2011PTC045553	यूएसपी मैन्ट्रास एडवर्टाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
255.	U74900UP2011PTC045495	शंकरगोपालन इन्वेस्टमेंट सेल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
256.	U74900UP2010PTC042945	अर्थवे इन्फ्राबिल्ड प्राइवेट लिमिटेड
257.	U74210UP2011PTC043723	भगत अर्क इनोवेशनश प्राइवेट लिमिटेड
258.	U74140UP2010PTC040166	माना कंसल्टिंग सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
259.	U74140UP2008PTC057304	एपकेवीजी कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
260.	U74140UP2006PTC032480	नव्या कंसल्टेंट्स एण्ड एलाइड सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
261.	U74140UP1993PTC015957	ऐलेक्स बिजनेस कंसल्टेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
262.	U74120UP2016PTC077557	क्रियेस्क्वायर प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड
263.	U74120UP2016PTC076354	सनोस्टार होम्स प्राइवेट लिमिटेड
264.	U74120UP2015PTC075409	हुमर्स एचआर साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
265.	U74120UP2015PTC075052	एशियालिक शिपिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
266.	U74120UP2015PTC074869	पिंग्गी बिग्गी ईसर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
267.	U74120UP2015PTC074381	ओजीन इण्डस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
268.	U74120UP2015PTC074127	रैपिड ट्रान्सपे साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड

269	U74120UP2015PTC073850	परफेक्ट लिसोर्स प्राइवेट लिमिटेड
270	U74120UP2015PTC073111	टैलेन्ट बज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
271	U74120UP2015PTC073077	रूरल जाब्स कन्सलटैन्सी प्राइवेट लिमिटेड
272	U74120UP2015PTC072726	मैक्सस इक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड
273	U74120UP2015PTC072582	डिजिटल ई हाक्स प्राइवेट लिमिटेड
274	U74120UP2015PTC072284	स्मार्ट वैल्यूइप्रो सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
275	U74120UP2015PTC072222	जी मैक्स टेक प्रोफेशनल्स प्राइवेट लिमिटेड
276	U74120UP2015PTC071930	एमपिलटैक्ट आईटी साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
277	U74120UP2015PTC069695	जैवा सिक्वोरिटी साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
278	U74120UP2015PTC069343	ओमपल क्रियेशन्स प्राइवेट लिमिटेड
279	U74120UP2015PTC068368	जी एम मल्टीकन्सल्टैन्ट प्राइवेट लिमिटेड
280	U74120UP2015OPC074322	डोजेन ड्रीम मेटल्स (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
281	U93030UP2013PTC057566	आर वी सिक्वोरिटी साल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड
282	U93000UP2017OPC090208	वेडवेल सर्विसेज (ओपीसी) प्राइवेट लिमिटेड
283	U93000UP2010PTC042950	अफीफा कन्सल्टैन्सी प्राइवेट लिमिटेड
284	U93000UP2009PTC038077	साई इन्सीट्यूट आफ टैक्स एण्ड कम्प्यूटर एकाउन्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
285	U93000UP2007PTC034342	टचस्टोन फिनवेसट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
286	U92412UP2012PTC053537	सैग गोल्डफिन्ग साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
287	U91990UP1935PTC000690	द मेरठ बुलियन एशोसियेशन प्राइवेट लिमिटेड
288	U85191UP2016PTC075574	मैरीशन फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
289	U85191UP2015PTC075164	चन्द्राआरोग्यम हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
290	U85191UP2015PTC070986	ऐस्ले हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
291	U85191UP2012PTC052100	न्युआज्मेड फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
292	U85191UP2012PTC051979	बासन मेडीकेयर प्राइवेट लिमिटेड
293	U85191UP2011PTC043424	सैफ हेल्थकेयर प्राइवेट लिमिटेड
294	U85190UP2007PTC034347	ओयलैक्स फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
295	U85110UP1978PTC004580	अनूप मेटल्स एण्ड इन्जीनियरिंग वर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
296	U85100UP2013PTC060699	साबाद मेडिकल्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड
297	U85100UP2010PTC039911	ईसा मेडीडायग्नोसटिक्स प्राइवेट लिमिटेड
298	U80904UP2016PTC084791	जेनियन एजुकेशन वेन्चर प्राइवेट लिमिटेड
299	U80904UP2016PTC076162	सत्यसा एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
300	U80904UP2015PTC069762	सिड स्काट एजुकेशन प्राइवेट लिमिटेड
301	U80904UP2013PTC058845	डी के साइकोलाजी स्ट्रेन्थप्राइवेट लिमिटेड
302	U80904UP2012PTC048359	विजय एजुकेशनल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
303	U75144UP2015PTC072437	स्पेशल कमान्डो सिक्वोरिटी प्राइवेट लिमिटेड

304	U74999UP2017PTC094242	विश्व भारती हर्ब्स प्राइवेट लिमिटेड
305	U74999UP2017PTC091523	जैकान बिजनेस साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
306	U74999UP2017PTC090181	सी. एल. एण्ड शन्स फूड्स प्राइवेट लिमिटेड
307	U74999UP2017FTC096174	फुन्नी एकजीबीसन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड
308	U74999UP2016PTC088589	माइन इन्फ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड
309	U74999UP2016PTC087621	गोयल पैकमेट एण्ड डिजाइनर्स प्राइवेट लिमिटेड
310	U74999UP2016PTC087546	औराकाम नेटवर्क्स प्राइवेट लिमिटेड
311	U74999UP2016PTC087380	एकेवीएसएम इन्फ्रा पावर प्राइवेट लिमिटेड
312	U74999UP2016PTC086079	स्टार्टस्टांग साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
313	U74999UP2016PTC086056	श्रीहरी वाईन वेवरेजेज प्राइवेट लिमिटेड
314	U74999UP2016PTC085630	नावमा सिस्टम्स इण्डिय प्राइवेट लिमिटेड
315	U74999UP2016PTC084651	बिनावो टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
316	U74999UP2016PTC083766	नेबसिस टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
317	U74999UP2016PTC083596	सिसकिन हेल्थ एण्ड हास्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड
318	U74999UP2016PTC083124	सोफिया एडवरटाइजिंग प्राइवेट लिमिटेड
319	U74999UP2016PTC082894	फूडमान्क टेक्नोलाजीज प्राइवेट लिमिटेड
320	U74999UP2016PTC082884	न्युवेज हेल्थ एण्ड लाइफसाइन्सेज प्राइवेट लिमिटेड
321	U93090UP2006PTC032675	ओम बीपीओ साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
322	U93030UP2015PTC071155	ईजीकेयर साल्यूशन्स प्राइवेट लिमिटेड
323	U93030UP2015OPC071759	कामन सर्विसेज प्रोवाइडर्स प्राइवेट लिमिटेड (ओपीसी)
324	U93030UP2013PTC060632	वीआर 4 यू सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
325	U93030UP2013PTC058381	अनु राजेन्द्रा इन्टरटैनमेन्ट प्राइवेट लिमिटेड
326	U93030UP2013PTC057856	आर 3 मन्त्रा स्पा सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड

प्रारूप संख्या एसटीके-6

सार्वजनिक सूचना

नाम हटाने और विघटन की सूचना

[कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 की उपधारा (2) और उपधारा (4) और कंपनी (कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाना) नियम, 2016 के नियम 7 के अनुसरण में]

सार्वजनिक सूचना सं. 27032018

संदर्भ:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत निम्नलिखित कंपनियों का नाम हटाने के मामले में:

गोवा, 27 मार्च, 2018

1. मै. जय रघुवीरा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड आरओसीगोवा/248(2)/014019/2018
2. मै. स्वरुपा योगधाम प्राइवेट लिमिटेड आरओसीगोवा/248(2)/014018/2018

3. मै. कोलेवा हॉलिडे होम्स प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014017 / 2018
4. मै. ब्लू बे इंडिया मल्टि ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014016 / 2018
5. मै. जय रघुपति बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014015 / 2018
6. मै. जय रघुवीरा बिल्डकॉन प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014014 / 2018
7. मै. जय रघुवीरा मैन्सन्स प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014013 / 2018
8. मै. जय गोवावे फार्मा प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014012 / 2018
9. मै. लि रॉय आर्थर कंटेरिंग प्राइवेट लिमिटेड	आरओसीगोवा / 248(2) / 014011 / 2018

- (1) इसके द्वारा यह सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 (2) के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को उपर उल्लिखित कंपनियों से कंपनी रजिस्ट्रार से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी कंपनी के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 2 वित्तीय वर्षों से कारबार नहीं कर पायी है और इस अवधि के भीतर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 455 के तहत निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है या कंपनी ने निष्क्रिय कंपनी की स्थिति प्राप्त कर ली है, पर वे कंपनी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और अतः कंपनी रजिस्ट्रार से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।
- (2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, कंपनी रजिस्टर से उपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।
- (3) यदि किसी व्यक्ति को कंपनी रजिस्टर से कंपनियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर उपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

हस्ता./—अपठनीय
कंपनी रजिस्ट्रार

सार्वजनिक सूचना सं. आरओसीसीबीडी/ एलएलपी - नियम 37(1)(बी)/ 2018/ 1 दिनांक: 02.04.2018

संदर्भ: [सीमित देयता भागीदारी अधिनियम](#) 2008 की धारा 75 नियम 37(1)(बी) सीमित देयता भागीदारी नियम,

2009 के तहत निम्नलिखित सीमित देयता भागीदारियों का नाम हटाने के मामले में:

Sl.No	LLP NAME	LLPIN	SRN
1	सस्मा कंसल्टेंसी एंड मैनेजमेंट सर्विसेज एलएलपी	AAE-1986	M05861729
2	ब्लूलेस टेक्नोलॉजीज एलएलपी	AAC-0457	M05833892
3	जेन योग एलएलपी	AAB-7238	M05792395
4	मीनाक्षी रेटेलस एलएलपी	AAB-3243	M05724786
5	ट्रिडेंट एच् आर पार्टनर्स लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप	AAD-4252	M05705678
6	एपिस गारमेंट्स & टेक्सटाइल्स एलएलपी	AAF-5863	M05607734
7	साडेम एचआरएम् सर्विसेज एलएलपी	AAG-0360	M05465968
8	इंटीकैट आर्टिसन्स रिटेल सर्विसेज एलएलपी	AAB-9878	M05020516
9	प्रविष लिनेंस एलएलपी	AAD-0474	M04895314
10	डरिडेल टेक्नोलॉजीज एलएलपी	AAC-1645	M04827796
11	रवि युवराज एक्सिम एलएलपी	AAB-3079	M04765251

12	फ्लामेक्स इंडिया ग्रूवेड जॉइंट्स एलएलपी	AAC-3632	M04696639
13	महात्रु पावर सोल्यूशन्स एलएलपी	AAC-3529	M04492393
14	इवेब हेल्थ & एजुकेशन एलएलपी	AAC-1029	M04408985
15	हमसिनी ज्वेलरी एलएलपी	AAF-4080	M04403168
16	एँपिजिंगो टेक्नोलॉजीज एलएलपी	AAC-9593	M04350336
17	कार्बन फेर्रो फाउंड्री एलएलपी	AAB-0278	M04301198
18	नंबरगल फार्मा एलएलपी	AAB-0777	M03790433

(1) इसके द्वारा यह सूचित दिया जाता है कि सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 75 नियम 37(1)(बी) सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के तहत कंपनी रजिस्ट्रार को ऊपर उल्लिखित भागीदारियों को कंपनी रजिस्टर से इस आधार पर नाम हटाने का आवेदन प्राप्त किया है कि वे उनकी भागीदारियों के निगमन के एक वर्ष के भीतर कारबार आरंभ करने में विफल रहे हैं या इस आधार पर कि कंपनी पूर्ववर्ती 1 और उससे अधिक वर्षों से कारबार नहीं कर पायी हैं और इस अवधि के भीतर फॉर्म 24 सीमित देयता भागीदारी अधिनियम 2008 की धारा 75 नियम 37(1)(बी) सीमित देयता भागीदारी नियम, 2009 के तहत निष्क्रिय सीमित देयता भागीदारी की स्थिति प्राप्त करने का आवेदन नहीं किया है पर वे सीमित देयता भागीदारी के रूप में पंजीकरण नहीं रखना चाहते और सीमित देयता भागीदारी रजिस्टर से अपना/अपने नाम हटाने का अनुरोध किया है।

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, सीमित देयता भागीदारी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को सीमित देयता भागीदारी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित भागीदारियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

के.लता परिमलावदना

कंपनी पंजीयक

कोयम्बटूर

सार्वजनिक सूचना सं. आरओसीसीबीड/ एलएलपी - नियम 37(1)(ए)/ 2018/ 1

संदर्भ: [सीमित देयता भागीदारी अधिनियम](#) 2008 की धारा 75 नियम 37(1)(ए) सीमित देयता भागीदारी नियम,

2009 के तहत निम्नलिखित सीमित देयता भागीदारियों का नाम हटाने के मामले में:

कोयम्बटूर, 3 अप्रैल, 2018

Sl.No	LLPIN	LLPNAME
1	AAA-0095	थिंक एशिया कॉमर्सियो एलएलपी
2	AAA-0390	पीए। कंट्रोल और ऑटोमेशन इंजीनियर्स एलएलपी
3	AAA-1165	अवतार इंटेग्रा एलएलपी
4	AAA-1301	के पी आर डिर्टेजेंट एलएलपी
5	AAA-2211	नवमार्ग इन्वेस्टमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी
6	AAA-2250	आत्मा ब्रॉडबैंड कनेक्शन एलएलपी
7	AAA-2402	365 कॉर्पोरेट सोल्यूशन्स एलएलपी

8	AAA-2500	टमप्लर वेंचर्स एलएलपी
9	AAA-2831	कोवै कम्फर्ट्स एलएलपी
10	AAA-3202	कॉन्टिनेंटल एगो कमोडिटीज सोल्यूशन्स एलएलपी
11	AAA-3331	फिज़ोक लर्निंग सोल्यूशन्स एलएलपी
12	AAA-3661	एम2बि कले & ब्रिक सर्विसेज एलएलपी
13	AAA-4568	सेंटूर एगो फूड प्रोडक्ट्स एलएलपी
14	AAA-5610	कोवै सुपरमार्केट एलएलपी
15	AAA-5662	अनी सिम्पेक्स ट्रेडिंग एलएलपी
16	AAA-7049	अल्फा हाईवे सोल्यूशन्स एलएलपी
17	AAA-7380	ओइ & एस एजेंसीज एलएलपी
18	AAB-0607	स्प्रिंगलीफे हैल्थकेर कोइम्बटोरे एलएलपी
19	AAB-0824	एप्पिल पिंक ट्रेनिंग & कंसल्टेंसी एलएलपी
20	AAB-1149	योलो फूड एंड रेस्टोरेंट्स एलएलपी
21	AAB-1850	आइडियल सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट प्लानर्स एलएलपी
22	AAB-2531	रबका कंट्रोल्स एंड सिस्टम्स एलएलपी
23	AAB-2554	कस्वा ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एलएलपी
24	AAB-2965	आद्यंतहा लाइफ स्ट्यूलेनवीरोस एलएलपी
25	AAB-3395	कदम्बम एंटरप्राइज एलएलपी
26	AAB-4856	पपिल बे फाउण्डेशन्स एलएलपी
27	AAB-5659	अमिस्टेड फूड्स एलएलपी
28	AAB-5723	फाज़ता बिज़नेस सर्विसेज एलएलपी
29	AAB-6488	लरनिंगबॉक्स कंसल्ट एलएलपी
30	AAB-7018	जहा वेब मीडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज एलएलपी
31	AAB-7117	श मारचिओ फूड्स & बेवरेजेज एलएलपी
32	AAB-7399	मरगाथारथिनम सॉफ्टवर्स एलएलपी
33	AAB-8441	चेंदुर मुरुगन ट्रेडर्स एलएलपी
34	AAB-8442	मसूबे एडवर्टाइजिंग एलएलपी
35	AAB-8853	ब्लुबोन इंटरनेशनल इम्पेक्स एलएलपी
36	AAB-9623	मैग्नेटिक कंट्रोल्स एंड इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स इंडिया एलएलपी
37	AAB-9874	क्रैयॉन्स एंड कंडीएसपरोडीजी स्कूल एलएलपी
38	AAB-9875	एवोनोवा इंटरैक्टिव एलएलपी
39	AAB-9938	सरकमफुसन टेक्नोरूट एलएलपी
40	AAC-1030	फेनेल लर्निंग सोल्यूशन्स एलएलपी

41	AAC-1314	चेंदूर आंटवर माइनिंग रिसोर्सज एलएलपी
42	AAC-1822	कॉपिक्स इन्फो सोल्यूशन्स एलएलपी
43	AAC-2156	फ्रेस्को गारमेंट्स एलएलपी
44	AAC-2451	आर एम वि प्रमोटर्स एलएलपी
45	AAC-3322	संहार सॉफ्टवेयर रिसर्च लैब एलएलपी
46	AAC-3756	मैक्स ओ मैक्स कंस्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज एलएलपी
47	AAC-4449	वेल्लिन ट्रेड कारपोरेशन एलएलपी
48	AAC-4665	एस एम वीविंग्स एलएलपी
49	AAC-5230	फ्यूजन डेक्स एलएलपी

(1) सूचना इस प्रकार है कि कंपनियों के रजिस्ट्रार का मानना है कि उपरोक्त एलएलपी के अधिनियम, 2008 की धारा 75 के तहत एलएलपी के पंजीकरण से अपने नाम (एस) को हटाने के लिए जमीन पर है या नहीं 2 (दो) वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए किसी भी व्यवसाय या पेशे को ले जाने और रजिस्ट्रार को इसके लिए उचित कारण मिलना है, रजिस्ट्रार स्वयं कार्रवाई कर सकता है और संबंधित एलएलपी को नोटिस भेज सकता है और उसके सभी भागीदारों को रजिस्ट्रार रजिस्टर से उसका नाम बंद करने का इरादा.

(2) तदनुसार कंपनी रजिस्ट्रार, सीमित देयता भागीदारी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित कंपनियों का नाम हटाने का प्रस्ताव करता है।

(3) यदि किसी व्यक्ति को सीमित देयता भागीदारी रजिस्टर से ऊपर उल्लिखित भागीदारियों का नाम हटाने के प्रस्ताव से आपत्ति है तो वह व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर ऊपर उल्लिखित कार्यालय के पते पर अपनी आपत्ति भेज सकता है।

के.लता परिमलावदना

कंपनी पंजीयक

कोयम्बटूर

SUPREME COURT OF INDIA

New Delhi, the 4th April, 2018

F.NO. 22/Cal/2017-018/SCA(Genl.).—In pursuance of sub-rule (3) of Rule 4 of Order II of the Supreme Court Rules 2013, the Hon'ble the Chief Justice of India has directed that the Registry of the Supreme Court of India shall remain closed on Saturday, the 14th April, 2018 on account of the birthday of Dr. B.R. Ambedkar.

P.K. GERA

Registrar (Admn. G)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi, the 26th February, 2018

F.No. P-2562/Admn.II.—Hon'ble Chairman is pleased to extend the tenure of deputation in respect Sh. Sudhir Kumar Gaur, a regular Estates Manager & Meeting Officer, UPSC to the post of Assistant Director (Confidential) [General Central Service, Group-A, Gazetted, Non-Ministerial] in Level 10 of Pay Matrix (with GP ₹ 5,400/-) in the office of Union Public Service Commission for a further period of another 1-year, i.e. 6th year of deputation w.e.f. 21-02-2018 to 20-02-2019, or until further orders, whichever is earlier.

2. During his appointment on deputation basis as Assistant Director (Confidential), the pay of Sh. Sudhir Kumar Gaur will be regulated in accordance with the provisions contained in DoP&T OM No. 6/8/2009-Estt. (Pay-II) dated 17th June 2010.

S. PADMANABHA

Under Secy. (Estt.)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

(DIRECTORATE GENERAL)

(CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE)

New Delhi, the 9th March, 2018

No. E-33013(1)/Tech Resig-3/FJ/2018/Pers.I/218.—Consequent upon appointment of Shri Faisal Javaid, AC/EXE (CAPF-2012) of CISF Unit OIL Duliajan to the post of Asstt. Works Manager (Prob.), Group-“A” Gazetted Post in the “Indian Ordnance Factories Service” (Ministry of Defence) on the basis of Civil Service Examination-2016, the President of India is pleased to accept his technical resignation from CISF service with effect from 25.02.2018 (A/N).

Director General/CISF

V.K. CHAURASIA

Asstt. Inspector General/Pers

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (GENERAL AND SOCIAL SECTOR AUDIT)

Bhubaneswar, the 20th March, 2018

E.O. No. 38.—In pursuance of OOC No. 1616 dated 08.03.2018 communicated vide Memo No. Admn (G&SSA)-3-1/Vol.X/2559 dated 08.03.2018 the following officials on their promotion have assumed the charge as Assistant Audit Officer (Civil) in Pay Level 8 in Pay Matrix with effect from the dates as indicated against each:—

Sl. No.	Name of the Officers (S/Shri)	Date of taking over charge as Asstt. Audit Officer (Civil)
01.	Arjun Swain	09.03.2018 (FN)
02.	Shekhar Kumar	08. 03.2018 (AN)
03.	Ms. Arpita Roy	09.03.2018 (FN)
04.	Ms. Suryatapa Chakraborty	08. 03.2018 (AN)
05.	Surjeet Kumar	08.03.2018 (AN)
06.	Chandra Sekhar Behera	08. 03.2018 (AN)
07.	Suresh Chandra Nayak	09.03.2018 (FN)
08.	Prasant Kumar Mohanty	08.03.2018 (AN)
09.	Pratap Kumar Bindhani	08. 03.2018 (AN)
10.	Pravat Ranjan Sahoo	08.03.2018 (AN)
11.	Pradeep Kumar Sahu	09.03.2018 (FN)
12.	Manoj Kumar	12. 03.2018 (FN)
13.	Shyam Kumar	08.03.2018 (AN)
14.	Aditya Prasad Nayak	08.03.2018 (AN)

SNIGDHA MAHANTI

Sr. Audit Officer/Admn.

Memo No. Admn (G&SSA)-3-1/Vol.X/2654

DEFENCE ACCOUNTS DEPARTMENT

(OFFICE OF THE CONTROLLER GENERAL OF DEFENCE ACCOUNTS,)

New Delhi, the 27th February, 2018

No. AN-I/1175/CGDA/2017-18.—President is pleased to appoint Smt. Madhulika P. Sukul, an officer of the Indian Defence Accounts Service, as Controller General of Defence Accounts in the scale of pay of Rs. 80,000/-(fixed) (6th CPC)/Level 17 of pay matrix (7th CPC), with effect from 01st February, 2018 (Forenoon) and until further orders.

MUSTAQ AHMAD

Dy.CGDA (Admin)

New Delhi, the 12th March, 2018

No. AN-I/1173/NFSG/2018.— President is pleased to appoint the under mentioned officers of the Indian Defence Accounts Service in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade [(Rs. 37,400-67,000 (6th CPC))/Level 13 of pay matrix (Rs. 1,23,100-2,15,900) (7th CPC)] of that Service, with effect from the dates shown against their names, until further orders:-

Sl. No.	Name of the officer Sh./Smt.	Date of appointment in the Non-Functional Selection Grade of the Junior Administrative Grade
1.	Dhananjay Singh	01/01/2018
2.	(Smt.) Moina Benazir	01/01/2018
3.	Amit Gupta	01/01/2018
4.	Ambarish Barman	01/01/2018
5.	S. Murali Krishnan	01/01/2018
6.	Sandeep Thakur	01/01/2018

7.	Sanjay Kumar	01/01/2018
8.	T. Kabilan	01/01/2018

MUSTAQ AHMAD
Dy.CGDA (Admin)

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

(LABOUR BUREAU)

Shimla, the 28th March, 2018

No. 5/1/2018-C.P.I.—The All-India Consumer Price Index Number for Industrial Workers on base: 2001=100 decreased by 1 point and stood at 287 (two hundred eighty seven) for the month of February, 2018.

AMRIT LAL JANGIR

Dy. Director

S.No.	CIN	Company Name
1	AAD-0253	ZENITH HAIR TRANSPLANT & COSMETIC SURGERY CLINIC LLP
2	AAG-2633	SPEAR DIGITAL WEB LLP
3	AAH-3324	FREE ZONE REAL ESTATE LLP
4	AAH-8431	OSIA PACKAGING LLP
5	AAF-4155	MAA ASHTABHUJA MINERALS LLP
6	AAE-3019	RED MAPLE VALLEY FOODS (INDIA) LLP
7	AAD-3957	MAXIM INFRA SERVICES INDIA LLP
8	AAD-8698	MAXIM INFRA SERVICES INDIA LLP
9	AAH-1392	VARITECH CONSTRUCTION EQUIPMENTS LLP
10	AAB-5381	ANTHEM AVIATION SERVICES LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP
11	AAF-1974	MARCEL BREUER CLOTHING AND LIFESTYLE LLP
12	AAB-2102	AJAIGARH FARMS & ESTATES LLP
13	AAC-5153	SAMAY MULTITRADE (INDIA) LLP
14	AAB-9400	VYAS MINES AND MINERALS LLP
15	AAC-3911	SRISHTI NATURAL RESOURCES & MINING LLP
16	AAC-5606	MALAYDHAKAD FOOD PRODUCTS LLP
17	AAF-5236	UNFOLD RETAIL LLP
18	AAF-7839	AAPKA TRUCK LOGITECH LLP
19	AAD-1380	VYAPAR-MITRA INCUBATION SERVICES LLP
20	AAE-4939	FORCES REAL ESTATE DEVELOPERS INDIA LLP
21	AAC-8646	FRIENDS UNITY SCANNING CENTRE LLP

MINISTRY OF MINES

(INDIAN BUREAU OF MINES)

Nagpur, the 27th February, 2018

No. A-19011/670/2016-Estt. A : On the recommendation of the Union Public service Commission, the President is pleased to appoint Shri Vinood S, the the post of Assistant Ore Dressing Officer in India Bureau of Mines, Nagpur w.e.f. 29.01. 2018 (F/N)

SANJAY KUMAR SINGH
Administrative Officer

Nagpur, the 22nd March, 2018

No. T-43010/CGBM/2017.—By virtue of powers vested in me under Rule 3(1)(c) of Mineral Conservation and Development Rules, 2017, I hereby authorize the Chief Mining Geologist of Indian Bureau of Mines as “Authorised Officer” to perform function and take action in respect of rule 35(2) of Mineral Conservation and Development Rules, 2017. This authorization is in addition to the Notification No. T-43010/CGBM/2014 dated 11th May, 2017 published in the Gazette of India, Part III Section I on 31st May, 2017.

This order shall come into force with immediate effect.

RANJAN SAHAI

Controller General Indian Bureau of Mines

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE, COOPERATION & FARMERS WELFARE)

(DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION)

Faridabad, the 16th March, 2018

No. A-19024/2/2011-A.—On attaining the age of superannuation, Shri R.C. MANDI, Chief Chemist, Directorate of Marketing & Inspection, Regional Agmark Laboratory, Mumbai has retired from Government service with effect from 28th February, 2018 (afternoon).

URAVASHEE KUMAR

Under Secy.

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

(OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES)

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s MAGANLAL MINERALS PRIVATE LIMITED, CIN U13209GA1970PTC000099.

Goa, the 8th January, 2018

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006024/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G46955332 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s MAGANLAL MINERALS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s RESORTE MARINHA DOURADA PRIVATE LIMITED, CIN U55204GA2013PTC007214.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006038/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G46959128 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s RESORTE MARINHA DOURADA PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s PRIMO BOM HOLIDAYS PRIVATE LIMITED, CIN U55101GA2013PTC007254.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006037/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G46959383 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s PRIMO BOM HOLIDAYS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

Registrar of Companies

VISHNU PANDURANG KATKAR

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s WADERS AERO SERVICES PRIVATE LIMITED, CIN U74210GA2012PTC007007.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006047/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G56789001 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s WADERS AERO SERVICES PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s TARA TOURISM AND HOTELS (GOA) PRIVATE LIMITED, CIN U55101GA2005PTC003977.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006035/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G40779456 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s TARA TOURISM AND HOTELS (GOA) PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s ROYAL RANI HOSPITALITY AND RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED, CIN U55101GA2010PTC006272.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006036/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G40781072 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s ROYAL RANI HOSPITALITY AND RESORTS INDIA PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s RANA MEDITATION AND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED, CIN U93000GA2012PTC006969 .

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006054/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G40825341 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s RANA MEDITATION AND HOLIDAYS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s PORGOA CONSTRUCTION HOSPITALITY AND TOURISM PRIVATE LIMITED, CIN U45309GA2016PTC012891.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006034/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G41194580 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s PORGOA CONSTRUCTION HOSPITALITY AND TOURISM PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s IIVS LIFESTYLE PRIVATE LIMITED, CIN U93090GA2016PTC012958.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006056/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G43530310 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s IIVS LIFESTYLE PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s SHADE NET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED, CIN U25202DD2015PTC004766.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006026/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G41074428 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s SHADE NET INDUSTRIES PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s BRENTFIELD TRAVELS COMPANY PRIVATE LIMITED, CIN U63040GA2004PTC003748.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006042/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G57205833 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s BRENTFIELD TRAVELS COMPANY PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s LIFESTYLE SPORTS PRIVATE LIMITED, CIN U92412GA2009PTC006168.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006053/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G41654146 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s LIFESTYLE SPORTS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s PATZSCHKE AND SCHARFENBERGER PRIVATE LIMITED, CIN U74300GA2013PTC007281.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006048/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G43610203 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s PATZSCHKE AND SCHARFENBERGER PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s INDIRABAI SADASHIV COUNTO MEMORIAL HOSPITAL LIMITED, CIN U85110GA2008PLC005700.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006052/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G41900879 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s INDIRABAI SADASHIV COUNTO MEMORIAL HOSPITAL LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s COSUL TRAVELS PRIVATE LIMITED, CIN U63040GA2003PTC003233.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006041/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G42100156 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s COSUL TRAVELS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s PHILIPPE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED, CIN U55209GA2008PTC005894.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006039/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G42177626 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s PHILIPPE RESTAURANTS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s CONCORDE PROMOTIONS PRIVATE LIMITED, CIN U74999GA1997PTC002427.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006049/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G47518006 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s CONCORDE PROMOTIONS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s SAIF NAUTICA PRIVATE LIMITED, CIN U28910GA2015 PTC007626.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006028/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G54600945 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s SAIF NAUTICA PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s PRINCIPLE ENERGIES PRIVATE LIMITED, CIN U40100GA2015PTC007771.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006032/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G44914299 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s PRINCIPLE ENERGIES PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s WASHOMAT FABRIC CLEANERS PRIVATE LIMITED, CIN U93000GA2013PTC007335.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006055/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G44803948 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s WASHOMAT FABRIC CLEANERS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s GROUP SIX HYDROFAST PRIVATE LIMITED, CIN U29120GA1994PTC001637.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006029/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G59503524 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s GROUP SIX HYDROFAST PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s KOSMOS GRANITE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED, CIN U26931DD1993PTC001315.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/006027/2017 dated 07.11.2017 application (Form STK 2) dated 07.11.2017 vide SRN G45271020 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s KOSMOS GRANITE AND EXPORTS PRIVATE LIMITED has this day of January been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR

Registrar of Companies

FORM NO. STK-6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016

Public Notice No. ROC/PAT/STK-2/S-248/1.—

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of :

Patna, the 9th February, 2018

Sl. No.	Name of the Company	CIN	SRN
1	RAM DEO RATAN CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200BR2011PTC017095	G53487393
2	KUNAL CLEANING & SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74900BR2013PTC020515	G57028953
3	SANSKAR KALAS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200BR2013PTC020843	G57608416
4	PETROFIRST ENERGY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U40109BR2013PTC019932	G57468027
5	GREEN AGRONOMIC FARM (INDIA) PRIVATE LIMITED	U01403BR2012PTC019143	G58972951
6	EARTH ESSENCE AGRO FARMS PRIVATE LIMITED	U01120BR2011PTC016954	G55508998
7	PATLIPUTRA BUILDCON PRIVATE LIMITED	U45400BR2011PTC016452	G50436724
8	AYURDA ARJIT MULTISERVICES PRIVATE LIMITED	U63040BR2009PTC014507	G52834447
9	SOLVESY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999BR2014PTC022992	G52883261
10	BESONDER ENERGY PRIVATE LIMITED	U29253BR2012PTC018533	G52952306
11	SKAND AGRI POWER PRIVATE LIMITED	U40108BR2010PTC015939	G52994365
12	ECO GREEN INFRATECH PRIVATE LIMITED	U26960BR2013PTC020020	G53041893
13	VINAY MARKETING PRIVATE LIMITED	U51109BR1988PTC003235	G53062865
14	COMBIT SOFTWARES PRIVATE LIMITED	U72300BR2014PTC022994	G56686199
15	PARAM WEBEEK PRIVATE LIMITED	U72300BR2014PTC022054	G57119687
16	MAA AMBIKA AWAAS PRIVATE LIMITED	U45200BR2008PTC013646	G60242336
17	ARCHE EDUCATION PRIVATE LIMITED	U72300BR2011PTC017068	G60361433
18	NEWEL MULTITRADE PRIVATE LIMITED	U52590BR2009PTC014585	G60085909
19	MERITOS EDUSERVE PRIVATE LIMITED	U80903BR2012PTC019320	G61306064
20	MAXOCHEM LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED	U74900BR2013PTC021739	G61669610
21	CHANAKYA ENGINEERING CLASSES PRIVATE LIMITED	U74140BR2015PTC023742	G48019624
22	KARTAVYA ENVIRONMENTAL SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U37200BR2015PTC024586	G61362687
23	MAA SHIVRATRI HOSPITAL PRIVATE LIMITED	U74900BR2014PTC023018	G63183719

24	ASHIANA BUSINESS ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U00367BR1999PTC008959	G61971248
25	MAG-PIE LABORATORIES PRIVATE LIMITED	U24230BR2004PTC010608	G61598942
26	RITU RAJ DREAM HOMES PRIVATE LIMITED	U45200BR2012PTC018424	G69265734
27	NARAYANI COURIER AND CARGO SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000BR2013PTC020131	G68669084
28	ACAM SALES AND SERVICES (INDIA) PRIVATE LIMITED	U74900BR2010PTC015860	G49349509
29	SUNMAX NIDHI LIMITED	U65920BR2015PLC024445	G49218027
30	MAGADH WAREHOUSING AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U74999BR2012PTC019702	G49182843
31	SIKSHA INFO CAREER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U80221BR2012PTC018227	G48947212
32	NIRVANA DINE PRIVATE LIMITED	U55101BR2011PTC017889	G48855449
33	CIMPLE SHOPPING FOODS PROCESSING PRIVATE LIMITED	U15122BR2014PTC022619	G48638977
34	CIMPLE SHOPING PRIVATE LIMITED	U52390BR2013PTC021253	G48638332
35	AAYISHA BIO FUELS PRIVATE LIMITED	U37100BR2014PTC022812	G48594501
36	URMAY STEEL CRAFT PRIVATE LIMITED	U28939BR2013PTC020510	G48141261
37	ENSOUL INFOTECH PRIVATE LIMITED	U72300BR2013PTC021123	G48002281
38	YUGANK STEELS PRIVATE LIMITED	U27101BR2004PTC010747	G47704531
39	SARVESVARA NIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200BR2014PTC021973	G47329636
40	SRIJAN GLOBAL AGRO PRIVATE LIMITED	U15311BR2014PTC023165	G47145396
41	BABA BASUKI NATH INFRA BUILDERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2010PTC015345	G47092853
42	COLOMORE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900BR2013PTC021169	G46884821
43	BETTER PREVENT HEALTH SERVICES PRIVATE LIMITED	U85100BR2015PTC024400	G46844205
44	MAA JAGDAMBEY ENGICON PRIVATE LIMITED	U45200BR2010PTC016027	G46689154
45	INDUSTRIAL PROJECTS AND MANAGEMENT CONSULTANCY PRIVATE LIMITED	U93000BR2012PTC018594	G46580189
46	MAA VINDHYAWASINI COLONIZERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2016PTC026043	G46575494
47	KUMAR CARE & HEALTH CENTRE PRIVATE LIMITED	U93000BR2014PTC021896	G46553962
48	KAD SOFTRENZ TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	U72900BR2013PTC020446	G46537767
49	RAG KRISHNA TRADERS PRIVATE LIMITED	U51909BR2009PTC014279	G45937232
50	SAMMRIDH ENTERPRISES PVT.LTD	U00357BR1992PTC004978	G45865755
51	LAXMI FOOD AND AGRO PRIVATE LIMITED	U74140BR2012PTC019121	G45703261
52	SWASTIK SUPPLIERS AND MARKETERS PRIVATE LIMITED	U60200BR2008PTC013760	G45671542
53	P.P.M. RELOCATION PRIVATE LIMITED	U74999BR2016PTC032300	G45484961
54	MANORITE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED	U45200BR2014PTC022734	G45409604
55	SEEMANCHAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2010PTC016137	G45291168
56	AUDAX PHARMACEUTICALS	U24230BR2003PTC010139	G45271228

	PRIVATE LIMITED		
57	JEEWIK VINYOG (INDIA)LIMITED	U00800BR1997PLC008014	G45258969
58	SUI GENERIS MEDIA PRIVATE LIMITED	U74900BR2010PTC016237	G45226263
59	RAVINDRA SHAILJA EDUCATION PRIVATE LIMITED	U80904BR2014PTC022626	G44926640
60	SHREE EGURUCOOL TUTORIAL PRIVATE LIMITED	U80903BR2007PTC012795	G44910321
61	SHINE SUITE CONSULTANT PRIVATE LIMITED	U80301BR2011PTC016497	G44902567
62	LAXMI NURSING HOME PRIVATE LIMITED	U85110BR1986PTC002488	G44788305
63	UNITECH AGROVET PRIVATE LIMITED	U15137BR2013PTC020471	G44743466
64	PADIA MINERALS PRIVATE LIMITED	U14200BR2011PTC017885	G44644482
65	ELEMENT GUESTLINE RESORTS PRIVATE LIMITED	U55101BR2010PTC016110	G44594406
66	PRIDE GRAIN AGRO MARKETING PRIVATE LIMITED	U74999BR2011PTC017015	G44312510
67	MAA TARACHANDI OVERSEAS PRIVATE LIMITED	U15400BR2013PTC021631	G44262095
68	TEKRIWAL PAINTS AND CHEMICALS PRIVATE LIMITED	U24297BR2009PTC014688	G44209328
69	UDHYAM VIHAR INDUSTRIAL INFRASTRUCTURE CORPORATION LIMITED	U70102BR2012PLC018893	G44096196
70	JAI SHREE VISHWAKARMA INFRA TECH PRIVATE LIMITED	U45200BR2011PTC017153	G44043834
71	EMERGING DYNAMIC MAINTENANCE AND INFRA SOLUTION PRIVATE LIMITED	U74140BR2014PTC022630	G44043479
72	RIDDHI DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2010PTC015193	G44040111
73	FUTURE FOREVER MARKETING PRIVATE LIMITED	U51909BR2013PTC019935	G43989722
74	ROYAL FRIENDS CONSTRUCTION AND SUPPLIERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2010PTC015681	G43894591
75	EDINA INCLUSIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74999BR2011PTC017765	G43872357
76	WELCOME CONSTRUCTIONS AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2009PTC014530	G43855394
77	FEDELE INFRA ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	U70102BR2012PTC019604	G43664440
78	SHIVRAM GEOSOPHY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U74140BR2015PTC023808	G43452929
79	NAVJEEVAN CLASSES PRIVATE LIMITED	U80903BR2016PTC026017	G43337393
80	LOTUS DREAM CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200BR2011PTC017290	G43280502
81	SHRISTI ONLINE GROWTH MARKETING PRIVATE LIMITED	U74140BR2008PTC014122	G43162254
82	GANGAFRESH FOODTECH PRIVATE LIMITED	U55209BR2016PTC032137	G43148576
83	JAISWAL HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U51397BR2007PTC012833	G43049881
84	KAVIRAJ REALTY PRIVATE LIMITED	U45200BR2011PTC017939	G42972562
85	AMBITIOUS INFORMATICS PRIVATE LIMITED	U74900BR2009PTC014837	G42692285
86	AMBITION PUBLICATIONS PRIVATE LIMITED	U22210BR2006PTC011895	G42494112

87	UPENDRA ROY INTELLIGENCE SECURITY SERVICES PRIVATE LIMITED	U93000BR2014PTC022329	G42383497
88	CHARLIE HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24230BR2003PTC010086	G42303685
89	BUDDHA DEVELOPERS AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45200BR2011PTC017252	G42186163
90	MEDNI SOFTTECH PRIVATE LIMITED	U80904BR2014PTC022971	G42169037
91	ARTHSIDDHI INFO COM PRIVATE LIMITED	U80904BR2014PTC021862	G42141275
92	SRI HARI RESIDENCY PRIVATE LIMITED	U70102BR2012PTC019674	G42090621
93	MAURYA COMPUTER AND MOBILE TRAINING INSTITUTE PRIVATE LIMITED	U93000BR2014PTC022472	G41835885
94	ASTIR SOFTWARE TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	U74140BR2010PTC015328	G41809427
95	IMPEX KOMPTSOFT (INDIA) PRIVATE LIMITED	U72100BR1991PTC004464	G41792110
96	TANDHAN INVESTMENTS PRIVATE LIMITED	U65922BR1994PTC005725	G41598681
97	SHIVA TECHNOCRATE PRIVATE LIMITED	U45200BR2006PTC012359	G41293176
98	SAPNA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U00500BR1998PTC008401	G41254244
99	BAILEY'S MALL AND MULTIPLEX PRIVATE LIMITED	U45209BR2006PTC012659	G41248204
100	ITCORE SERVICES PRIVATE LIMITED	U72300BR2007PTC012899	G41189101
101	VISHNUPRIYA AGROFOODS PRIVATE LIMITED	U15549BR2013PTC020856	G41035379
102	KHETRIWAL POLYPLAST PRIVATE LIMITED	U25200BR2013PTC019923	G40896763
103	SURYAVISION SALES PRIVATE LIMITED	U74900BR2012PTC019628	G40826828
104	SONA & BASANT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	U45200BR2007PTC013166	G40793374
105	AVA SOFTRONIX PRIVATE LIMITED	U72900BR2013PTC020895	G40746356
106	WINCH INFRATECH AND FARMING PRIVATE LIMITED	U45200BR2014PTC021975	G40731069
107	ANRLIFE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	U72300BR2015PTC023835	G50040658
108	DEVKRIPA REALCON & HOSPITALITY PRIVATE LIMITED	U74999BR2013PTC020069	G56089246
109	VASTU VIHAR FINAL TOUCH PRIVATE LIMITED	U74999BR2014PTC022116	G50463140
110	SUDAMA OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U15141BR1984PTC001992	G50662915
111	UNNATI REAL MARKETING BUSINESS PRIVATE LIMITED	U52590BR2012PTC018787	G50836451
112	KUMAR DEVELOPER AND CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U70109BR2013PTC020440	G51071421
113	KAMALIA AGRO INDUSTRIES PRIVATE LIMITED	U01403BR2014PTC023408	G51535946
114	AONE CITY CONSTRUCTION AND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	U45200BR2015PTC025548	G51933992
115	SCADA AGRO BUSINESS & INDUSTRIES COMPANY ARRAH LIMITED	U01111BR1993SGC005649	G52602356
116	SCADA AGRO FORESTRY COMPANY LIMITED	U01110BR1994SGC005668	G52602729
117	STERLING IT SOLUTION PRIVATE	U72300BR2014PTC021816	G71864524

	LIMITED		
118	SHREEM MEDILIFE PRIVATE LIMITED	U52310BR2012PTC018023	G70999347
119	VYOMIC PROJECTS PRIVATE LIMITED	U72900BR2012PTC019614	G70820451
120	ARANYA PROPERTIES PRIVATE LIMITED	U45200BR1998PTC008597	G70347125
121	OMIGLOBAL HITECHSERVICES PRIVATE LIMITED	U74999BR2016PTC031757	G70104997
122	SHOBHA HOMES PRIVATE LIMITED	U45200BR2013PTC020185	G69936409
123	APS RECOVERY SERVICES PRIVATE LIMITED	U65921BR2013PTC021118	G69806545
124	KAUTILYA BHUMI NIRMAN PRIVATE LIMITED	U45200BR2014PTC022527	G64240583
125	RAJ APEX CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	U45201BR2007PTC013016	G68104793
126	KHEMKA INFRATECH PRIVATE LIMITED	U70200BR2013PTC019804	G69645125
127	MAYA ECO INNOVATIONS PRIVATE LIMITED	U31100BR2016PTC025735	G72423585
128	THRILL FINANCE AND INVESTMENT LIMITED	U00800BR1996PLC007516	G70568498
129	MAA VINDHYAVASINI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	U24110BR2012PTC018910	G72471394
130	DREAMNET BROADBAND INDIA PRIVATE LIMITED	U72300BR2015PTC025029	G72493240
131	ASTER CRAFT TECH PRIVATE LIMITED	U52390BR2013PTC021443	G73045262
132	APNA GHAR CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	U45201BR2013PTC020861	G73294449
133	KNOXIA LIFECARE PRIVATE LIMITED	U51397BR2011PTC017579	G73068744
134	RAMGATI POLYMERS PRIVATE LIMITED	U25190BR2014PTC022657	G73255580
135	KHUDNESHWAR MAHADEV COLD STORAGE PRIVATE LIMITED	U01400BR2016PTC026029	G74087297
136	BUGLE CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED	U74999BR2016PTC026071	G74505595

- 1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under Section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company (ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/ their registration as companies and have, therefore, requested for removal/ strike off of its/ their names from the register of companies.
- 2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.
- 3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of the name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

HIMANSHU SHEKHAR

Registrar of Companies

FORM No. STK - 7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s TUSVEL SILKS PRIVATE LIMITED (OPC), CIN U17122GA2008OPC005776.

Goa, the 27th February, 2018

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/010217/2017 dated 17.01.2018 application (Form STK 2) dated 17.01.2018 vide SRN G71392013 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s TUSVEL SILKS PRIVATE LIMITED (OPC) has this day of February been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies

FORM No. STK - 7
NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference:

In the matter of Companies Act, 2013 and of M/s HARDIKA ELECTROMECH PRIVATE LIMITED, CIN U31904GA2015PTC007703.

This is with respect to this Office's Notice No. ROCGoa/248(2)/010193/2017 dated 17.01.2018 application (Form STK 2) dated 17.01.2018 vide SRN G69528354 and notice in form STK 5 issued on dated NA . Notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of M/s HARDIKA ELECTROMECH PRIVATE LIMITED has this day of February been struck off the register of companies and the said Company is dissolved.

VISHNU PANDURANG KATKAR
Registrar of Companies

OFFICE MEMORANDUM

In the matter of the Limited Liability Partnership Act, 2008 and of the following LLPs

Kolkata, the 12th March, 2018

No. ROC/WB/LLP-75/2014.—Notice is hereby given pursuant to under section 75 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 read with Rule 37 (3) of the LLP Rule, 2009 that the names of the following 10 LLPs have on this day been struck off from the Register and the LLPs are dissolved.

Sl. No.	LLPIN	Name of the LLP
1	AAC-3054	DOOARS EARTHMOVERS LLP
2	AAE-4348	HEAL EARTH HEALTH LLP
3	AAF-6660	KAAISER CHEMICAL AND MINERALS LLP
4	AAC-8786	PROENGAGER SOLUTION LLP
5	AAH-7395	SEEMANCHAL TRADERS LLP

6	AAD-1819	SIDDHIMAT TRADING LLP
7	AAE-0176	SPAN CHARTLINE LLP
8	AAC-7528	TEENLOK APPARTMENTS LLP
9	AAE-9180	TRUBUILD REALTORS LLP
10	AAF-6883	TURMILL TECHNOLOGIES LLP

SAURABH GAUTAM
Asstt. Registrar of Companies
West Bengal

“Form No. STK-6”

Public Notice

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of Section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules,

Public Notice No. ROC/JPR/STK-6/550

Reference

In the matter of Striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013, of the companies, whose names are mentioned in “Table-A”.

Jaipur, the 21st March, 2018

- 1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the mentioned companies (Table-A) under Section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company (ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/ their registration as companies and have, therefore, requested for removal/ strike off of its/ their names from the register of companies.
- 2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies (Table-A) from the Register of Companies.
- 3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of the name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

UTTAM SITARAM PATOLE

Registrar of Companies-Cum- Official Liquidator

Annexure “A”

List of companies who have requested to Struck off of their names from Registrar of Companies under Section 248(2) of the Companies Act, 2013.

Sl.no	CIN/LLPIN/FCRN	Company Name
1	U27107RJ1979PTC001906	AARTI STEELS PVT LTD
2	U72200RJ2009PTC028571	ABHISOFT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
3	U52190RJ2010PTC032051	ADDA RETAIL INDIA PRIVATE LIMITED
4	U45201RJ2012PTC041048	ADORNMENT INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
5	U72200RJ2011PTC036404	ADVANCED RELIABLE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
6	U74140RJ2013PTC042017	ADVIK CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
7	U74140RJ2012PTC039428	AEGIS RISK SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
8	U72900RJ2013PTC042211	AERIION IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
9	U45201RJ2013PLC041494	AFFORDABLE DEVELOPERS (INDIA) LIMITED
10	U74999RJ2016PTC056644	AIHIK BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

11	U72900RJ2008PTC027759	AISHWARYA INFOSOLUTION PRIVATE LIMITED
12	U26943RJ2012PTC038776	AKSHAYA COUNTRY CEMENTS PRIVATE LIMITED
13	U14107RJ2011PTC035588	AKSHAYA EXPLORATION PRIVATE LIMITED
14	U85110RJ2011PTC036455	AKSHAYA LIFE HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
15	U26943RJ2012PTC038777	ALLIANCE CEMENTS PRIVATE LIMITED
16	U41000RJ2013PTC043458	AMARNATH RO SYSTEMS & APPLIANCES PRIVATE LIMITED
17	U85110RJ2009PTC028949	AMPHORA LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
18	U72200RJ2015PTC047848	ANALYTICAL MEDICAL INSIGHT INDIA PRIVATE LIMITED
19	U17119RJ2011PTC034715	ANAY TEXTILE PRIVATE LIMITED
20	U60230RJ2013PTC041351	ANKIT CARGO PRIVATE LIMITED
21	U72900RJ2015PTC047082	ANSH INFONET PRIVATE LIMITED
22	U72900RJ2014PTC046773	ANUWING INFOTECH PRIVATE LIMITED
23	U52190RJ2003PTC018499	APH EXPO PRIVATE LIMITED
24	U24241RJ1974PTC001558	ARUN SABUN UDYOG PVT LTD
25	U21023RJ2013PTC043479	ASK PRIME PACKING INDIA PRIVATE LIMITED
26	U52609RJ2016PTC056230	ASPIRETECH ENGINEERS PRIVATE LIMITED
27	U72900RJ2013PTC042284	ASSERT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
28	U25209RJ2007PTC024415	ASTRON POLYTECH (INDIA) PRIVATE LIMITED
29	U74999RJ2016PTC056059	AVNISH VINAYAK MARKETING PRIVATE LIMITED
30	U01122RJ2010PTC030953	BAJORIA FARMS PRIVATE LIMITED
31	U72900RJ2013PTC043906	BGLIDE INFOMEDIA PRIVATE LIMITED
32	U50103RJ2006PTC022709	BHANDARI DIGGAJ ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
33	U50400RJ2005PTC020117	BHANDARI PETROLEUM PRIVATE LIMITED
34	U45201RJ2015PTC047607	BHAWARIYA INFRACON PROJECTS PRIVATE LIMITED
35	U72900RJ2014PTC045868	BKS SAP CONSULTING PRIVATE LIMITED
36	U52100RJ2013PTC042098	BLNR INDIA RETAIL PRIVATE LIMITED
37	U74900RJ2013PTC042994	BLUE STAR CORPORATION PRIVATE LIMITED
38	U51101RJ1982PTC002592	BOMBAY ENTERPRISES PVT LTD
39	U72900RJ2016PTC049274	CABBYGO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
40	U70101RJ2013PTC043417	CASTLE INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
41	U52190RJ2015PTC047493	CERTITUDE TECH RETAIL PRIVATE LIMITED
42	U72900RJ2015PTC048276	CHALK THAT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
43	U72900RJ2013PTC042036	CHAR BHUJA OUTSOURCING & SERVICES PRIVATE LIMITED
44	U55101RJ2007PTC023857	CHEELGADI HOTEL AND RESORTS PRIVATE LIMITED
45	U74999RJ2017PTC058324	CHOUTH MATA ROPEWAY PRIVATE LIMITED
46	U51397RJ2014PTC045550	CROXLEY OVERSEAS PRIVATE LIMITED
47	U72900RJ2014PTC045788	CUBASTION CONSULTING (INDIA) PRIVATE LIMITED
48	U45201RJ2011PTC035887	CUBE INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
49	U70101RJ2015PTC048367	CUSTOMER FORTUNE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
50	U72200RJ2000PLC016247	DATANET SOFTWARES LIMITED
51	U72200RJ2014PTC045762	DEVEARTH SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
52	U24100RJ2014PTC044996	DHANORIA PROJECTS PRIVATE LIMITED
53	U72900RJ2012PTC037821	DIGITAL SOFT MEDIA PRIVATE LIMITED
54	U45201RJ2014PTC045065	DOWNTOWN BUILDSTATE PRIVATE LIMITED
55	U45201RJ2015PTC047892	DSRC CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
56	U51101RJ1981PTC002187	DULLAR ENTERPRISES PVT LTD

57	U45201RJ2013PTC041275	DWARIKA BUILDHOME PRIVATE LIMITED
58	U80302RJ2013PTC043587	EDUCATORS INSTITUTE PRIVATE LIMITED
59	U74999RJ2016PTC056348	ELEMENTIX COUPONS PRIVATE LIMITED
60	U85110RJ2012PTC040158	ELITEOBJECTS HEALTHCARE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
61	U52190RJ2014PTC045889	ELOOKAT UP COMMERCE PRIVATE LIMITED
62	U45201RJ2013PTC043027	EMERALD COLONIZERS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
63	U40107RJ2015PLC047553	ENECON SOLAR POWER LIMITED
64	U41000RJ2011PTC037032	ENKAY WATER AND ENERGY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
65	U72900RJ2014PTC045339	EXPERTS BRAIN INFO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
66	U55101RJ2014PTC045566	FLORET PRIME ENTERPRISE PRIVATE LIMITED
67	U93000RJ2016PTC055026	FOOD DHAMAKA PRIVATE LIMITED
68	U55101RJ2005PTC020893	FORTH AVENUE HOTELS PRIVATE LIMITED
69	U74920RJ2015PTC048951	GARBLE PLACEMENT AND TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
70	U70101RJ2013PTC043774	GEEG RAJ CONSTRUCTION COMPANY PRIVATE LIMITED
71	U40104RJ2016PTC049309	GIRIRAJLAKSHMI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
72	U72900RJ2015PTC048501	GLOBALSHARP MINDS PRIVATE LIMITED
73	U18101RJ2013PTC041666	GLOBALTEX APPARELS PRIVATE LIMITED
74	U15139RJ2013PTC043801	GOKULWALAS FOODS PRIVATE LIMITED
75	U55101RJ2012PTC038060	GOLDEN VIEW RESORTS PRIVATE LIMITED
76	U45201RJ2013PTC041262	GOVIND KRIPA BUILDESTATE PRIVATE LIMITED
77	U45201RJ2014PTC045869	GRAND MARWAR TEXTILE PARK PRIVATE LIMITED
78	U24232RJ2010PTC030946	GREEN ARROW MINERALS PRIVATE LIMITED
79	U72200RJ2003PTC018824	GREENWICH INFOTECH PRIVATE LIMITED
80	U74930RJ2011PTC035255	HARBINGER FACILITY MANAGEMENT SERVICES PRIVATE LIMITED
81	U52190RJ2006PTC023524	HAREKRISHNA IMPEX PRIVATE LIMITED
82	U51109RJ2010PTC031532	HARIYAALI MERCANTILE PRIVATE LIMITED
83	U55101RJ2011PTC036457	HERITAGE EARTH HOTELS AND RESORTS PRIVATE LIMITED
84	U72300RJ1997PTC013648	HIRAN INFORMATION TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
85	U18101RJ2013PTC041442	HNB ASIA APPARELS PRIVATE LIMITED
86	U55101RJ2012PTC038884	HOTELS AND HOMES PRIVATE LIMITED
87	U67120RJ2013PTC041651	HST CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
88	U74300RJ2012PTC040276	IDEAL INNOVATION PRIVATE LIMITED
89	U55101RJ2005PTC020134	IDEX (CULTURAL TRAVELS) PRIVATE LIMITED
90	U80302RJ2014PTC044950	ILOVE ROBO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
91	U74140RJ2011PTC036746	INDUS INFRASTRUCTURE PROJECTS CERTIFICATION AGENCY PRIVATE L
92	U45201RJ2004PTC019646	INNOVATIVE BUILDCON PRIVATE LIMITED
93	U74900RJ2015PTC048199	INTERIO STREET PRIVATE LIMITED
94	U72900RJ2014PTC045250	INVERT EXPERT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
95	U74140RJ2013PTC043035	INVESTOGREATS GLOBAL PRIVATE LIMITED
96	U72200RJ2016PTC055498	IOTIFY TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
97	U14200RJ2013PTC042816	ISHKRIPA CREATION PRIVATE LIMITED
98	U51101RJ1991PTC005841	JAIPUR SALES PRIVATE LIMITED
99	U70101RJ2014PTC045337	JALAN SALES (INDIA) PRIVATE LIMITED
100	U01122RJ2012PTC038110	JAMNA AGROCHEM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
101	U70101RJ2013PTC044167	KAISHA LANDBASE PRIVATE LIMITED
102	U45201RJ2010PTC032817	KARNI MAHIMA PROPERTY DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

103	U52190RJ2006PTC023029	KESHAV EXIM PRIVATE LIMITED
104	U74999RJ2016PTC055006	KICHU DESIGN HOUSE PRIVATE LIMITED
105	U70101RJ2011PTC034072	KIRAN KRIPA REALMART PRIVATE LIMITED
106	U14107RJ2011PTC035678	KIRAN NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
107	U01100RJ2016PTC056473	KISAAN 2 KISAAN PRIVATE LIMITED
108	U29248RJ2011PTC036027	KRISHNA CUTTING MACHINERY TOOLS PRIVATE LIMITED
109	U74900RJ2014PTC046080	KUMUDINI GLOBAL SERVICES PRIVATE LIMITED
110	U74999RJ2016PTC055378	LIFCARE RETAIL AND HEALTH PRIVATE LIMITED
111	U70101RJ2013PTC042961	LIFE LINE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
112	U91110RJ2002PLC017729	LNJ BHILWARA TEXTILE ANUSANDHAN VIKAS KENDRA LIMITED
113	U72200RJ2013PTC041239	LP SOFTWARES PRIVATE LIMITED
114	U45201RJ2007PTC024153	MAADURGA BUILDMART PRIVATE LIMITED
115	U36111RJ1997PTC014109	MADHO BEHARI JEWELLERS PRIVATE LIMITED
116	U55101RJ2013PTC043632	MADHUVAN SKYLAND HOTELS PRIVATE LIMITED
117	U74140RJ2016OPC049040	MAHABHARAT ADVISORY AND RESEARCH PRIVATE LIMITED (OPC)
118	U15400RJ2010PTC032198	MAHAGANPATI FLOUR MILLS PRIVATE LIMITED
119	U67120RJ2011PTC034397	MAHALAXMI WEALTH CONSULTANT PRIVATE LIMITED
120	U14107RJ2011PTC035599	MAN EARTH MINERALS PRIVATE LIMITED
121	U74900RJ2016PTC049083	MAN FRIDAY SERVICES PRIVATE LIMITED
122	U72900RJ2014PTC044843	MANAGEMATRIXS CONSULTING PRIVATE LIMITED
123	U70101RJ2013PTC041665	MATESHRI ANUKAMPA COLONIZERS PRIVATE LIMITED
124	U85110RJ2011PTC035840	MAX SANJEEVANI HOSPITAL AND RESEARCH CENTER PRIVATE LIMITED
125	U01122RJ2011PTC035081	MAXGEN BIOSCIENCE PRIVATE LIMITED
126	U72900RJ2015PTC048437	MEDIAXOR TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
127	U45201RJ2004PTC018973	MEDKATE FUTURISTIC PRIVATE LIMITED
128	U24304RJ1993PTC007616	MITTAL SYNTHETICS PVT. LTD
129	U64202RJ2009PTC030456	MOBITEL TELELINK PRIVATE LIMITED
130	U14101RJ2007PTC025194	MOONDRA GRANIMARMO PRIVATE LIMITED
131	U74994RJ2005PTC021484	NAMAN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
132	U26940RJ2011PLC036931	NAWALGARH CEMENT COMPANY LIMITED
133	U63040RJ2015PTC047462	NEEMACH MATA ROPEWAY PRIVATE LIMITED
134	U36100RJ2013PTC044254	NEEMRANA INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
135	U51909RJ2012PTC038621	NEFERTARI TRADING PRIVATE LIMITED
136	U72900RJ2012PTC040516	NEOREX TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
137	U72900RJ2013PTC042242	NEW AGE E-SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
138	U15139RJ2012PTC040495	NEW SUPREME QUALITY FOOD PRODUCTS PRIVATE LIMITED
139	U70101RJ2012PTC039927	NH INFRA-PROPERTY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
140	U72900RJ2016PTC049084	NIMBLE STRATEGIES PRIVATE LIMITED
141	U14200RJ2014PTC045688	NUTAN MINES & MINERALS PRIVATE LIMITED
142	U74900RJ2013PTC043642	OM HARI HAR SERVICES PRIVATE LIMITED
143	U45201RJ2014PTC045216	OM KD BUILDMAT PRIVATE LIMITED
144	U72900RJ2013PTC041470	OMNIGENT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
145	U70100RJ2011PLC036032	OMSAIKRIPA INFRAVISION LIMITED
146	U51219RJ2011PTC036080	OPTIMUS SOCIUS EXIM PRIVATE LIMITED
147	U72900RJ2014PTC046204	ORDENADOR COMMUNICATION PRIVATE LIMITED
148	U22219RJ2008PTC026611	OUTDOOR NATIONAL ADVERTISING COMPANY PRIVATE LIMITED

149	U74999RJ2016PTC055728	OUTKART TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
150	U67200RJ2008PTC025889	PANASIA ASSIGNMENTS PRIVATE LIMITED
151	U45201RJ2012PTC040863	PANNA DREAMS BUILDTECH PRIVATE LIMITED
152	U45201RJ2013PTC042548	PLENUS BUSINESS GROUP PRIVATE LIMITED
153	U31103RJ2015PTC047209	POWERBAZZAR ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
154	U31909RJ2015PTC047282	PRABHU DHARA APPLIANCES PRIVATE LIMITED
155	U29220RJ2012PTC041144	PRERNASHREE ENGITOOLS PRIVATE LIMITED
156	U01122RJ2011PTC037009	PRIME FLOWER N FERNS PRIVATE LIMITED
157	U17290RJ2014PTC046443	PRIME SITARA AGENCIES PRIVATE LIMITED
158	U36911RJ2010PTC032264	PRIMUS JEWELS PRIVATE LIMITED
159	U25209RJ2013PTC041862	PUNYA POLYPLAST PRIVATE LIMITED
160	U74300RJ2011PTC036212	QUALWEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
161	U27101RJ1990PTC005597	R K FOUNDRY WORKS PVT LTD
162	U14102RJ2013PTC043651	RADHE KRIPA GRANITE PRIVATE LIMITED
163	U92190RJ2012PTC039102	RAJPUTANA3D DESIGNS PRIVATE LIMITED
164	U27109RJ2008PTC026754	RAJSHREE FORGINGS PRIVATE LIMITED
165	U52190RJ2006PTC022509	RAJSURYA MARKETING PRIVATE LIMITED
166	U45201RJ2013PTC041281	RAM KRIPA BUILDSTATE PRIVATE LIMITED
167	U40101RJ2012PTC038587	REEGEL GEN-ENERGY PRIVATE LIMITED
168	U63040RJ2009PTC028623	RELAX HOLIDAYS PRIVATE LIMITED
169	U72900RJ2012PTC038571	RICHMEDIA WEB SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
170	U45201RJ2014PTC046629	RIDHI SIDHI KRIPA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
171	U15209RJ2012PTC041165	RISHABH MILK PRODUCER COMPANY LIMITED
172	U70101RJ2011PTC034063	RISHI KRIPA REALMART PRIVATE LIMITED
173	U14200RJ2013PTC042428	RISING MINCHEMS PRIVATE LIMITED
174	U45201RJ1999PTC015504	RITU MEGH BUILDWELL PRIVATE LIMITED
175	U74999RJ2016PTC055583	RJV AND ASSOCIATES SERVICES PRIVATE LIMITED
176	U36911RJ2012PTC040336	ROCK CUT DIATOOLS PRIVATE LIMITED
177	U70101RJ2013PTC041604	ROOP RAJAT INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
178	U01400RJ1994PTC008267	ROSEBAY DAIRY RAILA PRIVATE LIMITED
179	U55101RJ2012PTC041101	ROSEVILLA RESORTS AND HOTELS PRIVATE LIMITED
180	U26943RJ2012PTC038798	ROYAL ONE CEMENTS PRIVATE LIMITED
181	U55100RJ2012PTC038785	ROYAL PALM GREEN RESORTS PRIVATE LIMITED
182	U45201RJ2010PTC032270	RUDRAKSH REALHOME PRIVATE LIMITED
183	U14299RJ2016PTC056024	S. B. MINING CHEMISTRY PRIVATE LIMITED
184	U26940RJ2011PTC035167	SAFARI CEMENTS PRIVATE LIMITED
185	U52190RJ2013PTC043548	SAIBA TRADEVISION PRIVATE LIMITED
186	U55101RJ2015PTC047051	SALASAR NATURE & RESORT PRIVATE LIMITED
187	U32204RJ2015PTC047007	SALASAR TELECOMMUNICATION PRIVATE LIMITED
188	U01122RJ2011PTC036175	SAMBHAV GREEN AGRO PARK PRIVATE LIMITED
189	U45209RJ2011PLC036534	SAMBHAV MEGA INDUSTRIAL PARK LIMITED
190	U55101RJ2012PTC038787	SAMBHAV ROYAL SUITS PRIVATE LIMITED
191	U70101RJ2011PTC036464	SAMBHAV UNIQUE REAL ESTATE PRIVATE LIMITED
192	U55101RJ2010PTC032470	SANCHETI PALACE HOTELS PRIVATE LIMITED
193	U14200RJ2012PTC038412	SANJOG MINES AND STEEL PRIVATE LIMITED
194	U45201RJ2012PTC037534	SARRAF BUILDPRO DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

195	U74999RJ2017PTC057424	SEARCHIYO PRIVATE LIMITED
196	U27107RJ2007PTC024744	SECURE STEELS PRIVATE LIMITED
197	U01119RJ2016PLC055904	SEORA ADVANTAGE LIMITED
198	U70101RJ1994PTC008297	SHAHI BROTHERS PRIVATE LIMITED
199	U45201RJ2014PTC045813	SHANTI ASSOCIATES INFRA SOLUTION PRIVATE LIMITED
200	U45201RJ2013PTC041997	SHARAN BUILDSTATE PRIVATE LIMITED
201	U14107RJ2011PTC035666	SHARDUL MINING AND EXPORTS PRIVATE LIMITED
202	U74900RJ2013PTC043679	SHINE PRO-SALE SERVICES PRIVATE LIMITED
203	U14107RJ2011PTC035689	SHITAL NATURAL RESOURCES PRIVATE LIMITED
204	U70101RJ2011PTC034382	SHREE BALAJI ASSETS MANAGEMENT COMPANY PRIVATE LIMITED
205	U45201RJ2006PTC023137	SHREE RAM HOMEMAKER PRIVATE LIMITED
206	U70101RJ2013PTC042978	SHREE RIDDHI SIDDHI SKYBUILDERS PRIVATE LIMITED
207	U25209RJ2012PTC038936	SHREE SHYAM CONVERTERS PRIVATE LIMITED
208	U36111RJ1997PTC013987	SHREYANS GEMS PRIVATE LIMITED
209	U17119RJ2008PTC027029	SHREYANS TEXCON PRIVATE LIMITED
210	U72200RJ2010PTC030981	SIDANA INFO SOFTWARE PRIVATE LIMITED
211	U72900RJ2015PTC048672	SIFTR LABS PRIVATE LIMITED
212	U72900RJ2015PTC048321	SILIRO SOFTECH PRIVATE LIMITED
213	U45209RJ2011PTC034876	SILORA TEXTILE CLUSTER PRIVATE LIMITED
214	U55101RJ2016PTC049119	SMARTT BREAK HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
215	U24117RJ1995PLC010150	SNEHRAJ PETRO-CHEM LTD
216	U25200RJ2009PTC028287	SONAGIRI POLYMERS PRIVATE LIMITED
217	U67120RJ2013PTC044312	ST VENTURES PRIVATE LIMITED
218	U50300RJ2006PTC022693	STAR AUTOLOUNGE PRIVATE LIMITED
219	U45201RJ2016PTC054756	STELLAR HITECH INFRA PRIVATE LIMITED
220	U72200RJ2003PTC018067	STONEX INFOTECH PRIVATE LIMITED
221	U92100RJ2013PTC044136	STUDIO7 INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
222	U27109RJ2011PTC034771	SUPER SHAKTI STEEL PRIVATE LIMITED
223	U85195RJ2010PTC032594	SURYANAGARI LIFECARE PRIVATE LIMITED
224	U18101RJ2008PTC027863	SUSUR CLOTHINGS PRIVATE LIMITED
225	U14107RJ2011PTC035671	SUVIDHI STONeworks PRIVATE LIMITED
226	U74140RJ2014OPC046543	SWASTIK GEO TECH (OPC) PRIVATE LIMITED
227	U52190RJ2009PTC029061	TASK CARES INDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
228	U40106RJ2015PTC048166	TECHNOTRON POWER AND HOSPI MED EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED
229	U14107RJ2011PTC035604	TEJAS EARTH MINERALS PRIVATE LIMITED
230	U33110RJ2015PTC048822	TEJKARAN MEDICARE PRIVATE LIMITED
231	U14219RJ2007PTC023779	TERRA NOVA MINING PRIVATE LIMITED
232	U17290RJ2011PTC036713	TESSUTO WEAVE PRIVATE LIMITED
233	U80302RJ2013PTC042128	THE GENESIS TECHNOSAVVY PRIVATE LIMITED
234	U36911RJ2013PTC042020	TILAK DHARI JEWELLERS PRIVATE LIMITED
235	U74900RJ2015PTC048022	TRIPLE EYE VENTURES PRIVATE LIMITED
236	U80302RJ2010PTC032955	TUTORPUNDIT EDUCATION SERVICES PRIVATE LIMITED
237	U80302RJ2011PTC036456	UDAIPUR LAKE SCHOOL PRIVATE LIMITED
238	U70101RJ2015PTC047907	UNITEDCITY DEVELOPERS & BUILDERS PRIVATE LIMITED
239	U14106RJ2008PTC027361	UNIZYP PLASTER BOARD PRIVATE LIMITED
240	U74900RJ2014PTC045728	UPSURGE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED

241	U52190RJ2013PTC042639	VANDIA MARKETING PRIVATE LIMITED
242	U32309RJ2014PTC045949	VIPIN MOBILE PRIVATE LIMITED
243	U72900RJ2012PTC038680	VTECH TRADE PRIVATE LIMITED
244	U72900RJ2011PTC037050	WEBSTROKES TECHNOLOGIES (INDIA) PRIVATE LIMITED
245	U70101RJ2015PTC048652	WELCOME TOWNSHIP DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
246	U52190RJ2010PTC030729	WILLWINS MARKETING PRIVATE LIMITED
247	U45201RJ2012PTC040578	YASHIKA GREEN DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

FORM No. STK-7

NOTICE OF STRIKING OFF AND DISSOLUTION

[Pursuant to sub-section (5) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 9 of the Companies

(Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Reference

In the matter of Companies Act 2013, notice is hereby published that pursuant to sub-section (5) of Section 248 of the Companies Act, 2013 the name of the following Companies has this day, been struck off the register of companies and the said Companies are dissolved.

Pune, the 22nd March, 2018

Sr. No.	CIN	Name of Company	SRN
1	U01122PN2013PTC149625	TAPASCHARYA AGRO FARMAS PRIVATE LIMITED	G68648674
2	U15122PN2015PTC157230	SILVER ICE BEVERAGES PRIVATE LIMITED	G69010932
3	U2211PN1998PTCO13107	INDCOM ASSOCIATES PRIVATE LIMITED	G46544797
4	U24232MH1979PTC021515	ULTRA PURE INFUSION PVT LTD	G70792445
5	U24236PN2010PTC135755	STERITEC BIOSCIENCES PRIVATE LIMITED	G68843416
6	U26939PN2013PTC146654	AURYA CRYSTAL PRIVATE LIMITED	G68074939
7	U29253PN2011PTC141474	PROLINE MACHINES PRIVATE LIMITED	G69997831
8	U29299PN2011PTC139676	VAISHNO DEVI INFRA EQUIPMENTS PRIVATE LIMITED	G46832184
9	U29309PN2016PTC167259	AAKAR ELECTROMECH DEVICES PRIVATE LIMITED	G68278308
10	U31401PN2007PTC169572	COOPER INDIA PRIVATE LIMITED	G63742597
11	U31402PN2014PTC153078	SUPERNOVA BATTERIES PRIVATE LIMITED	G60604204
12	U31909MH1984PTC033203	SPIN INSTRUMENT PVT LTD	G60522638
13	U41000PN2008PTC132175	WEX GLOBAL WATER ENGINEERING PRIVATE LIMITED	G60108560
14	U45200PN2011PLC138848	MAORI PRO-INFRASTRUCTURES LIMITED	G61257580
15	U45200PN2011PTC141733	MAXCARE INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED	G52221280
16	U45200PN2013PLC146207	SRM INFRA LANDMARKS PRIVATE LIMITED	G63018998
17	U45200PN2013PLC147504	NISHCHAY CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	G60473873
18	U45209PN2005PTC021613	BUILDAMN INDIA PRIVATE LIMITED	G513713667
19	U45400PN2014PTC150005	RAJVIMAL DEVELOPERS PRIVATE LIMITED	G60610862

20	U45400PN2014PTC150006	RAJVISHWA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED	G60612017
21	U45400PN2015FTC156494	P S KAKADE CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED	G60781176
22	U51909PN2002PTC129517	MINDTREE MARKETING PRIVATE LIMITED	G61195533
23	U51909PN2014PTC152599	HARABAZAR FOODS PRIVATE LIMITED	G60105483
24	U52599PN2011PTC141558	RMW ENGINEERS PRIVATE LIMITED	G44165975
25	U6010PN2016OPC165295	TRUCKTEK TRANSPORTATION SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED	G60069093
26	U719PN2008PTC132139	RIDDHI FINANCIAL CONSULTANTS PRIVATE LIMITED	G62644232
27	U70102PN2016PTC157926	ADVENTUS REALTY PRIVATE LIMITED	G45988946
28	U70109PN2015PTC156231	DIVINE SPHERE BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G59766949
29	U72200PN2008PTC131937	KAYA SOFTWARE PRIVATE LIMITED	G70270210
30	U72200PN2008PTC132291	SUMERU INFOSYSTEM PRIVATE LIMITED	G46783338
31	U72200PN2013PTC148996	SAHYADRI GLOBAL SERVICES SOLUTION PRIVATE LIMITED	G61154308
32	U72200PN2016PTC166075	APPRECIATE IT AND TECHNICAL EDUCATION PRIVATE LIMITED	G64078124
33	U72300PN2015PTC156817	MOUNTINNOVATE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G65465346
34	U72900PN2010PTC137814	CUPERTEK SYSTEMS INDIA PRIVATE LIMITED	G62416318
35	U72900PN2010PTC149754	VIGOURSOFTEK SYSTEMS PRIVATE LIMITED	G59730887
36	U72900PN2015PTC156870	3 DIMENSIONAL SCANNING TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G61056032
37	U72900PN2015PTC157555	LERNEXUS TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED	G56971583
38	U72900PN2016PTC158303	LYCONE SOFTWARE PRIVATE LIMITED	G68750083
39	U72900PN2016PTC158551	WEBONISE PACIFIC IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED	G59705111
40	U7421PN2006PTC128978	NIKIN MACH-TECHMS PRIVATE LIMITED	G56773088
41	U74900PN2011PTC141735	MAXCARE MEDIA & ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	G52223278
42	U74900PN2012PTC142845	MAXCARE ORNAMENTS PRIVATE LIMITED	G52225869
43	U74900PN2013PTC148664	PRATHMESH QUALITY MACHINING PRIVATE LIMITED	G60579042
44	U74900PN2013PTC149878	CHAYTON TRANSOL PRIVATE LIMITED	G68835875
45	U74900PN2014PTC150149	CEREBRO HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	G59522219
46	U74900PN2014PTC153527	TUSKS FACILITIES PRIVATE LIMITED	G59788091
47	U74900PN2014PTC150149	SKYCONNECT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED (OPC)	G60741378
48	U74900PN2015PTC155474	SWAYAMBHU LIFECARE PRIVATE LIMITED (OPC)	G70629449
49	U74900PN2015PTC155733	VELVET ENTERPRISE PRIVATE LIMITED	G62103916
50	U74990PN2009FTC1535213	LIONGATE CAPITAL MANAGEMENT (INDIA) PRIVATE LIMITED (OPC)	G63283485
51	U749920PN2008PTC131337	SHRI-VARDHAN CONSULTING PRIVATE LIMITED	G54156476
52	U74997PN2016OPC166974	MIRUDNYA SERVICE(OPC) PRIVATE LIMITED	G62104237
53	U74999PN2008PTC132961	GLOBAL BUSINESS OPPORTUNITY SERVICES PRIVATE LIMITED	G68935386

54	U74999PN2013PTC149137	TRANSITION EDUCATION HUB PRIVATE LIMITED	G69045045
55	U74999PN2014PTC152564	NECESS GRAPHICS PRIVATE LIMITED	G63637029
56	U74999PN2016FTC165404	PFENEX INDIA DEVELOPMENT PRIVATE LIMITED	G70199278
57	U74999PN2016PTC158081	BIGRIBBON TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G51869543
58	U74999PN2016PTC164300	VIDYOTAYATI INDIA PRIVATE LIMITED	G67706556
59	U74999PN2016PTC164742	DIGITALLY INSIGHTS PRIVATE LIMITED	G56973845
60	U74999PN2016PTC165101	AMEN ADVISORY SERVICE PRIVATE LIMITED	G61923066
61	U74999PN2016PTC165122	WHITELOGIC TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED	G57383036
62	U74999PN2016PTC165746	INTELIARC PRIVATE LIMITED	G51971505
63	U80301PN2012PTC144400	EDUVISTA LEARNING PRIVATE LIMITED	G51720100
64	U85100PN2011PTC139802	CHAUDHARI HEALTHCARE PRIVATE LIMITED	G65626731
65	U85100PN2014PTC152976	HARSH & SUN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED	G68969013
66	U92412PN2014PTC150628	VISIONBYTES ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED	G61133104
67	U93090PN2017PTC167820	ADBHANGANTH GLOBAL MULTI SERVICES PRIVATE LIMITED	G61212700
68	U99999PN1996PTC097938	SANDISH SALES PRIVATE LIMITED	G70246947

P.S. KHADE

Asstt. Registrar of Companies

NOTICE

No.LC/248(1)/

Kanpur, the 22nd March, 2018

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the Companies (the list of companies enclosed herewith) under Section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name(s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company (ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/ their registration as companies and have, therefore, requested for removal/ strike off of its/ their names from the register of companies.

Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

Any person objecting to the proposed removal or striking off of the name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

PUNEET KUMAR DUGGAL

Registrar of Companies

S.No.	CIN/LLPIN/FCRN	Company Name
1.	U24232UP2006PTC031452	SRK PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
2.	U24231UP2001PTC026045	ODD HERBALS PRIVATE LIMITED
3.	U24121UP1981PTC005217	PEOPLES CHEMICALS AND FERTILIZERS PRIVATE LIMITED

4.	U24115UP1993PTC015441	ANAL CHEM PRIVATE LIMITED
5.	U24111UP2016PTC083820	YAJAT SYNERGY PRIVATE LIMITED
6.	U23203UP2016PTC076269	MOUNT OIL LUBRICANTS PRIVATE LIMITED
7.	U23101UP2010PTC040239	USG POLYMERCHANTS PRIVATE LIMITED
8.	U22222UP2016PTC076794	SURUCHI MEDIA RESEARCH & PUBLICITY PRIVATE LIMITED
9.	U22222UP2015PTC073051	SONA CHANDI PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
10.	U22222UP2013PTC058945	GLOBALOCEAN PRODUCTIONS PRIVATE LIMITED
11.	U22219UP2016OPC087856	PRABUDH MEDIA (OPC) PRIVATE LIMITED
12.	U22219UP1988PTC009782	NAG POLY POUCHES PRIVATE LIMITED
13.	U21014UP1981PTC005188	TIKMANI PACKAGINGS PRIVATE LIMITED
14.	U21012UP1996PTC020559	KAMAYANI ESTATES PRIVATE LIMITED
15.	U19115UP2014PTC065518	INVENTIVE FASHIONS PRIVATE LIMITED
16.	U18204UP2014PTC065729	DUCKTALES MANUFACTURERS AND TRADERS PRIVATE LIMITED
17.	U17290UP2013PTC061401	ASL FASHION PRIVATE LIMITED
18.	U17210UP2007PTC033367	KAMADGIRI FABRICS PRIVATE LIMITED
19.	U17200UP2014PTC062114	BARABANKI INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
20.	U15400UP2014PTC062647	AGBRO SPICES PRIVATE LIMITED
21.	U15319UP2016OPC084689	PHOODPHOOD E-SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
22.	U15142UP1985PTC007529	PREMA OIL INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
23.	U15134UP1991PTC013663	FARRUKHABAD COLD STORAGE AND ALLIED INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
24.	U15133UP1990PTC011686	KAMALGANJ COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
25.	U15122UP2016PTC076014	SFURTI AGRO FOODS & BEVERAGES PRIVATE LIMITED
26.	U15122UP2015PTC071269	GYAN ICE AND COLD STORAGE PRIVATE LIMITED
27.	U15122UP2015PTC070229	APLEX PROBIOTIC FOOD PRIVATE LIMITED
28.	U15122UP2015PTC070096	MAHIYASH FOODS PRIVATE LIMITED
29.	U15122UP2015PTC070085	YUMTUM HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
30.	U15122UP2015PTC069794	EATPURE SPICES PRIVATE LIMITED
31.	U15122UP2015PTC069519	MADHU MASALA PRIVATE LIMITED
32.	U15122UP2014PTC067614	TWO HANDS EXPORTS PRIVATE LIMITED
33.	U15122UP2013PTC058966	AAROGYA FOODS PRIVATE LIMITED
34.	U15122UP2013PTC057175	KRISHKARN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
35.	U15122UP2012PTC051146	FURITSFED PRODUCTS PRIVATE LIMITED
36.	U13203UP2011PTC043557	MOGOKRIM RESOURCES PRIVATE LIMITED
37.	U11100UP2015FTC070806	TUTKOVSKY PROJECTS INDIA PRIVATE LIMITED
38.	U01407UP2014PTC063629	HARAR AGRIFARM PRIVATE LIMITED
39.	U01403UP2013PLC056198	OASISEARTH AGRO & FOOD INDIA LIMITED
40.	U01403UP2012PTC053454	ABDUL AGRICULTURIST PRIVATE LIMITED
41.	U45400UP2012PTC052087	PMG CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
42.	U45400UP2012PTC051557	ROHIT INFRATECH PRIVATE LIMITED
43.	U45400UP2012PTC051526	NIRMAL REALTECH PRIVATE LIMITED
44.	U45400UP2012PTC051043	JAI VIDYA INFRATECH PRIVATE LIMITED
45.	U45400UP2012PTC049657	EDIFICE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
46.	U45400UP2012PLC053172	SANGAMDHARA INFRAESTATE LIMITED
47.	U45400UP2012PLC048999	SWAR INDIA REAL ESTATES LIMITED
48.	U45400UP2011PTC045835	S. SHANTI INFRAHOMES PRIVATE LIMITED

49.	U45400UP2011PTC043142	S F S INFRATECH PRIVATE LIMITED
50.	U45400UP2008PTC035921	OORJA REALTORS PRIVATE LIMITED
51.	U45309UP2017PTC091093	SHIVAYA STRUCTURALS PRIVATE LIMITED
52.	U45309UP2016PTC082937	TPG HOMES PRIVATE LIMITED
53.	U45309UP2016PTC082650	MK LANDMARK PRIVATE LIMITED
54.	U45202UP2014PTC063340	S R M DWELLING PRIVATE LIMITED
55.	U45202UP1994PTC016595	GEE GEE BUILDERS PRIVATE LIMITED
56.	U45201UP2014PTC062362	VAMIKA CONSTRUCTIONS PRIVATE LIMITED
57.	U45201UP2005PTC029754	MAHESH NIRMAN PRIVATE LIMITED
58.	U45200UP2007PTC032881	PRERNA NIRMAN PRIVATE LIMITED
59.	U45200UP2007PTC032846	SAV CONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
60.	U33112UP1986PTC008126	LEELAMANI MEMORIAL HOSPITALS PRIVATE LIMITED
61.	U33110UP2014PTC062524	SENSUS MEDI PRODUCTS PRIVATE LIMITED
62.	U32204UP2015PTC068281	EKON RFID PRIVATE LIMITED
63.	U32109UP2011PTC044316	VERVE SEMICONDUCTOR DESIGNS PRIVATE LIMITED
64.	U31402UP2016FTC085505	FENGYUN ADVANCED BATTERY INDIA PRIVATE LIMITED
65.	U31100UP2016PTC083213	ECHOCRESTRONICS PRIVATE LIMITED
66.	U30007UP1998PTC023463	ABHISHEK INFOCOM PRIVATE LIMITED
67.	U29302UP1987PTC009206	I A G GASES PRIVATE LIMITED
68.	U29253UP2015PTC070004	AB ROBOTICS PRIVATE LIMITED
69.	U29236UP1997PTC022404	SHRI INDUSTRIES AND ENGG. WORKS PRIVATE LIMITED
70.	U27310UP2015PTC072141	ADORABLE METALS PRIVATE LIMITED
71.	U27310UP2015PTC072045	MENTOR METALS PRIVATE LIMITED
72.	U27310UP2012PTC053990	NUGEN METALS PRIVATE LIMITED
73.	U27100UP2013PTC061229	MODRANY POWER & PTC PIPING SYSTEMS PRIVATE LIMITED
74.	U26956UP1985PTC006997	LUCKNOW CEMENT CRAFTS PRIVATE LIMITED.
75.	U25201UP1994PTC016527	HYCO PLASTWARES PRIVATE LIMITED
76.	U24304UP2016PTC084173	A.S. LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
77.	U24297UP1998PTC023510	KESHARWANI ENTERPRISES PRIVATE LIMITED
78.	U24249UP1987PTC009129	PARUL LIVESTOCK AND AGRI PRIVATE LIMITED
79.	U24233UP2012PTC050993	JAGRAM INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
80.	U24233UP2011PTC047274	SWASTIK AGRO-SCIENCE PRIVATE LIMITED
81.	U55209UP2017PTC089592	OPTIMON FOOD SERVICES PRIVATE LIMITED
82.	U55204UP2016PTC076618	CAFE CREATIONS PRIVATE LIMITED
83.	U55204UP2013PTC059134	LAXMINARAIN INN PRIVATE LIMITED
84.	U55204UP2013PTC058030	MORMUKUT LEISURE PRIVATE LIMITED
85.	U55101UP2014PTC062366	AGASTYA HOSPITALITY SERVICES PRIVATE LIMITED
86.	U55101UP1998PTC023162	AARVAK HOTELS PRIVATE LIMITED
87.	U52609UP2017PTC090204	KANPUR THERMOFORMING PRIVATE LIMITED
88.	U52609UP2016PTC088362	KORANGA MARKETING PRIVATE LIMITED
89.	U52500UP2016PTC084234	VISGOP SHOPPERS PRIVATE LIMITED
90.	U52399UP2013PTC060399	CAPRICORN CHEMICALS PRIVATE LIMITED
91.	U52100UP2015PTC071686	KINGSMAN TRADING PRIVATE LIMITED
92.	U52100UP2015PTC070625	PUSHPA INTEGRATED SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
93.	U52100UP2015PTC068415	SHREEJI RETAIL GURU PRIVATE LIMITED
94.	U52100UP2015PTC068179	OCEAN BLOOM TRADERS PRIVATE LIMITED

95.	U52100UP2014PTC064718	FAAGG ONLINE MARKETING PRIVATE LIMITED
96.	U52100UP2013PTC058821	TREGZEAL COMMERCE PRIVATE LIMITED
97.	U52100UP2011PTC045420	SHREE NATH JI GOLD TRADING PRIVATE LIMITED
98.	U51909UP2017PTC090687	CHHABRA ENDEAVOURS PRIVATE LIMITED
99.	U51311UP2010PTC052046	HEART TOUCH APPAREL PRIVATE LIMITED
100.	U51311UP1996PTC021111	SHREE NAGAJI EXPORTS PRIVATE LIMITED
101.	U51101UP2016PTC076915	KRISHNDEO AGRIBIOTECH PRIVATE LIMITED
102.	U51101UP2015PTC072975	WE CAN WIN TRADERS PRIVATE LIMITED
103.	U51101UP2015PTC068484	BLUE SEAS TRADING PRIVATE LIMITED
104.	U51101UP2012PTC053680	EON PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
105.	U51101UP2012PTC051519	VEG EDIBLES PRIVATE LIMITED
106.	U51101UP2009PTC038812	BRIJ TRADING COMPANY PRIVATE LIMITED
107.	U45500UP2016PTC086099	BAJRANGSHAKTI ESTATE INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
108.	U45400UP2016PTC077549	ORIONGALAXY INFRA PRIVATE LIMITED
109.	U45400UP2016PTC077309	MAHESH CHAND CONTRACTORS PRIVATE LIMITED
110.	U45400UP2016PTC075773	SHRI MAHESHWARAM INFRAPROJECTS PRIVATE LIMITED
111.	U45400UP2015PTC072918	LAKHAN LAL GUPTA INFRATECH PRIVATE LIMITED
112.	U45400UP2015PTC069560	HARIDARSHAN INFRACITY PRIVATE LIMITED
113.	U45400UP2015PTC069311	DHEVIK INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED
114.	U45400UP2014PTC065373	SHRI BAJRANGBALI INFRAHIEGHT PRIVATE LIMITED
115.	U45400UP2014PLC066458	FUTURISTIC BUILDCON INDIA LIMITED
116.	U45400UP2013PTC056476	SINGLE INFRABUILD PRIVATE LIMITED
117.	U45400UP2013PTC054813	FEDERAL REALTY PRIVATE LIMITED
118.	U45400UP2013PLC056566	SR TECHNOPROJECTS LIMITED
119.	U45400UP2012PTC054332	NSR INFRAESTATE PRIVATE LIMITED
120.	U45400UP2012PTC052354	AHINSA INFRATECH PRIVATE LIMITED
121.	U70102UP2013PLC060424	DIVYA GYAN INFRA TECH LIMITED
122.	U70102UP2013PLC058716	IDEALLIFE CORPORATION INDIA LIMITED
123.	U70102UP2013PLC058250	SARDAR INFRADEVELOPERS INDIA LIMITED
124.	U70102UP2013PLC054887	RVF INDUSTRIES LIMITED
125.	U70102UP2012PTC054107	ASPIRANTS INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED
126.	U70102UP2012PTC052827	MOTHERLAND ASSOCIATES PRIVATE LIMITED
127.	U70102UP2012PTC050184	SINGH & CO.PROMOTER & REALTORS PRIVATE LIMITED
128.	U70102UP2012PTC050176	WINDSOR DEVELOPWEL PRIVATE LIMITED
129.	U70102UP2012PTC050124	VIHAN BUILDWELL PRIVATE LIMITED
130.	U70102UP2011PTC047499	SHAKTI ECONOMIC DEVELOPMENT SYSTEMS PRIVATE LIMITED
131.	U70102UP2010PTC042728	FRIENDS INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
132.	U70102UP2010PTC040820	SURYA INFRACONSTRUCTION PRIVATE LIMITED
133.	U70101UP2006SGC032426	S.R. NIRMAN PRIVATE LIMITED
134.	U70100UP2014PTC065257	RRD INFRAPROMOTERS PRIVATE LIMITED
135.	U70100UP2014PTC064450	SHERE BUILDERS PRIVATE LIMITED
136.	U70100UP2014PTC063788	MSG REALTORS PRIVATE LIMITED
137.	U70100UP2014PTC063527	UJALA INFRACON PRIVATE LIMITED
138.	U70100UP2014PTC063517	UJALA ESTATE MART PRIVATE LIMITED
139.	U70100UP2014PTC061794	ROCKLANE INFRASTRUCTURES PRIVATE LIMITED
140.	U70100UP2014PLC062810	MAAVINDHYAVASINI LAND DEVELOPERS PRIVATE PUBLIC LIMITED

141.	U70100UP2013PTC061539	DEVKRIPA PLANNERS AND BUILDERS PRIVATE LIMITED
142.	U70100UP2013PTC061296	SILVER LEAF BUILDCON PRIVATE LIMITED
143.	U70100UP2013PTC061190	RIANT BUILDWELL PRIVATE LIMITED
144.	U70100UP2013PTC061004	MUKAND MADHAV BUILDTECH PRIVATE LIMITED
145.	U67200UP2013PLC061651	HOPE BENEFIT FUND LIMITED
146.	U65999UP2017PLC092163	INTEGRALIFE NIDHI LIMITED
147.	U65999UP2016PLC085297	REALJEEVAN NIDHI LIMITED
148.	U65991UP2014PLC065479	RUDRA MUTUAL BENEFITS NIDHI LIMITED
149.	U65991UP2013PLC061454	ANGELINDIA MUTUAL BENEFIT LIMITED
150.	U65991UP1997PLC021808	SHAIL SUTA MUTUAL BENEFIT LIMITED
151.	U65923UP2015PLC068666	HEAVENGREEN MUTUAL BENEFITS INDIA NIDHI LIMITED
152.	U65923UP2015PLC068487	MAA MANSA MUTUAL BENEFIT NIDHI LIMITED
153.	U65923UP2014PLC067481	HERITAGE INDIA NIDHI LIMITED
154.	U65923UP2014PLC064842	MRPGROWTH MUTUAL BENEFIT NIDHI LIMITED
155.	U65923UP2011PTC046389	WEALTHWAGON COMMODITIES PRIVATE LIMITED
156.	U65923UP2011PTC044818	WEALTHWAGON FINANCIAL SERVICES PRIVATE LIMITED
157.	U64204UP2014PTC067623	KK INFO SERVICES PRIVATE LIMITED
158.	U64203UP2013PTC060809	DREAMXTREME SHINE SERVICES INDIA PRIVATE LIMITED
159.	U63090UP2011PTC044897	TRANS CORAL SHIPPING PRIVATE LIMITED
160.	U60200UP2009PTC038295	VISHAL MOVERS AND PACKERS PRIVATE LIMITED
161.	U72300UP2015PTC073680	LIMITLESS MOBILITY SERVICES PRIVATE LIMITED
162.	U72300UP2015PTC073568	RAMASYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
163.	U72300UP2015PTC072833	EXCELLATRIUM ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
164.	U72300UP2015PTC068851	SKANBOX WEB TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
165.	U72300UP2015PTC068763	MERAKI TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
166.	U72300UP2015PTC068170	TECNEER SOLUTIONS AND SERVICES PRIVATE LIMITED
167.	U72300UP2014PTC067311	PHILSAPHER SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
168.	U72300UP2013PTC058942	EPIKASSO TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
169.	U72300UP2012PTC053278	TRINETRA ONLINE SERVICES PRIVATE LIMITED
170.	U72300UP2012PTC052702	BHU ITSOLUTIONS PRIVATE LIMITED
171.	U72300UP2011PTC048013	AMBITION INFOSOFTECH PRIVATE LIMITED
172.	U72300UP2011PTC047506	VAGWA TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
173.	U72300UP2011PTC045080	COBBOC PRIVATE LIMITED
174.	U72300UP2010PTC043000	COHERENT INFOSOLUTION PRIVATE LIMITED
175.	U72300UP2010PTC042421	GNK ADVISORS PRIVATE LIMITED
176.	U72200UP2014PTC064714	MONEYMAX SOFTWARE PRIVATE LIMITED
177.	U72200UP2007PTC033691	OVAASOFT TECHNOLOGY PRIVATE LIMITED
178.	U72200UP2006PTC032366	EMBUSTECH SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
179.	U71101UP1982PTC005879	G P DALAL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
180.	U70109UP2016PTC088407	SSPS INFRASTRUCTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
181.	U70109UP2014PTC061867	DREAMFIELDS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
182.	U70102UP2016PTC076428	MAA KAILA DEVI INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
183.	U70102UP2015PTC074222	SATNAM INFRATECH PRIVATE LIMITED
184.	U70102UP2015PTC073226	CITYLIFE COLONIZERS PRIVATE LIMITED
185.	U70102UP2015PTC072690	SHREEKANTH INFRABULLS PRIVATE LIMITED
186.	U70102UP2015PTC071132	ANTT INFRA TECH & DEVELOPERS PRIVATE LIMITED

187.	U70102UP2015PTC070021	LN PROP CAFE INDIA PRIVATE LIMITED
188.	U70102UP2015PTC069414	GLOWINGCITY INFRAPROJECT PRIVATE LIMITED
189.	U70102UP2015PLC070023	MAXMERRY INFRA CONSULTANCY LIMITED
190.	U70102UP2014PTC067016	GOPROC SERVICES PRIVATE LIMITED
191.	U70102UP2014PTC066817	MAA KAILA INFRAVENTURE DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
192.	U70102UP2014PTC066799	MAA KAILA INFRA LAND DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
193.	U70102UP2014PTC065307	AVENUE INFRADEVELOPERS PRIVATE LIMITED
194.	U70102UP2014PLC065685	SAI DEEP BUILD EXPERT LIMITED
195.	U70102UP2013PTC058783	SDS BUILD CON PRIVATE LIMITED
196.	U70102UP2013PTC058630	RESICOM INFRA PRIVATE LIMITED
197.	U70102UP2013PTC056188	UPRIGHT BUILDTECH PRIVATE LIMITED
198.	U70102UP2013PTC055639	ANAS INFRA HEIGHTS PRIVATE LIMITED
199.	U70102UP2013PTC055029	RRS INFRA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
200.	U70102UP2013PTC054664	HRVS DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
201.	U74120UP2015OPC074154	UPENDRA POWER MULTITRADE INDUSTRIES PRIVATE LIMITED (OPC)
202.	U74120UP2014PTC067620	EXCEL TECHNO SERVICES PRIVATE LIMITED
203.	U74120UP2014PTC067564	OMARV BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
204.	U74120UP2014PTC067410	DEPECHE TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
205.	U74120UP2014PTC066695	GARIMASINGH EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
206.	U74120UP2014PTC066506	STARTA WELLNESS PRIVATE LIMITED
207.	U74120UP2014PTC065133	MOHIT CREATIONS PRIVATE LIMITED
208.	U74120UP2014PLC067265	VINAY VISION AGROTECH INDIA LIMITED
209.	U74120UP2013PTC058990	RNV INFOTECH SERVICES PRIVATE LIMITED
210.	U74120UP2013PTC058264	STYLE99 INTERNATIONAL PRIVATE LIMITED
211.	U74120UP2013PTC058078	PARASAR FARMING PRIVATE LIMITED
212.	U74120UP2013PTC057137	PROGEN BREEDING SERVICES PRIVATE LIMITED
213.	U74120UP2013PTC056974	UPKAR MEDICAL & RESEARCH CENTRE PRIVATE LIMITED
214.	U74120UP2013PTC056717	ELBURZ SOLUTIONS INDIA PRIVATE LIMITED
215.	U74120UP2013PTC056274	DHANOCEAN JEWELS PRIVATE LIMITED
216.	U74120UP2012PTC054157	IPC PEST CONTROL PRIVATE LIMITED
217.	U74120UP2012PTC053402	ABHITI MOTORS PRIVATE LIMITED
218.	U74120UP2012PTC052919	APPZPORT PRIVATE LIMITED
219.	U74120UP2012PTC051066	BRIDGE MED CARE PRIVATE LIMITED
220.	U74120UP2012PTC050668	SRM GLOBAL SECURITIES PRIVATE LIMITED
221.	U74120UP2012PTC049831	MIROZO DATA LOGISTICS PRIVATE LIMITED
222.	U74120UP2012PTC049057	SVS ASSET RECOVERY AND RECONCILIATION COMPANY PRIVATE LIMITED
223.	U74120UP2012PTC048584	BAM TECSERVE PRIVATE LIMITED
224.	U74120UP2012PTC048324	LORD KRISHNA INFRA PROMOTERS PRIVATE LIMITED
225.	U74120UP2011PTC047618	AGL TYRES PRIVATE LIMITED
226.	U74120UP2011PTC047275	CORAL ENGINEERING & CONTRACTING PRIVATE LIMITED
227.	U74120UP2011PTC047198	ESTHER JOY STUDIO ARTS AND TRAINING SERVICES PRIVATE LIMITED
228.	U74120UP2011PTC044446	NEON LIFE SCIENCES PRIVATE LIMITED
229.	U72900UP2016PTC075918	IMPAVIDUS ONLINE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
230.	U72900UP2016OPC084793	ENEBSYS TECHNOLOGIES (OPC) PRIVATE LIMITED
231.	U72900UP2014PTC063458	JKM INFOSYSTEMS PRIVATE LIMITED

232.	U72900UP2014PTC063114	ALEXIS IT CONSULTING PRIVATE LIMITED
233.	U72900UP2013PTC061512	TECHTIP INNOVATIVE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
234.	U72900UP2013PTC060552	TRINUAL SOFTWARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
235.	U72900UP2003PTC028140	BEYOND SOFTECH PRIVATE LIMITED
236.	U72900UP2000PTC025681	LOGIN ONLINE PRIVATE LIMITED
237.	U72300UP2016PTC076826	ARTISTRY DREAMS PRIVATE LIMITED
238.	U72300UP2016PTC075597	CREATIVE THINKOSYS WEB SERVICES PRIVATE LIMITED
239.	U72300UP2015PTC074752	BLUEFLOYD TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
240.	U72300UP2015PTC074565	BITNEXT TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
241.	U74999UP2016OPC087301	CYBER BLOGS ONLINE CONTENTS (OPC) PRIVATE LIMITED
242.	U74999UP2016OPC084136	HERB BASKET TRADECOM (OPC) PRIVATE LIMITED
243.	U74999UP2014PTC064959	SHRI HARIVASUDEVA DAIRY & AGRO PRODUCTS PRIVATE LIMITED
244.	U74999UP2003PTC027328	PAAS MARKETING PRIVATE LIMITED
245.	U74992UP2014OPC065112	ARC INSTITUTE OF CAPITAL MARKET & INVESTMENT CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
246.	U74900UP2016PTC076579	NEXTMOVE STUDY ABROAD AND IMMIGRATION SERVICES PRIVATE LIMITED
247.	U74900UP2016PTC076435	FLYING KITES SERVICES PRIVATE LIMITED
248.	U74900UP2014PTC064631	ROCKLANE INVESTIGATIONS AND CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
249.	U74900UP2014PTC063918	SUNBEAM DECOR AND DESIGNS PRIVATE LIMITED
250.	U74900UP2014PTC063604	RECREATION CONSULTANCY SERVICES PRIVATE LIMITED
251.	U74900UP2013PTC061209	PANLIFE PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
252.	U74900UP2013PTC061185	NAD BINDU LIQUOR AND BEVERAGES PRIVATE LIMITED
253.	U74900UP2013PTC060951	TACTIX DEVELOPERS PRIVATE LIMITED
254.	U74900UP2011PTC045553	U S P MANTRAS ADVERTISING PRIVATE LIMITED
255.	U74900UP2011PTC045495	SHANKARGOPALAN INVESTMENT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
256.	U74900UP2010PTC042945	EARTHWAY INFRABUILD PRIVATE LIMITED
257.	U74210UP2011PTC043723	BHAGAT ARCH INNOVATIONS PRIVATE LIMITED
258.	U74140UP2010PTC040166	MANA CONSULTING SERVICES PRIVATE LIMITED
259.	U74140UP2008PTC057304	NKPG CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
260.	U74140UP2006PTC032480	NAVYAA CONSULTANT & ALLIED SERVICES PRIVATE LIMITED
261.	U74140UP1993PTC015957	ALEX BUSINESS CONSULTANTS PRIVATE LIMITED
262.	U74120UP2016PTC077557	CRETASQUARE PLAZA PRIVATE LIMITED
263.	U74120UP2016PTC076354	SUNOSTAR HOMES PRIVATE LIMITED
264.	U74120UP2015PTC075409	HUMOURCE HR SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
265.	U74120UP2015PTC075052	ASIALINK SHIPPING SERVICES PRIVATE LIMITED
266.	U74120UP2015PTC074869	PIGGIE BIGGIE ESERVICES PRIVATE LIMITED
267.	U74120UP2015PTC074381	OZEAN INDUSTRIES PRIVATE LIMITED
268.	U74120UP2015PTC074127	RAPID TRANSPAY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
269.	U74120UP2015PTC073850	PERFECT LEISURES PRIVATE LIMITED
270.	U74120UP2015PTC073111	TALENT BUZZ SERVICES PRIVATE LIMITED
271.	U74120UP2015PTC073077	RURAL JOBS CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
272.	U74120UP2015PTC072726	MAXUS EXPORTS PRIVATE LIMITED
273.	U74120UP2015PTC072582	DIGITAL E-HAWKS PRIVATE LIMITED
274.	U74120UP2015PTC072284	SMART VALUEPRO SERVICES PRIVATE LIMITED
275.	U74120UP2015PTC072222	G MAX TECH PROFESSIONALS PRIVATE LIMITED
276.	U74120UP2015PTC071930	AMPLETACT IT SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

277.	U74120UP2015PTC069695	ZAIVA SECURITY SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
278.	U74120UP2015PTC069343	OMPAL CREATIONS PRIVATE LIMITED
279.	U74120UP2015PTC068368	G M MULTICONSULTANTS PRIVATE LIMITED
280.	U74120UP2015OPC074322	DOZE N DREAM METALS (OPC) PRIVATE LIMITED
281.	U93030UP2013PTC057566	R V SECURITY SOLUTION PRIVATE LIMITED
282.	U93000UP2017OPC090208	WEDBELL SERVICES (OPC) PRIVATE LIMITED
283.	U93000UP2010PTC042950	AFIFA CONSULTANCY PRIVATE LIMITED
284.	U93000UP2009PTC038077	SAI INSTITUTE OF TAX & COMPUTER ACCOUNTANTS PRIVATE LIMITED
285.	U93000UP2007PTC034342	TOUCHSTONE FINVEST SERVICES PRIVATE LIMITED
286.	U92412UP2012PTC053537	SAG GOLFING SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
287.	U91990UP1935PTC000690	THE MEERUT BULLION ASSOCIATION PRIVATE LIMITED
288.	U85191UP2016PTC075574	MERRYSUN PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
289.	U85191UP2015PTC075164	CHANDRAAROGYAM HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
290.	U85191UP2015PTC070986	AISLEY HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
291.	U85191UP2012PTC052100	NUAZEMED PHARMACEUTICALS PRIVATE LIMITED
292.	U85191UP2012PTC051979	BOSON MEDICARE PRIVATE LIMITED
293.	U85191UP2011PTC043424	SAF HEALTHCARE PRIVATE LIMITED
294.	U85190UP2007PTC034347	OLYEX PHARMACEUTICAL PRIVATE LIMITED
295.	U85110UP1978PTC004580	ANOOP METAL AND ENGINEERING WORKS PRIVATE LIMITED
296.	U85100UP2013PTC060699	SHABAD MEDICALS SERVICE PRIVATE LIMITED
297.	U85100UP2010PTC039911	EISHA MEDIDIAGNOSTICS PRIVATE LIMITED
298.	U80904UP2016PTC084791	GENTIAN EDUCATION VENTURE PRIVATE LIMITED
299.	U80904UP2016PTC076162	SATYASHA EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
300.	U80904UP2015PTC069762	SIDD SCOTT EDUCATION PRIVATE LIMITED
301.	U80904UP2013PTC058845	D K PSYCHOLOGY STRENGTH PRIVATE LIMITED
302.	U80904UP2012PTC048359	VIJAY EDUCATIONAL SERVICES PRIVATE LIMITED
303.	U75144UP2015PTC072437	SPECIAL COMMANDO SECURITY PRIVATE LIMITED
304.	U74999UP2017PTC094242	VISHAV BHARTI HERBS PRIVATE LIMITED
305.	U74999UP2017PTC091523	ZAKON BUSINESS SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
306.	U74999UP2017PTC090181	C. L. & SONS FOODS PRIVATE LIMITED
307.	U74999UP2017FTC096174	FUNGE EXHIBITION INDIA PRIVATE LIMITED
308.	U74999UP2016PTC088589	MINE INFRATECH PRIVATE LIMITED
309.	U74999UP2016PTC087621	GOYAL PACKMET & DESIGNERS PRIVATE LIMITED
310.	U74999UP2016PTC087546	AURACOMM NETWORKS PRIVATE LIMITED
311.	U74999UP2016PTC087380	AKVSM INFRA POWER PRIVATE LIMITED
312.	U74999UP2016PTC086079	STRATSTRONG SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
313.	U74999UP2016PTC086056	SHRIHARI WINE BEVERAGES PRIVATE LIMITED
314.	U74999UP2016PTC085630	NAVMA SYSTEMS (INDIA) PRIVATE LIMITED
315.	U74999UP2016PTC084651	BYNAO TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
316.	U74999UP2016PTC083766	NEMBSYS TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
317.	U74999UP2016PTC083596	SISKIN HEALTH AND HOSPITALITY PRIVATE LIMITED
318.	U74999UP2016PTC083124	SOPHIYA ADVERTISING PRIVATE LIMITED
319.	U74999UP2016PTC082894	FOODMONK TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED
320.	U74999UP2016PTC082884	NEWWAYS HEALTH AND LIFESCIENCES PRIVATE LIMITED
321.	U93090UP2006PTC032675	OM BPO SOLUTIONS PRIVATE LIMITED
322.	U93030UP2015PTC071155	EASYCARE SOLUTIONS PRIVATE LIMITED

323.	U93030UP2015OPC071759	COMMON SERVICE PROVIDERS PRIVATE LIMITED (OPC)
324.	U93030UP2013PTC060632	VR4U SERVICES PRIVATE LIMITED
325.	U93030UP2013PTC058381	ANU RAJENDRA ENTERTAINMENT PRIVATE LIMITED
326.	U93030UP2013PTC057856	R3 MANTRA SPA SERVICES PRIVATE LIMITED

FORM No. STK - 6

PUBLIC NOTICE

[Pursuant to sub-section (2) and sub-section (4) of section 248 of the Companies Act, 2013 and rule 7 of the Companies (Removal of Names of Companies from the Register of Companies) Rules, 2016]

Public Notice No. 27032018

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of companies under section 248 (2) of the Companies Act, 2013 in respect of:

Goa, the 27th March, 2018

1. M/s. JAI RAGHUVVEERA DEVELOPERS PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014019/2018
2. M/s. SWARUPA YOGADHAM PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014018/2018
3. M/s. COLEVA HOLIDAY HOMES PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014017/2018
4. M/s. BLUE BAY INDIA MULTI TRADING PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014016/2017
5. M/s. JAI RAGHUPATI BUILDERS PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014015/2018
6. M/s. JAI RAGHUVVEERA BUILDCON PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014014/2018
7. M/s. JAI RAGHUVVEERA MANSIONS PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014013/2018
8. M/s. GOAWAY PHARMA PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014012/2018
9. M/s. LE ROI ARTHUR CATERING PRIVATE LIMITED ROCGoa/248(2)/014011/2017

Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications from the above mentioned companies under section 248(2) of the Companies Act, 2013 for removal of its/their name (s) from the register of companies either on the ground that they have failed to commence business within one year of their incorporation or on the ground that the company (ies) is/are not carrying on any business or operation for a period of two immediately preceding financial years and has/have not made any application (s) within such period for obtaining the status of a dormant company under section 455 of the Companies Act, 2013 or the company(ies) have obtained the status of dormant company, but it/they do not wish to continue its/their registration as companies and have, therefore, requested for removal/strike off of its/their names from the register of companies.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned companies from the Register of Companies.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the companies from the register of companies may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

Registrar of Companies

PUBLIC NOTICE**[Pursuant section 75 of the LLP Act, 2008 and rule 37(1) (b) of the LLP Rules, 2009]**

Public Notice No. ROCCBE/LLP – Rule 37(1) (b)/2018/1.—

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of LLPs under section 75 of the LLP Act, 2008 and rule 37(1)(b) of the LLP Rules, 2009 in respect of:

Coimbatore, the 2nd April, 2018

SL .No	LLP Name	LLPIN	SRN
1	SASMA CONSULTANCY AND MANAGEMENT SERVICES LLP	AAE-1986	M05861729
2	BLUELANCE TECHNOLOGIES LLP	AAC-0457	M05833892
3	ZEN YOG LLP	AAB-7238	M05792395
4	MINAXY RETAILS LLP	AAB-3243	M05724786
5	TRIDENT HR PARTNERS LIMITED LIABILITY PARTNERSHIP	AAD-4252	M05705678
6	APIS GARMENTS & TEXTILES LLP	AAF-5863	M05607734
7	CADEM HRM SERVICES LLP	AAG-0360	M05465968
8	INTRICATE ARTISANS RETAIL SERVICES LLP	AAB-9878	M05020516
9	PRAVISH LINENS LLP	AAD-0474	M04895314
10	DREIDEL TECHNOLOGIES LLP	AAC-1645	M04827796
11	RAVI YUVARAJ EXIM LLP	AAB-3079	M04765251
12	FLAMEX INDIA GROOVED JOINTS LLP	AAC-3632	M04696639
13	MAHATRU POWER SOLUTIONS LLP	AAC-3529	M04492393
14	IVEB HEALTH & EDUCATION LLP	AAC-1029	M04408985
15	HAMSINI JEWELLERY LLP	AAF-4080	M04403168
16	APPZINGO TECHNOLOGIES LLP	AAC-9593	M04350336
17	CARBON FERRO FOUNDRY LLP	AAB-0278	M04301198
18	NANBARGAL PHARMA LLP	AAB-0777	M03790433

(1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies had received applications in Form 24 from the above mentioned LLP's under section 75 of the LLP's Act, 2008 for removal of its/their name (s) from the register of LLP's either on the ground that not carrying on any business or operation for a period of one year or more and has made an application in Form 24 to the Register, with the consent of all partners of the LLP for strike off its name from the register.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned LLP's from the Register of LLP's.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the LLP's from the register of LLP's may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

K.LATHA PARIMALA VADANA, ICLS
Registrar Of Companies, Tamil Nadu
Coimbatore

PUBLIC NOTICE

[Pursuant section 75 of the LLP Act, 2008 and rule 37(1) (b) of the LLP Rules, 2009]

Public Notice No. ROCCBE/LLP – Rule 37(1) (a)/2018/1.—

Reference:

In the matter of striking off or removal of names of LLPs under section 75 of the LLP Act, 2008 and rule 37(1) (a) of the LLP Rules, 2009 in respect of:

Coimbatore, the 3rd April, 2018

Sl.No	LLPIN	LLP Name
1	AAA-0095	THINK ASIA COMMERCIO LLP
2	AAA-0390	P.A.CONTROLS & AUTOMATION ENGINEERS LLP
3	AAA-1165	AVATAR INTEGRA LLP
4	AAA-1301	K P R DETERGENTS LLP
5	AAA-2211	NAV MARG INVESTMENT SERVICES INDIA LLP
6	AAA-2250	ATHMA BROADBAND CONNECTION LLP
7	AAA-2402	365 CORPORATE SOLUTIONS LLP
8	AAA-2500	TEMPLAR VENTURES LLP
9	AAA-2831	KOVAI COMFORTS LLP
10	AAA-3202	CONTINENTAL AGRO COMMODITIES SOLUTIONS LLP
11	AAA-3331	PHYZOK LEARNING SOLUTIONS LLP
12	AAA-3661	M2B CLAY & BRICK SERVICES LLP
13	AAA-4568	SENTHUR AGRO FOOD PRODUCTS LLP
14	AAA-5610	KOVAI SUPERMARKET LLP
15	AAA-5662	ANEE SIMPEX TRADING LLP
16	AAA-7049	ALPHA HIGHWAY SOLUTIONS LLP
17	AAA-7380	Y&S AGENCIES LLP
18	AAB-0607	SPRINGLIFE HEALTHCARE COIMBATORE LLP
19	AAB-0824	APPLE PINK TRAINING & CONSULTANCY LLP
20	AAB-1149	YOLO FOOD AND RESTAURANTS LLP
21	AAB-1850	IDEAL SAVINGS AND INVESTMENT PLANNERS LLP
22	AAB-2531	RABACA CONTROLS AND SYSTEMS LLP
23	AAB-2554	QASWA TRANSPORT SERVICES LLP
24	AAB-2965	AADYANTHA LIFESTYLE ENVIRONS LLP
25	AAB-3395	KADHAMBAM ENTERPRISE LLP
26	AAB-4856	PURPLE BAY FOUNDATIONS LLP
27	AAB-5659	AMISTAD FOODS LLP
28	AAB-5723	FAZTA BUSINESS SERVICES LLP
29	AAB-6488	LEARNINGBOX CONSULT LLP
30	AAB-7018	ZHA WEB MEDIA TECHNOLOGY SERVICES LLP
31	AAB-7117	SHA MARCHIO FOODS & BEVERAGES LLP
32	AAB-7399	MARAGATHARATHINAM SOFTWARES LLP
33	AAB-8441	CHENDUR MURUGAN TRADERS LLP
34	AAB-8442	MCUBE ADVERTISING LLP
35	AAB-8853	BLUEBON INTERNATIONAL IMPEX LLP

36	AAB-9623	MAGNETIC CONTROLS AND ELECTRICAL SYSTEMS INDIA LLP
37	AAB-9874	CRAYONS AND CANDIESPRODIGY SCHOOL LLP
38	AAB-9875	EVONOVA INTERACTIVELLP
39	AAB-9938	CIRCUMFUSION TECHNOROOT LLP
40	AAC-1030	FENNEL LEARNING SOLUTIONS LLP
41	AAC-1314	CHENDOOR ANDAVAR MINING RESOURCES LLP
42	AAC-1822	QUALPIX INFO SOLUTIONS LLP
43	AAC-2156	FRESCO GARMENTS LLP
44	AAC-2451	RMV PROMOTERS LLP
45	AAC-3322	SANHAR SOFTWARE RESEARCH LAB LLP
46	AAC-3756	MAX O MAX CONSUMER GOODS AND SERVICES LLP
47	AAC-4449	WELKYN TRADE CORPORATION LLP
48	AAC-4665	SM WEAVINGS LLP
49	AAC-5230	FUSION DECORS LLP

(1) Notice is hereby given that the Registrar of Companies has a reasonable cause to believe that the above mentioned LLP's under section 75 of the LLP's Act, 2008 for removal of its/their name (s) from the register of LLP's either on the ground that not carrying on any business or profession for the period of 2 (two) years or more and the registrar has the reasonable cause to believe the same, the registrar can take suo moto action and send notices to the concerned LLP and all its partners specifying the registrar's intention to strike off its name from register.

(2) Accordingly, the Registrar of Companies proposes to remove or strike off the names of the above mentioned LLP's from the Register of LLP's.

(3) Any person objecting to the proposed removal or striking off of name of the LLP's from the register of LLP's may send his or her objection to the office address mentioned here above within thirty days from the date of publication of this notice.

K.LATHA PARIMALA VADANA, ICLS

Registrar Of Companies, Tamil Nadu

Coimbatore